

देश का विश्वसनीय अखबार द्विति भारकार

झांसी | वर्ष-73, अंक-363 | शनिवार ०३ दिसम्बर २०२२ | कुल पृष्ट १३ | मूल्य ४.०० |

dainikbhaskarup.com

छोटीबड़ीबात

आज ही के दिन 1971 में

परमवीर चक्र सम्मानित

नायक अल्बर्ट एक्का का

भारतीय सैनिक लांस

निधन हुआ था।

यक्रेन पर हमले तेज करेगा रूस

ਖੇਗ 10≯

सौराष्ट्र बना विजय हजारे चैंपियन

एमसीडी चुनाव पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया चुनाव है, लिहाजा अब सुनवाई का कोई

है। कोर्ट ने कहा कि 4 तारीख को औचित्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने इससे पहले वार्ड परिसीमन और 🜬 आरक्षण पर

सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से चुनाव पर रोक की मांग की थी। परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार ने मूल अवधारणा और किए गए वायदों से अलग लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर परिसीमन रिपोर्ट बनाई है। इसमें वार्डों में जनसंख्या समीकरण का उल्लंघन किया

गया है। याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार की े ओर से दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग–थलग करके नियमों की पूरी तरह से

स्वयंभू संत स्वामी चक्रपाणि की याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की निगरानी कर रही संस्था 'राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट' में खुद को शामिल करने के लिए स्वयंभू संत स्वामी चक्रपाणि की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए चक्रपाणि को संबंधित ट्रस्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने कहा, " हमें खेद है। हम यहां इस याचिका पर विचार नहीं करने जा रहे हैं। आप जो चाहें करें।" याचिकाकर्ता ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में खुद को शामिल करने के लिए ट्रस्ट के संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी।

अवहेलना की गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने एमसीडी के वार्डी के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर निगम में कुल वार्डों की संख्या २७२ से घटा कर २५०

कर दिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट के रोक लगाने से इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-२०२३ को लेकर निवेशकों में दिख रहा उत्साह

यूपी में निवेश के लिए 1.68

आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले की सुनवाई टली, अगली तारीख पांच जनवरी को

वाराणसी। ज्ञानवापी प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट याचिका में आदि विश्वेश्वर विराजमान के केस की को अदालत ने सुनवाई शुक्रवार को टल गई। इस मामले में अब सुनवाई योग्य अगली सुनवाई की तिथि अदालत ने पांच जनवरी माना है नियत की है। विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर राष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह विसेन और अन्य के द्वारा दाखिल याचिका में ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश रोकने और वहां मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगा गया है। इस याचिका को अदालत ने सूनवाई योग्य माना है। वादी पक्ष के अधिवक्ताओं मानबहादूर सिंह, शिवम गौड़ और अनुपम द्विवेदी ने सुनवाई में अपना पक्ष रखने की तैयारी की थी। दाखिल याचिका पर 17 तारीखों पर पोषणीयता (मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं) का आदेश आया था। मामले की सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष की ओर से पांच बिंदुओं पर दलीलें दी गई।

ट्रांसजेंडर्स के लिए नामांकन शुल्क में छूट की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर्स के लिए बार काउंसिल या वकील के रूप में नामांकन शुल्क में छूट देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस मामले को सीजेआई डीवीई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा राव की पीठ के समक्ष पेश किया गया। मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के मानदंड संवैधानिक अदालतों को नामांकन शुल्क में छूट जैसे आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, 'आप यह नहीं कह सकते हैं कि ट्रांसजेडर से नामांकन फीस नहीं लें। फिर ये छूट सिर्फ ट्रांसजेंडर को ही क्यों, ये तो महिलाओं, दिव्यांगों और असहाय लोगों को भी मिलनी चाहिए।' सीजेआई ने कहा कि आपको न्यायिक समीक्षा के मानदंड को समझना होगा। इसके साथ ही सीजेआई ने टिप्पणी की है कि अगर कानूनी पेशा में इस तरह की छूठ दी जाती है तो फिर ये मेडिकल के झेत्र सहित अन्य सेक्टरों में लागू होनी चाहिए और वहां भी छूट मिलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा के तहत इस तरह के आदेश पारित करने की अनुमित नहीं दी जा सकती है।

सारसूर्खियां

सौम्या चौरसिया गिरफ्तार कस्टडी में रखकर ईडी करेगी पूछताछ

रायपुर। ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश सरकार की उप सचिव सौम्या चौरसिया को अरेस्ट किया गया है। ईडी ने न्यायाधीश अजय सिंह की अदालत में शुक्रवार की शाम सौम्या को पेश किया। इससे पहले सौम्या को अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। रूटीन चेकअप के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया गया। सौम्या चौरसिया को अब 6 दिसंबर को पेश किया जाएगा। ईडी की कार्रवाई में ये 5वीं गिरफ्तारी है। अदालत में सौम्या को पेश कर ईडी ने पूछताछ के लिए वक्त मांगा। ईडी की तरफ से कहा गया कि कम से कम सप्ताहभर के लिए सौम्या को कस्टडी में रखकर पूछताछ करना चाहते हैं। ईडी ने दावा किया है कि कोल माइनिंग में अवैध लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में सौम्या के खिलाफ कुछ अहम सबूत मिले हैं।

छुई खदान धसकने से हुए हादसे में छह ग्रामीणों के शव बरामद

जगदलपुर। जिले के नगरनार थाना क्षेत्र अंर्तगत बस्तर जिला मुख्यालय से 10 किमी की दूरी पर मालगांव छुई खदान से छुई निकलने का काम कर रहे ग्रामीण के ऊपर छुई धसकने से हुए हादसे में अभी तक 5 महिलाएं एवं एक पुरूष के साथ 06 ग्रामीणों के शव बरामद हुए हैं। इनमें दशमती/डिलेश्वर उम्र 40 वर्ष, कमली/बंशीधर उम्र 30 वर्ष, शांति/हरी उम्र 42 वर्ष, कुमारी/ इश्वर उम्र 35 वर्ष, सायली/ कमलसाय उम्र ३० वर्ष एवं रामेश्वर/ तुलसीराम उम्र 48 वर्ष शामिल है। वहीं घायल 02 ग्रामीणों मनमति/रामेश्वर उम्र 46 वर्ष एवं पूर्णिमा/डिलेश्वर उम्र 12 वर्ष को सुरिक्षत निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है।

लाख करोड़ के आए प्रस्ताव नवंबर तक 1.68 लाख करोड़ रुपये

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 (जीआईएस-23) में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। अभी जीआईएस-23 को आयोजित होने में दो माह से ज्यादा का वक्त

है और सरकार पोर्टल नि वे श सारथी के उसे 30

ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसकी पूर्ति के लिए अगले साल 10 से 12 फरवरी के राजधाना खिनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का

रुपये के एमओयू साइन किए जा

चुके हैं। इन एमओयू के जरिए 5.5

लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को

अर्थव्यवस्था बनाने की मंशा के

अनुरूप उत्तर प्रदेश को वन

पैदा होने की संभावना है।

पांच ट्रिलियन डॉलर

आयोजन किया जा रहा है। निवेश से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो सारथी डैशबोर्ड के अनुसार पोटर्ल चुके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि के जरिए निवेशकों के साथ कुल इससे पहले 1.25 लाख करोड़ 148 एमओयू अब तक साइन किए जा चुके हैं। इन 148 एमओयू के जरिए सरकार को कुल एक लाख 25 हजार 885 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हए हैं।

इन एमओयू के जरिए होने वाले निवेश से उत्तर प्रदेश में पांच लाख 63 हजार 496 नौकरियों के सृजन की संभावना है। इन एमओय से इतर, पोर्टल के जरिए अब भी 315 निवेश के प्रस्ताव ऐसे हैं जो अभी एमओयू की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनके साथ भी एमओय की प्रक्रिया पुरी होती है तो उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर सामने आएंगे। पोर्टल पर 30 नवंबर तक निवेशकों की ओर से कुल 472 इंटेंट प्राप्त

किए गए हैं। इन इंटेंट का प्रस्तावित

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा निवेश सारथी

इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर्स सिमट पूर्व की इन्वेस्टर्स सिमट से कुछ अलग है। हर बार निवेशक खुद ही सरकार को एप्रोच करता है लेकिन इस बार सरकार स्वयं निवेशकों को एप्रोच कर रही है और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश लायक परिस्थितियों से रूबरू करा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से निवेश सारथी के नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए ही निवेशक प्रदेश में निवेश का अपना इंटेंट दाखिल कर रहे हैं और यहां संबंधित विभाग से जुड़े नोडल अधिकारी उन्हें व्यापार और निवेश से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं। नोडल अधिकारी इंटेंट फाइल करने वाले निवेशकों का फॉलो-अप भी कर रहे हैं। उन्हें एमओयू तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की इस बदली हुई एप्रोच का ही नतीजा है कि आधिकारिक रूप से लांच होने से पहले ही इस पोर्टल पर सरकार को सवा लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल गए थे। उम्मीद की जा रही है कि सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जीआईएस-23 की शुरुआत तक सरकार उसके काफी करीब

निवेश एक लाख 68 हजार 759 तब्दील हो जाएं तो इनसे छह लाख लाख से भी ज्यादा का है। यदि ये 79 हजार 338 नौकरियों का सृजन सभी इंटेंट एमओयू और निवेश में संभव है।

अगले साल से युपीएससी के माध्यम से होगी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) में भर्ती अगले साल से यूपीएससी द्वारा विशेष रूप से डिजाइन की गई परीक्षा के जरिए की जाएगी। रेल मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यपीएससी) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के परामर्श से रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) में भर्ती यूपीएससी द्वारा वर्ष 2023 से आयोजित की जाने वाली विशेष रूप से डिजाइन परीक्षा (आईआरएमएस परीक्षा) के माध्यम से की जाएगी। इसमें कहा गया है कि आईआरएमएस दो स्तरीय परीक्षा होगी। इसमें एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसके बाद एक मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। सभी पात्र उम्मीदवारों को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में शामिल होना होगा और सफल उम्मीदवारों की आईआरएमएस (मुख्य) परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा और प्रयासों की संख्या सिविल सेवा परीक्षा के समान ही होगी।

मनी लांड्रिंग मामले में ईडी के चेन्नई, मुंबई व दिल्ली में कई कंपनियों पर छापे

• करोड़ों की नकदी और आभूषण जब्त

नई दिल्ली। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले आज एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पीएमएलए के तहत चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईड़ी ने सिक्योरक्लाउड टेक लिमिटेड, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, यूनिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डेजर्ट रिवर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड और इसके और प्रमोटरों के कार्यालय आवासीय परिसर की तलाशी ली

करोड़ों की संपत्ति जब्त की इस मामले में ईडी द्वारा मारे गए छापों में 1.04 करोड़ रुपये नकद, सोने और हीरे के आभूषण मिले हैं

और 30 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों का खुलासा हुआ है। ईडी ने इसी के साथ विभिन्न डीमैट खातों में अन्य चल संपत्ति के साथ-साथ आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों को जब्त किया है।

160 करोड़ के शेयरों का है

बता दें कि ईडी को पीएमएलए जांच से पता चला कि इन शेयर ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा कंपनियों के निदेशकों और लाभार्थी मालिकों ने 160 करोड़ रुपये के शेयरों को ऑफ-मार्केट में स्थानांतरित कर बेच दिया है। इसके जरिए अपराधियों ने अच्छी खासी रकम कमाई है।

चुनाव में मोदी को गाली देना और ईवीएम में किमयां निकालना कांग्रेस का काम

अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव के दुसरे चरण के लिए भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को चार जिलों में चुनावी सभा की। उन्होंने अपने धुआंधार प्रचार अभियान में कांग्रेस पर जमकर

उन्होंने कहा कि मोदी को गाली देना और ईवीएम में कमियां निकालना



कांग्रेस का काम है। उन्होंने साफ किया कि गुजरात में भाजपा की पूर्ण बहमत से सरकार बन रही है। शुक्रवार को नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में बनासकांठा के कांकरेज, पाटण, आणंद के सोजित्रा और अहमदाबाद में चुनावी सभाएं की। पाटण में

कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि उनके पास दो ही काम है, ईवीएम की खामियां निकालना और मोदी को गालियां देना।

समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर सेना में बेटियों की भर्ती तक कई अभूतपूर्व फैसले

भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में भर्ती : सरकार

अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लखनऊ में होगाः योगी



शक्रवार को प्रबद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अगले साल फरवरी में लखनऊ में होगा। इसमें विश्व भर के औद्योगिक इकाइयों के उद्यमी भाग लेंगे। श्री योगी ने उम्मीद जताई कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग एक ट्रिलियन डालर की होगी और देश की अर्थव्यवस्था जल्द ही पांच ट्रिलियन के आंकड़े को छू लेगी। उन्होंने कहा कि 37000 गरीबों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मुरादाबाद में मिल चुका है। जबकि प्रदेश में 45 लाख से अधिक पात्रों को इसका लाभ मिला है।

कैप्टन अमरिदर, स्वतंत्र देव बने भाजपा राष्ट्रीय

कार्यसमिति सदस्य नयी दिल्ली। भाजपा ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और पंजाब कांग्रेस के पूर्व नेता सुनील जाखड़ को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य मनोनीत किया है। पार्टी की ओर से शुक्रवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। पार्टी ने कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आए श्री जयवीर शेरगिल को राष्ट्रीय प्रवक्ता पंजाब नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सर्व मदन कौशिक, विष्णु देव साय, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, मनोरंजन कालिया और श्रीमती अमरजोत कौर रामूवालिया को राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किया गया है।

मजबूत राडार नेटवर्क के साथ उत्तर-पूर्व में उड़ान गतिविधियों पर है भारत की कड़ी नजर

चीनी ड्रोन्स की गतिविधियां देख सुखोई फाइटर जेट हाई अलर्ट पर

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी ड्रोन की बढ़ती गतिविधियां देख भारतीय वायु सेना भी अलर्ट हो गई है। इस हफ्ते में कई बार चीन के ड्रोन्स ने भारतीय क्षेत्र की ओर उड़ान भरने की कोशिश की है, लेकिन वायु सेना ने क्षेत्र में अपने मजबूत राडार नेटवर्क के साथ चीन की गतिविधियों पर नजर जमा रखी है। आम तौर पर एलएसी की स्थिति शांतिपूर्ण है लेकिन हाल के

दिनों में कई ऐसे मौके आए हैं जब भारत के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरनी पड़ी है। भारतीय वायु सेना के एक वरिष्ठं अधिकारी के मुताबिक इस समय उत्तर-पूर्व में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी ड्रोन्स की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी पड़ रही है, क्योंकि एलएसी के साथ चीनी ड्रोन ने अपनी तरफ से भारतीय क्षेत्र की ओर उड़ान भरने की

कोशिश की है। वायु सेना क्षेत्र में

अपने मजबूत राडार नेटवर्क के

लड़ाकू विमानों को असम के तेजपुर और छाबडा समेत कई जगहों पर किया गया तैनात

साथ उत्तर-पूर्व में उड़ान गतिविधियों पर नजर रख रही है। कई ऐसे मौके भी आए हैं जब भारत के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरनी पड़ी है, क्योंकि ड्रोन

या किसी भी विमान को हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वायू सेना को इसलिए भी अलर्ट पर रखा गया है कि अगर चीन की तरफ

से भारतीय क्षेत्र की ओर उड़ने वाले विमान या ड्रोन राडार की पकड़ में आते हैं, तो किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की भारतीय सीमा में चीनी ड्रोन्स की घुसपैठ रोकने के लिए असम के तेजपुर से भारत ने फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया है। फाइटर जेट के स्क्रैम्बल का मतलब इन विमानों को हमले अथवा संघर्ष के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार करना होता है। राफेल लड़ाकू जेट को भी पश्चिम

बंगाल में हाशिमारा के बहुत करीब तैनात किया गया है। भारतीय वायु सेना ने अभी केवल असम सेक्टर में एस-400 मिसाइल डिफेन्स सिस्टम के साथ अपनी वायु रक्षा कवरेज मजबूत की है। यह रूसी सिस्टम लगभग पूरे क्षेत्र में किसी भी हवाई खतरे का ध्यान रख सकता है। पूर्वोत्तर के रणनीतिक और सामरिक महत्व को देखते हुए भारतीय वायु सेना की असम के तेजपुर और छाबड़ा सहित कई स्थानों पर दमदार मौजूदगी है। इस साल की शुरुआत में लद्दाख सेक्टर में चीन की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र के उल्लंघन

की कई घटनाएं हुई थीं, जिसके बाद दोनों पक्ष किसी भी हवाई वृद्धि को रोकने के लिए कई उपायों पर सहमत हुए थे। भारतीय पक्ष ने पिछली कमांडर स्तरीय सैन्य वार्ता में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाया था। बैठक में निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्षों के लड़ाकू विमान अपने-अपने क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से काफी पीछे रहेंगे। भारतीय वायु सेना ने लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थापित कई नए राडार के साथ अपनी निगरानी क्षमताओं को भी उन्नत

चित्रकूट

दरिद्र व्यक्ति कुछ वस्तुएँ चाहता है, विलासी बहुत-सी और लालची सभी वस्तूएँ चाहता है।

- अज्ञात

पूर्व सांसद बालकुमार पटेल के गनर की संदिग्ध दशा में गोली लगने से मौत



बाल कुमार के साथ गनर योगेश मिश्रा की

🔳 घटना की बारीकी से हो रही जांचः एएसपी

चित्रकूट। मिर्जापुर के पूर्व सांसद बालकुमार पटेल की सुरक्षा में तैनात गनर योगेश मिश्रा की संदिग्ध दशा में गोली लगने से मौत हो गई। उनके छोटे भाई ने बताया कि ड्यूटी से लौटने के बाद देर रात कारबाइन साफ करते समय गोली चल गई। सीने में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। ये हादसा देर रात कोतवाली कर्वी के बलदाऊगंज मोहल्ले में हुआ। बताया गया कि मिर्जापुर के पूर्व सांसद बालकुमार पटेल का रानीपुर भट्ट में आवास है। मूल रुप से छेछरिहाखुर्द के निवासी योगेश मिश्र वर्तमान में बालकुमार की सुरक्षा में तैनात थे। वह सेना से सेवा निवृत्त होने के बाद सिविल पुलिस में भर्ती हुए थे। मिर्जापुर में मूल रुप से उनकी तैनाती थी।

गुरुवार देर रात संदिग्ध दशा में कारबाइन से गोली लगने पर उनके बलदाऊगंज स्थित आवास में मृत्यु हो गई। मृतक के छोटे भाई देवेन्द्र ने बताया कि पांच-छह माह पहले उनके भाई की पूर्व सांसद बालकुमार पटेल के गनर के रुप में तैनाती हुई थी। वह गुरुवार देर रात ड्यूटी से लौटे थे। अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा और कारबाइन साफ करने लगे। इसी बीच कारबाइन से चली गोली योगेश के सीने में लगी और वह लहुलुहान हो गये। देवेन्द्र ने बताया कि आवाज सुनकर दौडकर देखा तो भइया लहुलुहान पडे थे। उन्होंने भाभी से कहा कि अस्पताल ले चलो। अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जांच पडताल जारी है। घटना को लेकर तरह-तरह की बातों का बाजार गर्म है। एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी ने कहा कि घटना की बारीकी से जांच की जा रही है। सही तथ्य जैसे ही मिलेंगे उसी अनुरुप कार्यवाही की जायेगी।

कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को देकर साकार करें अन्त्योदय का सपना-डीएम

चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में शीतकालीन चैपाल का आयोजन विकासखंड मऊ के ग्राम पंचायत बरगढ में हुआ। जन चैपाल से पहले डीएम ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, महिला कल्याण विभाग, उद्यान विभाग, किसान सम्मान निधि, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बाल विकास पुष्टाहार विभाग के लगे काउंटरों का अवलोकन किए।

इसके बाद जिलाधिकारी ने संजय, साहबान, रामजी का अन्नप्राशन, हेमा व प्रियंका की गोदभराई की व पोषाहार वितरित किया। जन चैपाल में प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, सामुदायिक शौचालय, गांव में रास्ता, गौशाला, कन्या सुमंगला योजना, विद्युत विभाग, प्राथमिक विद्यालय, किसान सम्मान निधि, हैंडपंप रिबोर और नाली का निर्माण, इंटरलॉकिंग निर्माण, संचारी रोग नियंत्रण. उज्जवला योजना. आदि योजनाओं व ग्रामीण समस्याओं पर जिलाधिकारी ने ग्रामीण जनता से वार्ता की। मनरेगा के अंतर्गत उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों का जिसका जॉब कार्ड नहीं बना है उसका बनया जाए। जिलाधिकारी ने कोटेदारों के

रुपये-जेवर से

भरा पर्स पाकर

महिला के चेहरे

पर लौटी मुस्कान



समस्या सुनते डीएम।

बारे में गांव से वार्ता किया जिसमें गांव वालों ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। संचारी रोग नियंत्रण के वार्ता में उन्होंने पूछा कि गांव में फागिंग हुई है कि नहीं जिस पर गांव के लोगों ने कहा कि फागिंग हुई है। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि प्रधान व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलकर गांव में फागिंग और अच्छी तरह से कराएं। उज्जवला कनेक्शन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो लोग पात्र हैं जिसको नहीं मिला है उनका कैंप लगाकर के कनेक्शन कराएं । जिलाधिकारी ने कहा कि जन चैपाल के माध्यम से हम लोग समस्याओं

निस्तारण करा रहे है। उन्होंने बताया कि शासन की बहुत योजनाएं हैं वह आपके सामने लाया जा रहा है। कहा कि जो स्टाल लगे हैं उस पर आप लोगों की सहायता के लिए लगाया गया है।ताकि मुख्यालय आना पड़े। उन्होंने कहा कि शासन की बहुत योजनाएं जो पात्र हैं उनको मिलेगा। आशा. आंगनबाडी, सचिव क्षेत्र में ही रहते हैं उनसे संपर्क का सामाधान कराएं। उन्होंने कहा की शासन का मुख्य उद्देश्य गांव का विकास होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अन्ना पशुओं की समस्या को दूर किया जाएगा। इसमें किसानों के सहयोग की आवश्यकता

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देश पर चैकी सीतापुर पुलिस टीम ने रास्ते में गिरे पर्स जिसमें मोबाइल फोन,

नकदीं व ज्वेलरी को सकुशल पर्स धारक महिला के सुपुर्द किया। पर्स पाकर महिला के चेहरे पर खुशी लौट आई। शुक्रवार

को आपरेशन मुस्कान के तहत सीतापुर पुलिस चैकी के दरोगा शौकत खां की अगुवाई में पुलिस टीम को रास्ते में लावारिश

पर्स मिला। पर्स में मोबाइल फोन, नकदी व ज्वेलरी थी। पुलिस टीम ने पर्सधारक महिला मनोरमा शुक्ला पत्नी राजीव शुक्ला

ग्राम पडरी पूरे थाना गौरीगंज जिला अमेठी को सौंप दिया। इसके पहले पुलिस ने महिला से पर्स में रखे सामान का ब्यौरा

पूंछा। महिला ने बताया कि वीवो मोबाइल फोन, ढाई हजार रुपये और एक सोने की अंगूठी और चांदी का सिक्का तथा कुछ

जरुरी कागज पर्स में हैं। इस बात से संतुष्ट होकर पुलिस ने मनोरमा शुक्ला को पर्स सौंप दिया। पर्स पाकर मनोरमा शुक्ला

के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने पुलिस के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। पुलिस टीम में दरोगा शौकत खां, दरोगा

📘 चैपाल में जनता की समस्या सुनते डीएम

है। और जो समस्या है अधिकारी/ कर्मचारी यहां बैठे हैं समाधान कराया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशानुरूप व गुणवत्तापूर्ण कार्य कराएं। किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भूपेश द्विवेदी, उप जिलाधिकारी मऊ नवदीप शुक्ला, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, परियोजना निर्देशक ऋषि मुनि उपाध्याय, जिला विकास अधिकारी राजकुमार त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक बलिराज राम, बेसिक शिक्षा अधिकारी लव प्रकाश यादव, जिला पूर्ति अधिकारी बीके महान, समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला दिव्यांग अधिकारी प्रतिभा पाल, खंड विकास अधिकारी श्रवण गुप्ता, ग्राम प्रधान शैलेश शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकांत, लेखपाल कमल किशोर व संबंधित अधिकारी व

ग्रामीण उपस्थित थे।

सारसूर्खियां

तुलसी चैक की बजबजाती नालियों एवं जलभराव से लोगों का जीना दूभर



राजापुर,चित्रकूट। जहाँ एक ओर केंद्र व राज्य सरकार स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 75 घण्टे कूड़ा उठाओ अभियान एवं साफ सफाई पर विशेष निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजापुर नगर पंचायत के तूलसी चैक के वाशिदों का गन्दगी व जलभराव के कारण जीना दूभर हो रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत करबों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान करने के कड़े निर्देश दिए गए है।इसके बावजूद तुलसी चैक में सफाई व जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ के लोग नरकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो रहे हैं।इलाके के रमाकान्त गर्ग, रोहित अग्रहरि, रामस्वरूप केशरवानी के दरवाजे के सामने नाली न होने के कारण काफी मात्रा में गंदगी व जलभराव होने के कारण मच्छरों का प्रकोप अधिक बढ़ गया है। जिससे डेंग जैसे संक्रामक रोग फैलने की आशंका पैदा हो रही है। मोहल्ले के रमाकान्त गर्ग ने आरोप लगाते हुए बताया है कि नगर पंचायत राजापुर में कई बार नाली निर्माण एवं गङ्घों में जलभराव की शिकायत अधिशाषी आधिकरी को दिया गया है। लेकिन आज तक न तो नाली निर्माण किया गया और न ही जल जिकासी के लिए कोई व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार सोनू केशरवानी ने बताया कि तुलसी चैक से यमुना पुल रोड में नालियाँ कूड़ें कचरे से बजबजा रही हैं। जिसकी दुर्गन्ध से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं और मोहल्लेवासी काफी परेशान हैं। मोहल्ले के लोगों ने उपजिलाधिकारी राजापुर से माँग किया है कि बजबजाती नालियों की सफाई कराई जाए तथा जलभराव की निकासी कराई जाए।

डीएम अभिषेक आनंद ने बच्चे से कराया आंगनबाडी केंद्र बरगढ का लोकार्पण



चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को 'चतुर्थ आंगनबाड़ी केंद्र बरगढ' का लोकार्पण एक छोटे बच्चों के हाथ से कराए। जिलाधिकारी ने आशा कार्यकत्री से बच्चों के स्ट्रमेंट के बारे में पूछा। उन्होंने कहा सभी स्टूडेंट की व्यवस्था है कि नहीं।इस दौरान जिलाधिकारी ने बच्चे का वजन भी करा कर देखें ।

इस मौके पर डीएम ने कहा कि मीनू के हिसाब से पुष्टाहार दिया जाना चाहिए। उन्होंने आशा कार्यकत्री से गर्भवती महिला के बारे में पछा जी समय समय से संपर्क कर उनसे हालचाल लिया करें।इसके बाद जिलाधिकारी ने 'इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय बरगढ के कक्ष संख्या एक का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा अध्यापक से कह की रजिस्टेशन की सापेक्ष बच्चों की उपस्थिति कम है. आप लोग अभिवावकों से भी सम्पर्क करें। जिलाधिकारी कक्ष संख्या दो में रमार्ट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे बच्चों का क्लास रूम को भी देखें। क्लास में बच्चों को स्वेटर न पहने देकर उन्होंने अध्यापकों से कहा कि इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराए। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने स्कूल में टॉयलेट को चेक कीजिए। उन्होंने ग्राम प्रधान को निर्देशित किये कि साफ-सफाई भी कराते रहें । जिलाधिकारी ने विद्यालय के पास बने ग्राम सचिवालय में पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में और भी किताबें बढवाए।उन्होंने ग्राम प्रधान से कहा कि आप लोग बच्चों को गावों पुस्तकालय भेजें। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने जन सेवा केंद्र, प्रधान कक्ष व कंप्यूटर का कार्य निरीक्षण किए। इसके अलावाा जिलाधिकारी ने विनोबा नगर से अशोक रैदास के घर तक बन रहे रोड़ का निरीक्षण किया । मनरेगा की तरफ से लगे मजदूरों की जॉब कार्ड व मजदूरी के बारे में जानकारी लिए।

मांगें पुरी न होने तक जारी रहेगी हडताल चित्रकूट। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ऊर्जा निगमों के

शीर्ष प्रबंधन के स्वेच्छाचारी रवैये के विरोध में न्यायोचित मांगों के समाधान को लेकर धुस मैदान परिसर में कार्य बहिष्कार चैथे दिन भी जारी रखा। कहा कि मागें पूरी न होने तक समिति का केन्द्रीय नेतृत्व की अगुवाई में कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। शुक्रवार को धुस मैदान स्थित विद्युत कार्यालय में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के घटक दलों के बैनर तले सभा की अध्यक्षता करते हुए उपखण्ड अधिकारी इं शिवम गुप्ता ने कहा कि ऊर्जा निगमों में शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन की स्वेच्छाचारिता सेवा नियमों व श्रम कानुनों तथा मानवाधिकारों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मनमानी ढंग से कर्मचारियों का उत्पीडन हो रहा है। सहायक अभियंता इं रमाशंकर गृप्ता ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को कैसलेस इलाज की सुविधा दी जाये। उपखण्ड अधिकारी इं आशीष सिंह ने कहा कि विभाग में ईआरपी में बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जाचकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। अवर अभियंता इं अनुपम कुमार ने कहा कि सेवा के बाद पदोन्नति वेतनमान देकर पुरानी पेशन लागू की जाये। शिवप्रकाश अवस्थी ने कहा कि प्रबंधन के जारी विद्युत वर्कशाप के निजीकरण का आदेश वापस लिया जाये। सहायक अभियंता इं श्रीनिवास महाकुंड ने कहा कि आउट सोर्सिंग से परिचालन एवं अनुशरण के आदेश निरस्त किये जाये। सचालन करते हुए कर्मचारी नेता उमतलाल ने कहा कि संविदा कर्मियों को तेलंगाना की भांति नियमित किया जाये। कर्मचारी नेता लक्ष्मीनारायण पाल ने कहा कि केरल व हिमांचल की भांति सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण किया जाये। कर्मचारियों की जायज मांगों को स्वीकार न कर कुठाराघात किया जा रहा है। चेताया कि संयुक्त संघर्ष समिति के केन्द्रीय नेतृत्व की अगुवाई में मागे पूरी न होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। इस मौके पर इं आरएस वर्मा, इं रामचन्द्र, इं दुर्गेश कुमार सिंह, इं हमेन्द्र जाटव, इं राहुल सिंह, इं अनिल सिंह, इं विमलेश कुमार, इं आशीष सिंह, इं जितेन्द्र पटेल, इं प्रदीप गृप्ता, इं महेश कुमार, इं शैलेश प्रजापति, दिलीप शर्मा, रामआसरे, लक्ष्मीनारायण पाल, शिवसागर सिंह, विवेक कुमार, जुनैद हसन, सुशीलचन्द्र जोशी, हनीफ सौदागर, मजहर हसन, कमल कुमार, रामचन्द्र, दीनदयाल समेत

तीन सौ कर्मचारी धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे।

चित्रकूट जिले की नगर पालिका और तीनों नगर पंचायतों की आरक्षण सूची जारी

चित्रकृट। उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए वार्डो के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के भीतर इस संबंध में आपत्तियां और सझाव लिखित रूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। वार्डो के जारी आरक्षण सूची को देख कहीं ख़ुशियां तो कहीं मायूसी छा गई है।

आरक्षण सूची के अनुसार, नगर पालिका परिषद चित्रकृट धाम कर्वी का वार्ड नंबर एक चितरा गोकुलपुर अनुसूचित जाति महिला, वार्ड नंबर दो मणिकुंज महिला, वार्ड तीन एसडीएम कालोनी अनुसूचित जाति महिला, चार लक्ष्मणपुरी अनुसूचित वाड पाच राधवपुरा ।पछड़ा वर्ग और छह तुलसीनगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार वार्ड सात काशीरामनगर अनारक्षित, वार्ड आठ ट्रांसपोर्टनगर अनारक्षित, वार्ड नौ शंकरगंज अनारक्षित, दस गोपालकुंज महिला, 11 तीर्थराजपुरी महिला, वार्ड नंबर 12 अंबिकाकुंज पिछड़ा वर्ग महिला,

वार्ड 13 कामदगिरि नगर अनारक्षित, 14 पंडित दीनदयालनगर पिछड़ा वर्ग, वार्ड 15 सीतापुर पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 16 भरतपुरी अनारक्षित,17 जानकीपुरी पिछड़ा वर्ग, 18 पुरानी बाजार अनारक्षित, 19 द्वारिकापुरी महिला, 20 रामपुरी अनारक्षित. 21 शास्त्रीनगर अनारक्षित, 22 जगदीशगंज पिछडा वर्ग, 23 गांधीगंज अनारक्षित, 24 गोकुलपुरी महिला और वार्ड नंबर 25 बलदाऊगंज अनारक्षित है। इसी प्रकार मानिकपुर नगर पंचायत में वार्ड नंबर 1 अनारक्षित, दो महिला, तीन पिछड़ा वर्ग, चार पिछड़ा वर्ग महिला, पांच अनुसूचित जाति महिला, छह अनुसूचित जाति माहला, सात अनुसूचित जाति, आठ अनुसूचित जाति, नौ पिछड़ा वर्ग, वार्ड नंबर 10,11 और 12 अनारक्षित वार्ड होंगे। वहीं राजापुर नगर पंचायत में वार्ड नंबर एक अनारक्षित, दो और तीन अनुसूचित जाति महिला, चार अनारक्षित, पांच, छह और सात अनुसूचित जाति, आठ पिछड़ा वर्ग, नौ और दस पिछड़ा वर्ग नहीं होगा।

महिला के लिए आरक्षित, 11 अनारक्षित, 12 पिछड़ा वर्ग, 13 अनारक्षित, 14 महिला और वार्ड नंबर 15 अनारक्षित है।इसके अलावा नव गठित नगर पंचायत मऊ में वार्ड नंबर एक अनुसूचित जाति महिला, दो अनुसूचित जाति, तीन और चार अनारक्षित, पांच पिछड़ा वर्ग महिला, छह अनारक्षित, सात महिला, आठ पिछड़ा वर्ग, नौ महिला, दस अनारक्षित, 11 महिला, 12 पिछड़ा वर्ग और वार्ड नंबर 13 और 14

सीमा विस्तार के बाद पहली बार होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर लोगो में खासा उत्साह है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष कशरवाना का कहना है। भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट की कर्वी नगर पालिका में आज तक भाजपा का खाता नहीं खुला। आजादी के बाद से यहाँ निर्दलीय या फिर सपा का कब्ज़ा रहा है। इस बार भाजपा को इस निकाय में भगवा परचम लहराना किसी चुनौती से कम

डीएम ने पब्लिक प्रापर्टी को क्षति पहुंचा रहे दो ट्रकों पर की कार्यवाही



डीएम अभिषेक आनंद।

चित्रकूट। ग्राम पंचायत बरगढ की चैपाल में हिस्सा लेने जा रहे जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द ने खोह में दो ट्रकों के बाल से लोड खडे रहने पर एसडीएम कर्वी को बलाकर ट्रकों पर रिपोर्ट दर्ज कर खनिज अधिकारी ट्रक यूपी 96टी-2837 व यूपी एफटी- 7598 बालू से लोड खडे थे। सडक पर पानी से धुलाई कर रहे थे। धुलाई से सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंच रही थी। ट्रकों का रवन्ना भी ओवरडेट हो गया था। जिलाधिकारी ने तत्काल एसडीएम सदर राजबहादुर को निर्देश दिये कि तुरन्त दोनों ट्रकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाये। उन्होंने खनिज अधिकारी से ट्रकों के खिलाफ उचित कार्यवाही के निर्देश दिये।

विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से अंधेरे में डूबे दो सैकडा गांव

मुन्नीलाल, सिपाही अनुज यादव, शुभम शर्मा, अभिषेक व महिला सिपाही राखी शामिल रहीं।

🚪 राजापुर तहसील क्षेत्र के ९ फीडरों में वैकल्पिक व्यवस्था को तैनात किए गए कर्मचारी-एसडीएम प्रमोद झां

राजापुर,चित्रकूट। राजापुर तहसील के 9 विद्युत फीडरों के विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण क्षेत्र के लगभग दो सैकडा गावों में बिजली व्यवस्था धंडाम हो गई है। जिससे आम जनमानस को अंधेरे में ही गुजर बसर करना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसानों के ट्यूबवेल शोपीस बने खड़े हैं। जिससे पलेवा कार्य न होने के कारण किसान परेशान हैं और पावर हाउस के चक्कर काट रहे हैं। वहीं उपजिलाधिकारी द्वारा जल संस्थान, आबकारी विभाग तथा सिंचाई विभाग व चकबंदी विभाग के कर्मचारियों को फीडरों में सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई के लिए तैनात किया गया है।

बताते चलें कि 29 नवम्बर से विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण राजापुर विद्युत उपकेन्द्र से संचालित फीडर तिरहार, रैपुरा, प्रसिद्धपुर, भभेंट, सगवारा, राजापुर, चिल्लीराकस पम्प कैनाल, सरधुआ, भदेहदू तथा वर्कशॉप समेत पूरे इलाके के लगभग 200 गाँवों के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ साथ ट्यूबवेल, नहर तथा विद्युत चलित कारखाने ठप्प हो गए हैं।किसान अपने खेतों में पलेवा के लिए विद्युत आने के इंतजार में बैठे रात गुजार रहे हैं। जबिक इन दिनों रबी की बुआई के लिए किसान को पानी की अत्यंत आवश्यकता है लेकिन कार्य बहिष्कार के चलते पलेवा कार्य पिछड़ रहा है।

विद्युत व्यवस्था में लगे उपजिलाधिकारी राजापुर प्रमोद झाँ ने बताया कि विद्युत सप्लाई की सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए उक्त फीडरों में राजस्व निरीक्षक, लेखपालों, चकबंदी, सिंचाई विभाग, ग्राम ावकास, आबकारा, जल संस्थान क कर्मचारियों को दिन व रात में बैकल्पिक व्यवस्था की गई है तथा नायब तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह गौतम को उक्त फीडरों का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तहसील राजापुर में एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिसके प्रभारी तहसीलदार संजय अग्रहरि को बनाया गया है। इसके अलावा विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तलाश कर उन्हें भी कार्य मे लगाया जाएगा। वहीं रायपुर बाँगर के किसान भोला प्रसाद तिवारी व चिल्लीराकस के रावेन्द्र यादव ने बताया कि विद्युत सप्लाई न होने के कारण ट्यूबवेल व नहर नहीं चल पा रहे हैं। जिससे रबी की फसल पिछडती जा रही है और कई हजारों के खाद बीज घर पर डम्प पड़े हुए है।यदि समय से रबी की बुआई नहीं कर पाते हैं तो उपज में कम पैदावार होने से किसान का खर्च

सदगुरू सेवा संघ के ट्रस्टी डॉ.बी.के.जैन ने अनुराधा पौडवाल को चित्रकूट किया आमंत्रित



चित्रकुट। भजन और फिल्मों में गायकों के दम पर भारत में ही नही अपितु पूरे विश्व में अलग ही पहचान बनाने वाली महान गायिका 'पद्मश्री डॉ.अनुराधा पौडवाल से श्री सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉ.बी.के.जैन एवं मनोज पांड्या ने उनके मुम्बई स्थित निवास पर जाकर सौजन्य भेंट की।

इस दौरान सदगुरू सेवा संघ के ट्रस्टी डा०बी०के०जैन ने सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल को परम पुज्य सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से धर्म नगरी चित्रकूट में ट्रस्ट द्वारा संपादित किये जा रहे विभिन्न सेवा प्रकल्पों के बारे में उन्हें अवगत कराया। जिस पर महान गायिका अन्राधा पौडवाल ने बडी प्रसन्नता जताई और ट्रस्ट द्वारा संपादित किए जा रहे सेवा प्रकल्पों को सराहा।उनसे मुलाकात पर ट्रस्टी डा बी के जैन ने समस्त सदगरु परिवार की ओर से उन्हें स्मृतिचिहन स्वरूप गुरु पादुका, एवं गुरुदेव का साहित्य भेंटकर धर्मनगरी चित्रकूट पधारने हेत् आमंत्रित किया,जिसे उन्होंने सहृदय स्वीकार किया।

से कार्यवाही के निर्देश दिये। शुक्रवार को जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द ग्राम पंचायत बरगढ की चैपाल में शामिल होने जा रहे थे। खोह गांव के पास दो



भी नहीं निकल पाएगा। नगर पालिका बोर्ड की अन्तिम बैठक में एक करोड़ 93 लाख की विकास परियोजनाओं का अनुमोदन



सभासदों का सम्मान करते पालिकाध्यक्ष नरेन्द्र गप्ता।

चित्रकृट चित्रकृटधाम कर्वी नगर पालिका सदस्यों ने सर्वसम्मित से सभी प्रस्ताव पारित परिषद बोर्ड की अंतिम बैठक पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गप्ता की अध्यक्षता में सीतापर रेन बसेरा में संपन्न हुई। जिसमें मा0 मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों एवं जल निकासी योजना के लिये 1 करोड़ 93 लाख की कार्ययोजना प्रेषित करने का सर्वसम्मित से अनुमोदन किया गया। जिसमें अवशेष कार्यों का सर्वसम्मित से अनुमोदन किया गया। सभी

कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद सभी सभासदों एवं मीडिया कर्मियों का 5 साल तक पालिका के विकास में अभृतपूर्व योगदान सहयोग देने पर सभी का साल भेंटकर सम्मान किया गया । पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी भाजपा नेता पंकज अग्रवाल का भी पुष्पगुच्छ तथा साल भेंटकर स्वागत किया। अधिशासी अधिकारी रामअचल कुरील ने पालिका अध्यक्ष सहित सभी सभासदों . मीडिया कर्मियों का अभिनंदन स्वागत किया । स्वागत समारोह में सभासद लीलावती, श्याममनी, संगीता, अनीता, महरी, रामादेवी त्रिपाठी, निशा, किरन, मानिकलाल, मन्नालाल, जागेश्वर यादव, कमलेश कुमार, संत कुमार, बुद्धप्रकाश, रमेश मिश्रा, शिव प्रकाश, शैलेन्द्र, मूलचन्द्र, सुशील

🔃 सभासदों व मीडिया कमियों का चेयरमैन नरेन्द्र गुप्ता ने किया सम्मान

श्रीवास्तव, अनुज निगम, रमेश सोनी, लव सिंह, मो० निजाम, मो० अरमान एवं नामित सदस्य अभिषेक मिश्रा, विजय चन्द्र गुप्त, सीमा निगम, पुष्पा सोनी, प्रेमलाल वाल्मीकि का अध्यक्ष नरेन्द्र गुप्ता ने फुल माला पहना कर स्वागत किया। सभी के सम्मान में शानदान सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर ठण्ड को देखते हुये गरीबों के लिये कम्बल क्रय करने, अटल पार्क से लेकर कोतवाली कर्वी तक सड़क एवं इण्टरलॉकिंग कार्य कराने, चैगलिया से रामघाट तक गढ्डा मुक्त सड़क बनाने, ट्राफिक चैराहे का सौन्दर्यीकरण शीघ्र कराने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने ढाई

साल कोराना महामारी के बाद पालिका के विकास कार्यों पर विशेष फोकस कर विकास कार्यों को गित दी, कोरोना काल में उन्होंने गरीबों बेसहारों को भोजन

व्यवस्था अन्य सहायता करने का काम किया था । उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनता अभी 5 साल तक सहयोग और विश्वास किया उम्मीद है आगे भी यही सहयोग और विश्वास प्राप्त होगा। अगली पारी में जो कार्य शुरू हैं उन्हें गुणवत्ता के साथ पूर्ण करायेंगे और जो कार्य करने है उन्हें कराकर जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। कहा कि हमने अभी तक शहर में सभी वार्डों में नाली, रोड, कूडा निदान हेतु कूडा गाडियों का का संचालन, प्रकाश व्यवस्था, नियमित साफ-सफाई के अलावा कोठी तालाब के पास एक बडा पार्क जनता को दिया है।उन्होंने आयोजन में आए सभी का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में राजापुर, मऊ के ईओ बीएन कुशवाहा, अवर अभियंता संतोष सिंह राठौर, वरिष्ठ लिपिक कर्मोत्तम सिंह, अशरफ खान, धीरेंद्र, सुभाष गुप्ता, प्रवीन्द्र श्रीवास्तव, ज्ञान गुप्ता, संजय गुप्ता, सफाई निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला, राजेन्द्र राम, रवि ज्ञानेंद्र कौशल, जिला स्वच्छता समन्वयक शिवाकुमार, अंकित जायसवाल, शहजादे भाई, विजय आदि मौजूद रहे।

निपुण भारत मिशन एवं ऑपरेशन कायाकल्प के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला का समापन

ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करना "निपुण भारत मिशन" का प्रमुख उद्देश्यः कमिश्नर

झाँसी। शासन के निर्देशानुसार निपुण भारत मिशन एवं ऑपरेशन कायाकल्प योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेत् एक दिवसीय मंडलीय कार्यशाला का आयोजन पंडित दीनदयाल सभागार, झांसी में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया, इस दौरान जनपद झांसी के विकासखंड बड़ागांव स्थित प्राथमिक विद्यालय कोर्ट, बड़ा गांव के बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का पृष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा विद्यालय की बालिकाओं द्वारा अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यशाला में निपुण भारत मिशन के महत्व पर आधारित एक चलचित्र फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त डाॅ0 आदर्श सिंह ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करना "निपुण भारत मिशन" का प्रमुख उद्देश्य है। निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाना है जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों में विकसित किया जा

निपुण भारत योजना के माध्यम से वर्ष 2026-27 तक

एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाना है। निपुण भारत मिशन स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित तंत्र राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लाक-स्कुल स्तर पर संचालित किये जाएंगे। इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के

सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए किया गया है।

कार्यशाला में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने कहा

कि आज की यह गोष्टी ऑपरेशन कायाकल्प एवं निपुण भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत मंडल के 80% विद्यालयों को अवस्थापना के 19 मानकों के अनुरूप संतप्त किया जा चका है। इसके साथ ही इस मिशन का कार्य प्रदेश को बुनियादी शिक्षा के तहत निपुण बनाना भी है।

इस दौरान राज्य परियोजना कार्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि बच्चों के शैक्षिक ज्ञान के विकास हेतु शिक्षक एवं बच्चों के बीच मधुर आत्मीय संबंध होना अति आवश्यक है निश्चित रूप से यदि बच्चों के साथ शिक्षक

के व्यवहार मधुर होते हैं तो उसके चमत्कारिक परिणाम बच्चों के शैक्षिक विकास में देखने को मिलते हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ विशेषज्ञ लखनऊ एस.के. तिवारी ने कहा कि कोई भी विद्यालय तभी एक आदर्श विद्यालय बन सकता है जब उस विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं

सुदृण हों। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 अब स्थापना मानकों के तहत झांसी मंडल के अधिकांश विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है कायाकल्प योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से विद्यालयों के कायाकल्प पर नियमित रूप से चर्चा करें।

कार्यशाला में उपस्थित मंडल के तीनों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों के उन्नयन हेतु अब स्थापना सुविधाओं के लिए निर्धारित 19 पैरामीटर से संतुप्ति करण एवं नगर क्षेत्र के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के सशक्तिकरण तथा निपुण भारत मिशन की व्यापक जानकारी प्रदान की गई। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, मुख्य विकास अधिकारी जालौन अभय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी ललितपुर अनिल कुमार पांडे, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अरुण कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपर रामप्रवेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सारसुर्खियां

घोटाला : छह माह पहले बनी सड़क जगह-जगह से उखड़ी, ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप मामला पीडब्ल्यूडी के सीडी थी क्षेत्र का, ग्राम बंगरा से चंदवारी तक बनी थी सड़क

झाँसी। टहरौली तहसील के ग्राम बंगरा से चंदवारी तक जाने वाली सङ्क का लगभग छह महीने पूर्व डामरीकरण करवाया गया था। वर्तमान में सड़क जगह-जगह से उखड़ गयी है। क्षेत्रवासियों ने ठेकेदार पर सड़क निर्माण के नाम पर केवल खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार चिरगांव ब्लॉक के ग्राम बंगरा से चंदवारी तक लगभग चार किलोमीटर सड़क का डामरीकरण पीडब्ल्युडी विभाग के ठेकेदार ने किया था। यह निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी के सीडी थ्री के अंतर्गत आता है। सड़क के डामरीकरण के केवल छह महीनों में ही सड़क जगह-जगह से उखड़ने लगी और गिट्टी चारों तरफ फैल गई। इससे वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारियों से सांठगांठ के चलते ठेकेदार पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी

क्षेत्रवासियों द्वारा ठेकेदार पर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग का भी आरोप लगाया है। जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुये भी मौन धारण किये बैठे हैं। उक्त निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की बू का रही है जिसके चलते जिम्मेदार अधिकारी किसी ठोस कार्यवाही करने की जहमत तक नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा बंगरा से चंदवारी तक की सड़क निर्माण में, सड़क के दोनों ओर पटरी भी नहीं बनायी गयी है जिसके चलते गिट्टी सड़क के दोनों तरफ फैल गई है और सड़क निर्माण में मानक के अनुरूप डामर एवं अन्य मैटेरियल न लगाकर केवल खानापूर्ति की गयी है। इस घटिया सड़क निर्माण की शिकायत स्थानीय लोगों ने तहसील दिवस में भी लिखित रूप से की हैऔर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर कठोर कार्यवाही की मांग की है।

बोले जे.ई.

ग्राम चंदवारी से बंगरा तक जाने वाली लगभग 4 किलोमीटर तक की सड़क जगह जगह से उखड़ जाने की शिकायत को लेकर पीडब्ल्युडी सीडी थ्री के जेई विकास गौतम ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद जाँच की जा रही है और अभी तक ठेकेदार को इस निर्माण कार्य का भूगतान नहीं किया गया है। जेई विकास गौतम ने कहा कि ठेकेदार को संड़क के दोनों ओर पटरी निर्माण के लिए भी बोल दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक निर्माण कार्य को पूरी तरह से दुरुस्त नहीं कर लिया जाता है तक भी एक भी रुपये का पेमेन्ट ठेकेदार को नहीं किया जाएगा

अधिशाषी अभियंता की तानाशाही से कर्मियों में आक्रोश

झाँसी। उ.प्र. चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ सिचाई विभाग जनपद शाखा झाँसी को आवश्यक बैठक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी डोर मेट्री में देवेन्द्र सिंह बुन्देला अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अधिशाषी अभियंता झाँसी प्रखण्ड बेतवा नहर की तानाशाही रवैया से

सुरेश कुमार अङ्जरिया ने बताया गया कि संघ द्वारा उ.प्र. सरकार की मंशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं हेतु एक माँगपत्र अधिशाषी अभियन्ता झाँसी प्रखण्ड बेतवा नहर झाँसी को 28 मई 2022 को सात सूत्रीय माँग पत्र दिया गया था जिस पर कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 18 नवंबर 2022 को संघ का शिष्ट मंडल अधिशाषी अभियन्ता से मिला। समस्याओं का समाधान न होने की स्थिति में पुनः शिष्ट मण्डल रामबाबू विश्वकर्मा प्रान्तीय सचिव, देवेन्द्र सिंह बुन्देला अध्यक्ष एवं सुरेश कुमार अङ्जरिया जिलामंत्री मिले और जायजं समस्याओं का निस्तारणं न होने से अवगत कराया गया अधिशाषी अभियन्ता उमेश कुमार तानाशाही रवैया अपनाते हुए कहा गया कि मैं संगठनों से बात नहीं करते हैं, जिसको एसीपी. लगवाना हो वह अपनी सीआर. लाये। जबिक उक्त महिला स्वदेशी की सी. आर. कार्यालय में उपखण्ड द्वारा रिसीव करायी गयी। 13 दिसंबर 2022 तक निराकरण नहीं किया जाता है तो 14 दिसंबर 2022 से

अनिश्चितकालीन आन्दोलन की कार्यवाही का निर्णय लिया जायेगा। मेजर ध्यानचंद् की पुण्यतिथि पर हम सब कुछ विशेष करें:बुजेन्द्र याँदव

झाँसी। 3 दिसम्बर 1979 को हॉकी के जादूगर दुनिया के महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मेजर ध्यानचंद भले ही शारीरिक रूप से अब इस दुनिया में नही है। किन्तु उनकी जादू भरी कलात्मक हॉकी, उपलब्धियां व संस्मरण आज भी हर भारतीय के मन मस्तिष्क में जीवंत है।

हम सभी देशवासियों, खिलाडियों व खेल प्रेमियों का अब दायित्व बनता है, कि हॉकी जादगर मेजर ध्यांचन्द की 43 वीं पृण्यतिथि पर अपने -अपने खेल मैदानों व शैक्षिक संस्थानों में मेजर ध्यानचंद को श्रद्धा समन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और मेजर ध्यानचंद के प्रेरक प्रसंगों से वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को अवश्य अवगत कराए। ताकि भविष्य में हॉकी जादगर की रमृतियों को जीवंत रखा जा सके और मजबूत ईमानदार नैतिक भारत का निर्माण कर सके। आज हॉकी के महान खिलाड़ी और जादूगर पद्मभूषण मेजर ध्यान चंद की पुण्यतिथि है।वह भारत के नहीं बल्कि विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। वह तीन बार भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके है।जब वो मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानों उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। उनकी हॉकी के सर डॉन बेडमैन और हिटलर भी कायल थे। की हॉकी कौशल का विश्व क्यों

ध्यान चंद महज 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया था। ध्यान चंद देर रात तक प्रैक्टिस किया करते थे और यही वजह है कि दोस्तों ने उनका नाम चांद रख दिया था। भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीते है और तीनों ही बार ध्यान चंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1928 में हुए ओलंपिक खेलों में ध्यान चंद ने 14 गोल किए थे।उस टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। इसके बाद एम्सटर्डम के एक समाचार पत्र ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहा था। सन 1956 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्याचन्द ने झांसी हीरोज टीम के संस्थापक रहे और इस क्लब से खेलते हुए उन्होंने कई मेजर टूर्नामेंट भी जीते। साल 1935 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था।यहां ध्यानचंद ने 48 मैच खेले और 201 गोल किए। सर डॉन ब्रेडमैन ने 1935 में ध्यान चंद से मुलाकात की थी क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रेडमैन भी उनके कायल हो गए। उन्होंने कहा, ध्यान चंद हॉकी में ऐसे गोल करते हैं, जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं। बर्लिन ओलंपिक में भारत और जर्मनी के बीच फाइनल मुकाबला था। मुकाबले के दूसरे हाफ में ध्यान चंद ने जूते निकालकर नंगे पांव हॉकी खेली और जर्मनी को 8-1 से रौंद दिया। भारत को 1936 बर्लिन ओलंपिक में भी गोल्ड मिला और ध्यान चंद के प्रदर्शन ने हिटलर को उनका फैन बना दिया। हिटलर ने ध्यान चंद को खाने पर बुलाया और उन्हें जर्मनी से खेलने के लिए कहा साथ ही उन्हें कर्नल बनाने का प्रलोभन भी दिया लेकिन ध्यान चंद एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे वो सीना ताने खड़े थे हिटलर के इस प्रस्ताव को ठूकराते हुए कहा कि मैं भारत देश नहीं छोड़ुंगा।देश के लिए खेलूंगा भी और जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दूंगा। दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यान चंद ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी में 400 गोल दागे हैं। मेजर ध्यान चंद की विश्व भर में सैकड़ो मूर्तिया, स्टेडियम स्थापित है। उनके रिकॉर्ड्स इतने गजब हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस महान खिलाड़ी को भारत रतन

से सम्मानित नहीं किया गया है।

क्रोध, मान, माया, लोभ क्षीण नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन व्यर्थ समझो: साध्वी डॉ पीयूष प्रभा

झाँसी। तुम जागकर भी आत्मा के उत्थान की दिशा में सो रहे हो, अच्छी तरह समझ लो कि

मूमि पर अवैध कब्जे की नियत से खेत में नहीं घुसने दे रहे दबंग

अधिवक्ताओं ने एसएसपी से की कार्यवाही की मांग

झांसी। दबंग प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अधिवक्ता की भूमि पर कब्जा करने की नियत से कृषि कार्य में व्यवधान किए जाने पर एसएसपी से कार्यवाही की मांग की

ब्लाक बबीना क्षेत्र अन्तर्गत मौजा गनेशपरा निवासी राजेन्द्र सिंह एड पुत्र स्व० श्री अगर सिंह ने बताया कि खेत में पानी से पलेवा करने के बाद बीज छिड़काने के बाद जैसे ही ट्रैक्टर लेकर बखरनी के लिये खेत पर पहुंचा तो गांव के आलोक पुत्र परमेश्वर दास, राजेश पुत्र रामप्रसाद, इन्दर सिंह पुत्र रामप्रसाद, संदीप पुत्र इन्दर, श्रीमती शीलादेवी पत्नी रामप्रसाद व श्रीमती उमा देवी पत्नी परमेश्वर व अन्य लोग लाठी डण्डे ,कट्टा कुल्हाडी लेकर आ गये और गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। उनकी दबंगई के डर से पुलिस को 112 नं0 पर फोन किया तो मौके पर पलिस आई तो वह लोग भाग गये केंबल दोनों महिलायें रहीं और दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया वहां पर दोनों महिलायें गयीं और थाने में भी स्पष्ट कह दिया कि मैं खेत नहीं जोतने दूंगी और खेत में कदम रखा तो इनको जान से मार देंगे ।इसके बावजूद पुलिस ने उक्त लोगों के विरुद्ध कोई

कार्यवाही नहीं की । अधिवक्ता ने बताया कि खेतों में बीज व खाद पड़ा है खेत नहीं जोतने दे रहे हैं । दबंग व प्रभावशाली अपराधी किस्म के होने के कारण उनके विरुद्ध गांव में कोई विरोध नहीं कर पाता है। परमेश्वर, इन्दर सिंह, राजेश पुत्रगण रामप्रसाद आदि के खिलाफ धारा-452, 427,

504, 506, 323 आई०पी०सी० के अन्तर्गत न्यायालय जे०एम० द्वितीय झांसी के न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। वह लोग उसको जान से मारना चाहते हैं। यह लोग गैंग बनाकर आपराधिक कार्य करते है। सारा परिवार अत्यधिक भयभीत है तथा पिता व पिता की मां भी पीड़ित सजायाफ्ता थीं । अधिवक्ता ने दबंगों के विरूद्ध काननी कार्यवाही कर खेती कार्य

(बखराने) को पुलिस सरक्षा की देख-रेख में सम्पन्न कराने की मांग की है। इस अवसर पर रामप्रकाश पुरोहित, चन्द शेखर शुक्ला, खेमराज सिंह नरवरिया, याकूब अहमद मंसूरी,राघव किशोर तिवारी,शिव नारायण कौशिक, दीपक समेले, राजेश कुमार बालिकशन कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण प्रजापति,जीपी सोनी, सरेन्द्र कुशवाहा, आरबी पाल, चांद खां आदि अधिवक्ता

उपस्थित रहे।

मनुष्य जीवन दुर्लभ है ,जितना अधिक क्रोध, मान, माया और लोभ छीण होगा उतनी ही आत्मा जागृत होगी और उतना ही सुख और संतोष जीवन में प्रवेश करेगा। अन्यथा तुम्हारी सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं जो तुम करते हो वह पशु भी करने में समर्थ हैं अपने आत्मा आत्मा गौरव को पहचानो और आत्म उत्थान के श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ो। यह प्रेरक संदेश श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ एकादशी अधिशास्ता पूज्य आचार्य महाश्रमण जी की विदुषी शिष्य डा. साध्वी पीयूष प्रभा, साध्वी भावना श्री ,साध्वी सुधा कुमारी , साध्वी दीप्ति यशा ने महंत लक्ष्मण दास कन्या इंटर कॉलेज बड़ागांव प्रांगण में भक्तों के बीच दिया। साध्वी जी ने कहा कि जैन साधु पद बिहारी होते हैं वह सभी जगह नहीं पहुंच सकते लेकिन जो भव्य आत्माएं होती हैं वह विश्व के किसी भी कोने से आकार अवश्य ही सत्संग प्राप्त कर लेती हैं। भौतिकता की चकाचौंध से परे आज भी जैन साधु टीवी नहीं देखते, मोबाइल का प्रयोग नहीं करते, और अपने प्रतिदिन को ज्ञान ध्यान तप के साथ मनुष्य जीवन को सार्थक करने का

महाश्रमण के 800 साधु साध्वी जनों के संघ से हैं और पद बिहार कर कानपर से इंदौर की ओर गमन कर रही है । साध्वी संघ बड़ागांव से अंसल कॉलोनी होते हुए शिवपुरी रोड की ओर पद बिहार कर गई इस अवसर पर उत्तरांचल

कुमार जैन, जैन मिलन के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष जैन सत्यराज जैन, मिलन झांसी के अध्यक्ष रविंद्र जैन रेलवे, श्वेतांबर जैन समाज कानपुर के महामंत्री संदीप जैन, सचिन संचेती,रविंद्र जैन, प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता

झाँसी में जल्द शुरू होने जा रहा है पब्लिक बायसाइकिल शेयरिंग सिस्टम

शहर को प्रदूषण और जाम मुक्त बनाने की और सरकार का कदम झाँसी शहर में 25 जगहों पर बनेंगे ख़ास साइकिल स्टैंड

योजना के तहत शुरूआती चरण में २५० साइकिलों की है व्यवस्था

झाँसी। ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के मकसद से यूपी सरकार कई तरह के प्रयोग करने में जुटी है। झांसी नगर निगम स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पब्लिक बायसाइकिल शेयरिंग सिस्टम ऑफ झांसी नाम की योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में स्टैंड बनाये जायेंगे और लोग इन स्टैंड से निर्धारित किराए का भगतान कर साइकिल हासिल कर सकेंगे। शहर में अपना जरूरी काम निपटाने के बाद वे जिस स्थान पर पहुंचेंगे, वहां के स्टैंड पर साइकिल को जमा

नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अफसरों के मुताबिक लगभग एक से दो महीने में योजना को पूरा कर लिया जाएगा और झांसी शहर के लोगों को यह नई सुविधा उपलब्ध हो

झांसी शहर के कई हिस्सों में जाम की काफी समस्या रहती है और ऐसी जगहों पर किसी वाहन को लेकर पहुंचना लोगों के लिए काफी मुश्किल साबित होता है।

नगर निगम के अफसरों का मानना है कि ऐसे स्थानों पर लोग अपने काम के लिए इन साइकिलों का उपयोग कर सकेंगे और भीड़भाड़ की स्थिति में परेशानी से बच सकेंगे।

झांसी के नगर आयुक्त पुलकित गर्ग बताते हैं कि शहर में हमेशा जाम की शिकायतें आती रहती हैं।

इसके साथ-साथ वायु प्रदूषण की भी समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कम से कम 25 स्थलों पर 250 साइकल खड़ी की जाएँगी।

हर स्थल पर दस साइकल खड़ी की जाएँगी, जिससे एक व्यक्ति एक जगह से साइकिल लेकर दूसरी जगह उसे छोड़ सकता है। इससे जाम की समस्या से भी निजात मिलेगा और शहर का जो वातावरण है, वह भी साफ़ सुथरा बना रहेगा।

हाईस्कूल की पाई गई फर्जी मार्कशीट प्रकरण

रेलवे के सहायक कार्मिक अधिकारी के वेतन से होगी क्या कटौती?

पांच साल की रेलवे में नौकरी, फिर निकाल दिया

कागजों की बिना सत्यापन के रेलवे में करवा दी थी ज्वाइनिंग

झाँसी। अगर आपको रेलवे में नौकरी करना है तो काफी आसान हैं, क्योंकि रेलवे में ज्वाइनिंग करने के पहले आपके दस्तावेजों का सत्यापन तक नहीं करवाया जाता है। ऐसा ही एक मामला झाँसी रेल मंडल में प्रकाश में आया है। दस्तावेजों का बिना सत्यापन के एक महिला को रेलवे ने ज्वाइनिंग करवा दी। साढे चार साल बाद उसे नौकरी से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार रेलवे को साढे चार साल लाखों का चुना लगा है। इस चूना की रिकवरी क्या सहायक कार्मिक अधिकारी के वेतन से होगी?। इस मामले को लेकर तमाम चर्चाएं शुरु हो गई है। ग्वालियर स्थित रेलवे कालोनी में रहने वाली श्रीमती सूर्या भास्करन



रेलवे में हेल्पर के पद पर पदस्थ थी। बाद में उन्होंने रेलवे से वीआरएस ले लिया था। इसके बाद श्रीमती सूर्या भास्करन की लड़की शिवानी शर्मा ने मां की जगह लारजेस स्कीम के तहत नौकरी पाने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन को रेलवे ने स्वीकार कर लिया था। रेलवे में नौकरी पाने के लिए शिवानी शर्मा ने हाईस्कूल व अन्य दस्तावेज

लगाए थे। इसमें शिवानी शर्मा ने वर्ष 2013 में एमपी बोर्ड भोपाल की दसवीं मार्कशीट लगाई थी। इस मार्कशीट के आधार पर रेलवे ने 17 जलाई 2017 को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था। रेलवे ने शिवानी शर्मा की पोस्टिंग ग्वालियर में हैल्पर के पद पर कर दी थी। यह

एसएसई/टैली/ग्वालियर में है। शिवानी शर्मा द्वारा जो दस्तावेज दिए गए थे, उनकी जांच तत्कालीन एपीओ ने की थी। जांच के बाद ही रेलवे में ज्वाइनिंग करवाई जाती है। शिवानी शर्मा को ज्वाइनिंग के समय झाँसी से

ग्वालियर तक पास नंबक 273794 भी जारी किया था। उधर, मुरैना निवासी बच्चूलाल

शर्मा पुत्र मूंगाराम शर्मा ने रेलवे बोर्ड को एक शिकायती पत्र दिया था। पत्र में कहा था कि ग्वालियर में हेल्पर के पद पर तैनात शिवानी शर्मा की मार्कशीट फर्जी है। इस पत्र को रेलवे बोर्ड ने गंभीरता से लिया और जांच की। जांच के दौरान उक्त मार्कशीट का एमपी बोर्ड भोपाल से सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में उक्त मार्कशीट नहीं पाई गई। फर्जी मार्कशीट पाए जाने पर झाँसी मंडल में पदस्थ रेलवे अफसरों में हड़कंप मच गया। सुत्र बताते हैं कि रेलवे बोर्ड पत्र 23 जनवरी 2019 के आधार पर शिवानी शर्मा को 13 जुलाई 2020 को एसएफ-5 जारी की गई थी। एसएफ -5 जारी होने से शिवानी शर्मा व स्टॉफ के लोगों में हड़ंकप मच गया। बाद में उसे

रेलवे की नौकरी से हटा दिया।

दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं करवार्ड गर्ड?

रेलवे सुत्रों का कहना है कि रेलवे में ज्वाइनिंग करने के पहले संबंधित रेलवे कर्मचारी के दस्तावेजों की जांच करवाई जाती हैं। ज्वाइनिंग के पहले शिवानी शर्मा की हाईस्कूल मार्कशीट का सत्यापन क्यों नहीं करवाया गया। इसमें कहीं न कहीं तत्कालीन एपीओ की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। सूत्र कहते हैं कि वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक शिवानी शर्मा ने रेलवे से वेतन लिया है। इस वेतन की वसूली कहां से होगी। रेलवे को चुना लगवाने के लिए कौन दोषी होगा?। शिवानी को हर माह अनुमानित 30 हजार वेतन था। कुल मिलाकर उसने रेलवे को 15 लाख का चूना लगाया है।

इनका कहना है

झाँसी रेल मंडल के पीआरओ मनोज कमार सिंह का कहना है कि यदि कोई भी रेलकर्मी या अभ्यर्थी

मिथ्या या गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करता है, तो सत्यता प्रमाण होने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

क्या है लारजेस स्कीम

रेलवे की लारजेस स्कीम के तहत रेलवे ने पायलट और पाइंट्स मैन की नौकरी करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 33 साल की हो चुकी है और दूसरे विभागों जैसे सेफ्टी कैटेगिरी में निर्धारित अवधि में काम करने के बाद यदि कर्मचारी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेता है, तो उसकी संतान को उसकी जगह नौकरी देने का प्रावधान है। इसमें फिजिकल फिटनेस बेहद जरुरी है, तो शैक्षणिक योग्यता केवल 10 वीं रखी है। इस स्कीम में नियुक्ति के लिए कोई लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। अधिकांश मामलों में यह योजना केवल चतुर्थ श्रेणी, ट्रैक मैन, खलासी, टेलीकॉम, सिग्नल आदि विभागों के लिए

नमामि गंगे योजना का लोगो को नहीं मिल रहा है लाभ

जालौन। सरकार द्वारा चलाई गई घर-घर जल योजना का लाभ लोगों को

नहीं मिल रहा है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग हो रहे पानी के

लिए परेशान वही अधिकारी जानकर है अनजान। केंद्र सरकार की नमामि गंगे

योजना इस समय पूरी तरह हवा हवाई नजर आ रही है सरकार का उद्देश्य

था कि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को घर-घर जल दिया जाए जिससे लोग

पानी के लिए परेशान ना हो लेकिन यह योजना पूरी तरह फेल होती नजर आ

रही है विकासखंड के करीब दो दर्जन गांव खानुआ गिधोसा कैथ छानी समेत

कई गांव में पाइपलाइन 6 माह पहले ही डाल गए लेकिन आज तक गांव की

सीसी सडक गहरे गहें नहीं भरे गए जिससे गांव के लोग निकलने में परेशान

हो रहे हैं उधर दूसरी ओर उनको पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा है

इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीण रामकेश बुजेश अनुरोध गनपत सिंह

है गांव में पानी ना आने से लोग परेशान हैं दूसरी ओर सरकार ने गांव में

सरकारी हैंडपंप लगाना बंद कर दिए जिससे और परेशानी बढ़ गई गांव के

लोगों को इसका लाभ कब मिलेगा कोई पता नहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन

पिण्डारी मोड़ पर हुआ एक्सीडेंट, इंडिका

आदि का कहना है इसकी कई बार शिकायत की लेकिन अधिकारी सुनते नहीं

तीन के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज

उरई। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जैसारीकला निवासी मुस्तफा खां पुत्र रमजानी ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि भूरे मिस्त्री पुत्र इम्तियाज निवासी जैसारी कला समेत 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की। जिससे वह घायल हो गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

तीन के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज

उरई। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जैसारीकला निवासी मुस्तफा खां पुत्र रमजानी ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि भरे मिस्त्री पुत्र इम्तियाज निवासी जैसारी कला समेत 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की। जिससे वह घायल हो गया। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

वार्ड परसीमन जारी होते ही कही खुशी तो कही फैला गम

जालौन। नगर पालिका चुनाव की वार्ड परिसीमन लिस्ट जारी होने से कहीं ख़ुशी तो कहीं गम की स्थिति पैदा हो गई नगर में जगह-जगह समीकरण बदलने से होने लगी चुनाव की चर्चा। नगर में नगर पालिका चुनाव के लिए 25 वार्ड हैं जिसमें 20 वार्ड पर परिसीमन बदल जाने से सभासद उम्मीदवारों की किस्मत बदल गई सबसे दिलचस्प सीट मोहल्ला रावतान जहां यादव तथा ठाकुर जाति के लोग अधिक हैं पिछले पंचवर्षीय पिछड़ी जाति सीट थी लेकिन इस बार अनुसचित महिला, वही मोहल्ला बापू साहब पिछले पंचवर्षीय सामान्य महिला थी इस बार अनुसूचित महिला हो जाने से पिछडे सामान्य लोगों में मायसी छा गयी। वहीं मोहल्ला भवानी राम खंडेराव अनुसूचित महिला हो जाने से खुशी गम में बदल गई सामान्य तथा पिछड़े लोगों में वही नगर की वार्ड नंबर 1 मोहल्ला दलालनपरा जो कई वर्षों से लगभग पुरुषों का कब्जा था वही सीट महिला में बदल जाने से पुरुष मायूस हो गए हैं। परिसीमन बदल जाने से जगह-जगह सभासद उम्मीदवार दांवपेच लगाने

चौबीस घंटे के अंदर ही कालपी की पुलिस ने चोरों को दबोचा 💻 सारस्यार्थियां पुलिस ने चोरों के पास

माल किया बरामद दैनिक भास्कर, उरई। कालपी पुलिस ने 1 दिन पूर्व हुई चोरी मैं शामिल दो अंतर्जनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से शत-प्रतिशत माल की बरामदगी कर ली है। और पुलिस को उनके पास से तमंचा कारतूस भी बरामद हुए हैं।

पूरे मामले का खुलासा एसपी ने

से चोरी का शत प्रतिशत

पलिस कार्यालय में किया। एसपी रवि कुमार के निर्देशन में कालपी में हुई चोरी की वारदात से पर्दा उठाने में लगी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर वारदात को अंजाम देने वाले दो अंतर्जनपदीय चोरों को



पुलिस कार्यालय में चोरी की घटना का खुलासा करते एसपी रवि कुमार।

गिरफ्तार कर लिया। जिनके पास से चोरी का माल, तमंचे व कारतूस बरामद कर लिया। मामले का खलासा एसपी ने शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में किया।

खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि बीते दिन कस्बा कालपी के मोहल्ला मिर्जा

मंडी निवासी अखलाक अंसारी पुत्र इस्माइल अंसारी ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 30 नवंबर की रात मोहल्ला दमदमा में स्थित गोदाम का ताला तोड़कर चोर 106 शर्ट चोरी कर ले गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना का जल्द खुलासा करने के

उरई जालौन। जिलाधिकारी चाँदनी

सिंह ने कोंच बस स्टैण्ड, नया बस

स्टैण्ड व हर घर जल पानी उपलब्ध

लिए कोतवाली पुलिस टीम को लगाया था। वारदात से पर्दा उठाने में लगी टीम ने मुखबिर की सुचना के आधार पर आस्था ढाबा के पास घेराबंदी कर कानपुर नगर के मोहल्ला बाबू पुरवा हाल निवास राजघाट कालपी निवासी महबूब आलम पत्र इस्माइल व कानपर नगर निवासी शादाब आलम पुत्र अहमद समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से पुलिस ने चोरी हुई 106 शर्ट, तमंचे, चार जिंदा कारतुस, एक खोखा बरामद किया। इस दौरान पकड़ने वाली टीम में उपनिरीक्षक उदय वीर सिंह, उपनिरीक्षक सिगदार कांस्टेबल इदरीश, अशोक सिंह, रवि प्रकाश, चालक अनुज कुमार समेत पुलिस

पुलिस अधीक्षक बोले जल्द होगा चोरी की घटनाओं का खुलासा उरई बीते दिनों शहर समेंत जिले में चोरी की कई छोटी बड़ घटनाएं हो चकी है। जिसके चलते एसपी रवि

अब रात को अपनी टीम और जिले के सभी कोतवाली थानों को निर्देश भी दिए हैं और वह खद भी रात्रि 2:00 बजे से लेकर संबह 4:00 बजे तक गश्त पर रहते हैं। जिससे कि यह शातिर चोर और चोरी की घटनाओं को अंजाम ना दे सके।वही उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगों की तलाश में वह जुटे हैं। उनका कहना है जल्द हीं और चोरियों की घटनाओं का खुलासा

और पिकप में भिडंत, एक घायल डीएम ने टैब्यूल स्कीम का ग्राम खजरी व हरक्का में किया निरीक्षण

दैनिक भास्कर, एट। शुक्रवार की सुबह नेशनल झांसी कानपुर राज्यमार्ग एट थाना क्षेत्र के पिंडारी मोड़ पर तेज गति से पिकप और इंडिका में भिड़त हो गई एक्सीडेंट होने से अफरा तफरी मच गई आनन फानन में इंडिका में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला और मौके पर पहुचे पिरौना पुलिस चौकी से कॉन्स्टेबल सुमित पाठक ने एम्बुलेस को बुलाकर घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार झांसी से पिकप यूपी 95 टी 5598 चालक देवकीनंदन उर्फ कल्लन पुत्र छेदालाल निवासी महोबा कलरपेन्ट का सामान लादकर उरई जा रहा है जैसे ही पिंडारी मोड़ पर आया तो इंडिका यूपी 93 जेड 2194 में भिड़त हो गयी इंडिका में बैठे अनिल गुप्ता पुत्र महेश चंद्र गुप्ता गम्भीर रूप से घायल हो गए इंडिका चालक प्रखर गुप्ता में बतायां कि माधौगढ़ से गुरसराय जा रहे थे वही पिकप चालक

देवकीनंदन दारू पिए हुए था। जिससे यह हादसा हो गया। रामपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा ऊमरी की घटना

दैनिक भारकर, उरई। बिजली के बोर्ड में टीवी के तार लगा रहे युवक को तार में कट होने से कारण करंट लग गया जिससे वह अचेत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा आनन-फानन में परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां पर डॉकरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो घर में मातम छा गया। गुरुवार रात को रामपुरा थाना क्षेत्र के करूबा उमरी निवासी सर्वेश 28 वर्ष टीवी देख रहा था। इस दौरान ही अचानक बोर्ड से तार हट गया तो वह उसे लगाने लगा तभी उसे करंट लग गया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वह नीचे गिर पड़ा। परिजन उसे उठाकर अचेत हालत में अस्पताल ले गए जहां उसे मृत बताया गया मौत की खबर सुनते ही पत्नी सीमा देवी और बाकी घरवालों का बुरा हाल हो गया। जानकारी पाकर आई पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

अपने चहेतों को बाटी जा रही है यूरिया खाद

आधार कार्ड जमा होने के बावजूद अन्य

दैनिक भारकर, कुठौंद जालौन। साधन सहकारी समिति लिमिटेड ईंटों में इस समय अंधेर गर्दी का आलम हो गया है। यहां किसानों को मांग के अनुरूप खाद नहीं दी जा रही है। जबिक चहेतों दाताओं को नहीं को रेवड़ी की तरह यूरिया खाद का उठान धड़ल्ले से जारी है। अन्नदाता विकास खंड के ग्राम **मिल रही खाद** रामपुरा निवासी दीपक कुमार ने जिला अधिकारी को भेजे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि

साधन सहकारी समिति में निर्धारित दर से अधिक रुपए लेकर किसानों को यरिया खाद दी जा रही है। जिन लोगों के आधार कार्ड जमा करवा लिए जाते हैं। उन्हें खाद मिल नहीं पाती जबकि अपने चहेतों को मौके पर चौका लगाकर खाद थोक में उठवा दी जाती है। जिससे क्षेत्र में यूरिया खाद का संकट दिनों-दिन गहराता जा रहा है। अन्नदाता भूखे प्यासे सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। शाम को उनसे कह दिया जाता तुम्हारा नंबर कल आएगा। साधन सहकारी समिति के सचिव देवेंद्र सिंह एवं अन्य स्टाफ के इस रवैया को लेकर किसानों में रोष व्याप्त हो गया है। शिकायतकर्ता ने परे प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

पिण्डारी मोड़ पर हुआ एक्सीडेंट, इंडिका और पिकप में भिड़ंत, एक घायल

दैनिक भास्कर, एट। शुक्रवार की सुबह नेशनल झांसी कानपुर राज्यमार्ग एट थाना क्षेत्र के पिंडारी मोड़ पर तेज गति से पिकप और इंडिका में भिड़त हो गई एक्सीडेंट होने से अफरा तफरी मच गई आनन फानन में इंडिका में फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला और मौके पर पहुचे पिरौना पुलिस चौकी से कॉन्स्टेबल सुमित पाठक ने एम्बुलेस को बुलाकर घायल को जिला अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार झांसी से पिकप यूपी 95 टी 5598 चालक देवकीनंदन उर्फ कल्लन पुत्र छेदालाल निवासी महोबा कलरपेन्ट का सामान लादकर उरई जा रहा है जैसे ही पिंडारी मोड़ पर आया तो इंडिका यूपी 93 जेड 2194 में भिड़त हो गयी इंडिका में बैठे अनिल गुप्ता पुत्र महेश चंद्र गुप्ता गम्भीर रूप से घायल हो गए इंडिका चालक प्रखर गुप्ता में बताया कि माधौगढ़ से गुरसराय जा रहे थे वही पिकप चालक

देवकीनंदन दारू पिए हुए था। जिससे यह हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े कंटेनर में कार पीछे से घुसी पूर्व प्रधान की मौत तीन घायल



दैनिक भारकर, उरई। शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे पूर्व प्रधान की कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसी। जिससे कार में सवार पूर्व प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अन्य 3

लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जिसमें दो की हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी एंबुलेंस भिजवाया। जबिक पूर्व प्रधान के शव को कब्जे में लेकर

शादी समारोह मे शामिल होकर वापस लौट रहे थे कार सवार

पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। और बदमाश परिजन सूचना पाकर मौके पर पहुंच गए। जनपद झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुढ़ा के पूर्व प्रधान मुकेश यादव 45 वर्ष अपने गांव के ही लोगों चंद्रप्रकाश पाल व मुकेश सहित चार लोगों

के साथ एक शादी में शिरकत करने पुखराया गया हुआ था। जहां से सभी लोग लग्जरी कार से शुक्रवार सुबह 6 बजे वापस हो रहे थे। इस दौरान जब वो लोग झांसी कानपुर हाईवे पर उरई शहर के बाहर कैथेरी गांव के पास से गुजर रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार रोड किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा टकराई। जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें फसकर पूर्व प्रधान मुकेश यादव की मौत हो गई। हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया और जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को बाहर निकाला। जिसमें हालत नाजुक होने पर चंद्रप्रकाश व मुकेश को झांसी रेफर कर दिया गया। जबकि बाकी 2 लोगों की हालत ठीक बताई गई। पुलिस ने मृतक पूर्व प्रधान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सड़क किनारे खड़े कंटेनर में कार पीछे से घुसी पूर्व प्रधान की मौत तीन घायल

शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे कार सवार

दैनिक भास्कर, उरई। शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे पूर्व प्रधान की कार सड़क किनारे खडे कंटेनर में पीछे से जा घुसी। जिससे कार में सवार पूर्व प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अन्य 3 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। जिसमें दो की हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी एंबुलेंस भिजवाया। जबिक पूर्व प्रधान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। और बदमाश परिजन सुचना पाकर मौके पर पहुंच गए। जनपद झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गृहा के पूर्व प्रधान

मुकेश यादव 45 वर्ष अपने गांव के ही लोगों चंद्रप्रकाश पाल व मुकेश सहित चार लोगों के साथ एक शादी में शिरकत करने पुखराया गया हुआ था। जहां से सभी लोग लग्जरी कार से शुक्रवार सुबह 6 बजे वापस हो रहे थे। इस दौरान जब वो लोग झांसी कानपुर हाईवे पर उरई शहर के बाहर कैथेरी गांव के पास से गजर रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार रोड किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा टकराई। जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें फंसकर पूर्व प्रधान मुकेश यादव की मौत हो गई। हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया और जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को बाहर निकाला। जिसमें हालत नाजुक होने पर चंद्रप्रकाश व मुकेश को झांसी रेफर कर दिया गया। जबकि बाकी 2 लोगों की हालत ठीक बताई गई। पुलिस ने मृतक पूर्व प्रधान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

टीवी चालू कर रहे युवक को करंट लगा मौत

दैनिक भास्कर, उरई। बिजली के बोर्ड में टीवी के तार लगा रहे युवक को तार में कट होने से कारण करंट लग गया जिससे वह अचेत होकर वहीं जमीन पर गिर पडा आनन-फानन में परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां पर डॉकरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को मिली तो घर में मातम छा गया। गुरुवार रात को रामपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा

उमरी निवासी सर्वेश 28 वर्ष टीवी देख रहा था। इस दौरान ही अचानक बोर्ड से तार हट गया तो वह उसे लगाने लगा तभी उसे करंट लग गया। जिससे उसकी हालत बिगड गई और वह नीचे गिर पड़ा। परिजन उसे उठाकर अचेत हालत में अस्पताल ले गए जहां उसे मृत बताया गया। मौत की खबर सुनते ही पत्नी सीमा देवी और बाकी घरवालों

हेतु टैब्यूल स्कीम का ग्राम खजरी व हरक्का का निरीक्षण किया। उन्होने कोंच बस स्टैण्ड पर चल रहा निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हये कहा कि एक माह के अन्दर समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जाये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। उन्होने निर्देशित करते हुये कहा कि मिट्टी भराव, बाउण्ड्रीवाल जल्द से जल्द पूर्ण करें। उन्होने कहा कि यात्रियों को बैठने के लिये बैंच की व्यवस्था की जाये ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। उन्होने नये बस स्टैण्ड पर टंकी निर्माण, फिनिशिंग, लाईट एवं पानी की फिटिंग, यात्रियों

के बैठने के लिये बैंच की व्यवस्था

सनिश्चित की जाये। इसके उपरान्त हर घर जल के तहत जिलाधिकारी ग्राम खजरी व हरक्का में स्वयं हर घर नर पर पहुंचकर पानी उपलब्धता की हकीकत को परखा। ग्राम खजरी व हरक्का में कुल 171 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा हैं। उन्होने ट्यबवेल का निरीक्षण किया वहां पर बाउण्ड्रीवाल और पम्प हाउस बना है

और टंकी निर्माण का कार्य चल रहा हैं। उन्होने संबंधित कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द से और भी स्कीम हेतु पेयजल उपलब्ध कराया जाये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विशाल यादव, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका उरई विमलापति सहित संबंधित कार्यदायी संस्था

कालपी। उरई - कानपुर राष्ट्रीय

राजमार्ग में चेकिंग के दौरान

व्यापार कर विभाग के सचल दल

ने स्टील तथा लोहे के सामान से

लदी शताब्दी बस को पकडकर

सीज करने की कार्यवाही की है।

कालपी में शताब्दी बस नंबर जी थे

03 ए के- 0369 मैं स्टील के

पाइप तथा चम्मच आदि सामग्री को

अहमदाबाद गुजरात से लादकर

कानपुर जा रही थी। उरई -

सैल टैक्स अधिकारी ने स्टील लदी शताब्दी बस को पकड़कर किया सीज



कालपी के बीच आटा टोल प्लाजा कोतवाली परिसर में खडी शताब्दी बस के समीप शताब्दी बस खराब हो गई। इसी दौरान व्यापार कर विभाग के अधिकारियों का सचल दल मौके पर पहुंच गया तथा शताब्दी बस में लदी सामान की चेकिंग की गई तो प्रपत्रों में किमयां पाई गई। व्यापार कर अधिकारियों ने सामान से लदी शताब्दी बस को लिखा पढ़ी करके कोतवाली कालपी के परिसर में पुलिस अभिरक्षा में खड़ी करा दी है। बताते हैं कि ट्रांसपोर्टरों के व्यापारिक प्रतिद्वन्ता के कारण शताब्दी बस को पकड़ने की कार्रवाई सूचना के आधार पर हो सकी है।

टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलटी, बाल-बाल बचे सवार



उरई। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे कार की अचानक टायर फटने से कार पलट गई। जिससे कार में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला। गनीमत है कि किसी के कोई

चोट नहीं आई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के अकोढ़ी दुबे के पास अमित कुमार निवासी उरई अपनी वैगन आर कार से गुरुवार की शाम सात बजे जा रहे थे। तभी अचानक उनकी

कार का टायर फट गया। जिससे कार पलट गई। गनीमत यह रही कि कार पलटने के बाद भी कार सवार बाल-बाल बच गए। वहां से गजर रहे लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और सकशल घर पहुंचाया।

कदौरा नगर पंचायत मे अन्ना गोवंशों को लेकर किसानों ने घंटो हंगामा काटा

दैनिक भास्कर, कदौरा (जालौन)। अन्ना गोवंशों से परेशान किसानों के सब्र का बांध टूट पड़ा एक सैकड़ा किसानों ने सुबह के समय नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास का घेराव करते हुए नगर पंचायत कार्यालय पहुच कर ई ओ का घेराव करते नारेबाजी कर लगाए गंभीर आरोप और अन्ना जानवरों से निजात दिलाने की गृहार लगाई जिस पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने 1:00 बजे कार्यालय आकर समस्या बताने के लिए तो नाराज किसान नगर पंचायत कार्यालय पहुचे और धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे नाराज किसानों को देखकर नगर पंचायत कर्मी भाग खड़े हुए नगर पंचायत कार्यालय पर जहां किसी के ना होने से उनमें आक्रोश फैल गया और किसानों ने जमकर हंगामा कांटा मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए जमकर हंगामा काटा काफी समय बाद नगर के कुछ संभ्रांत लोगो ने किसानों को समझाया तब कही जाकर किसान शांत हुए। मालूम हो कि नगर में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की भारी भरकम बजट से जनपद की सबसे बडी कान्हा गौशाला होने के बावजद अन्ना गोवंश सड़को सहित किसानों की उगी

खड़ी रबी की चना, मसूर , मटर, सरसो, गेंह , और जौ की फसल को रौंद कर व चर कर बर्बाद कर रहे है वही स्टेट हाइवे पर आए दिन दुर्घटनाओं के कारण भी बन रहे है वहीं दुसरी तरफ किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए रात रात भर जाग कर रखवाली करनी पड़ रही है अन्ना गोवंशियों से परेशान किसानों ने गुरुवार दोपहर नगर पंचायत अध्यक्ष जमीर आलम के आवास का घेराव करते हुए अन्ना गोवंशियों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई तो नगर पंचायत अध्यक्ष ने 1 बजे कार्यालय आने के लिए कहा जिस पर किसान 12 बजे नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए लेकिन नगर पंचायत में कोई जिम्मेदार अधिकारी के न होने के कारण किसान अक्रोसित हो गए और हंगामा करने लगे किसानों का आरोप था की आसपास के गांव के गोवंशों को गौशाला में बंद किया जाता है जब की नगर के मवेशी सड़को में घूम रहे है जिससे आए दिन दुर्घटना होती है और खेतो में जा कर फसल को बर्बाद करते है । थोडी देर बाद मौके पर पहुंचे अध्यक्ष जमीर आलम व अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य ने किसानों की समस्या को

सुना और उनके समाधान का आश्वसन दिया तब जाकर किसान माने किसान प्रमोद दुबे अरविंद तिवारी, उमाकान्त, विनय सागर, मेहंदी हसन, मुन्ना खान, अनिल कुमार, लल्लु यादव, गुलबदन, बाबू राम, राधेश्याम, अली हसन, मुन्नवर खान आदि का कहना है कि जब सरकार अन्ना गोवंशों के लिए भारी भरकम बजट तथा अन्य सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही है फिर भी अधिकारी और कर्मचारी किसानों को परेशान कर रहे है जबकि जिलाधिकारी के शख्त निर्देश के बाबजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है काफी हंगामें के बाद अध्यक्ष जमीर आलम ने किसानों को अश्वशन दिया कि जितने भी अन्ना गोवंश नगर क्षेत्र में घुम रहे है उन्हें सभी को गोशाला में बंद किया जाएगा तथा किसानों के जो पालत गोवंश है उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी वही ई ओ पवन किशोर मौर्या का कहना है कि कान्हा गोशाला की क्षमता 225 गोवंशियो को रखने की है अभी इस समय मौजदा स्थित में 220 गोवंश वही पर पहले से है, लेकिन समस्या को देखते हुए बचे हुए अन्ना गोवंशों को भी बंद किया जाएगा।



उरई जालौन। जिलाधिकारी चाँदनी सिंह ने जगनेवा व कुसमरा साधन सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जगनेवा साधन सहकारी समिति के निरीक्षण के दौरान सहकारी समिति बन्द पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कडी फटकार लगायी। ग्रामवासियों ने बताया कि समिति लगभग

• • • • • • •

03-04 वर्षो से खोली ही नही गयी है और न ही यहां पर खाद वितरण की जाती हैं। साथ ही ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि एक कर्मचारी समिति पर जब कभी आता है या उससे फोन से पृछे जाने पर उसके द्वारा बताया जाता है कि खाद किस ग्राम में और किस समिति पर इस समिति के पंजीकृत

जायेगी। जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त कर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियां से दो दिवस के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेत् निर्देशित किया। साथ ही उन्होने

आवंटन को किस नियम एवं स्थिति के दिये।

इसके उपरान्त कुसमरा साधन सहकारी समिति में कार्यरत सचिव रवीन्द्र कुमार ने बताया कि कृषकों की अधिक भीड़ होने के कारण समस्त बोरियों का वितरण करा दिया गया है, परन्तु इस संबंध में खाद वितरण संबंधी अभिलेख नही पाये गये जिस पर उन्होने संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये।

सचिव ने बताया कि इस समिति पर कुल 750 कृषक सदस्य हैं जिस पर जिलाधिकारी ने सदस्यता से संबंधित रजिस्टर अपूर्ण पाया गया। समिति पर खाद वितरण संबंधी अभिलेख न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारिता एवं सचिव को स्पष्टीकरण दिये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सहायक निबंधक को निर्देशित किया कि जिन सहकारी समितियों पर कृषकों की अधिक भीड़ हो रही है, उन पर संबंधित थाना से पुलिस बल प्राप्त करे साथ ही खाद वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारिता एवं सबंधित सचिव के विरूद्व निलम्बन के दिये आदेशः जिलाधिकारी



कृषकों को किस तिथि पर उपलब्ध करायी

यह भी निर्देशित किया कि स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट करें कि उक्त समिति के नाम पर जनपद स्तर से किया जा रहा खाद के

अन्तर्गत जनपद की अन्य समिति पर भेजा गया और उक्त समिति से पृथक खाद का वितरण किया जा रहा हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारिता एवं संबंधित सचिव के विरूद्व निलम्बन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश

-वेढ्व्यास

महोबा/आंचलिक

श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में वेदिका पर श्री जी की प्रतिमा विराजमान



गुरसराय । आज नवीन जैन मंदिर में वेदिका पर जिन प्रतिमाओं को विधान, जाप्यनुष्ठान के साथ किया गया, वेदी पर श्री जी के मस्तक पर ऊपर छत्र, भामंडल,चमर, स्थापित किये, मनोहारी जिन प्रतिमाओ के दर्शन कर श्रद्धाल प्रफुल्लित, ओर प्रभ को निहार रहे, मंदिर के मुख्य शिखर पर कलशा रोहण के साथ पीतल की धर्म पताका फहराई गयी,, आज सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा

पंचकल्याणक महा महोत्सव के मुख्य आयोजक श्री प्रकाश चंद जैन नुनार वालो को जैन समाज द्वारा रजत मुकुट पहनाकर सिंघई की उपाधि से सम्मानित किया, आज नगर में पंचकल्याणक में सानिध्य प्रदान करने वाले पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी का गुरसराय से मउरानीपुर की तरफ बिहार हुआ पूज्य मुनि श्री के मंगल सानिध्य में सागर में विधान का आयोजन है,नगर में चातुर्मास कर रही पूज्य आर्य का 105 विप्रा श्री माताजी का भी मुनि श्री के साथ नगर से बिहार हुआ सैकड़ों की संख्या में भक्त मुनि श्री को नगर की सीमा तक छोड़ने

गए नव युवकों की टोली गुरसराय से आहार जी तक बिहार कराने साथ में चल रही है इस मौके पर जैन समाज के अध्यक्ष चक्रेश जैन रवि जैन उपेंद्र जैन मुदित जैन दीपक जैन राजा जैन कानपुर जिनेंद्र झांसी प्रमोद जैन अतरसमा क्षमा जैन प्रथम जैन सीट जैन साहिल जैन मोहित अजीत जैन मिलाप जैन जली जैन मिली जैन आवासन गई सपना जैन ज्योति जैन रिया जैन गिरजा देवी जैन आदि समाज के लोग मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण



महोबा भास्कर ब्यूरो। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य को देखा तथा कार्य जल्द से जल्द पर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की कोई भी डॉक्टर बाहर की दवा ना लिखे, यदि कोई डॉक्टर बाहर की दवा लिखते हुए पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।और कहा की मरीज को इलाज से संबंधित कोई समस्या होती है तो सीएमएस तुरंत समस्या का निस्तारण कराएं और डॉक्टर अस्पताल में समय से उपस्थित रहकर मरीजों का इलाज करें। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर योगेंद्र पुरवार सहित अन्य डॉक्टर/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

किसानों ने सड़क पर उतर गड्ढा मुक्त सड़क की माग पर किया धरना प्रदर्शन

महोबा भास्कर ब्यूरो। कबरई कन्हेटा मार्ग बनवाएँ जाने की मांग सहित पांच मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और धरने के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हए सरकार के गड्डा मुक्त सड़क के दावों को फेल बताते हुए सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की। इस दौरान एसडीएम सदर ने मौके पर पहुंचकर किसानों को उक्त सड़क में जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराए जाने का आश्वासन देकर धरने को समाप्त कराया । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी सड़कों को 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए थे ऐसे में किसानों ने भी कबरई-कुन्हेटा मार्ग के निर्माण की मांग पूर्व में उठाते हुए सड़क निर्माण कराए जाने के लिए अधिकारियों को ज्ञापन दिया था और



जल्द सड़क का निर्माण तार नहीं हुआ तो फिर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन होगा। इसी के तहत आज भारतीय किसान यूनियन के मंडल महासचिव हरिहर दीक्षित के नेतृत्व में इकट्ठा हुए किसानों ने सड़क पर सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। भारतीय किसान युनियन के रामखिलावन शुक्ला और हरिहर दीक्षित ने बताया कि पुरी बनवाए जाने को लेकर कई बार

निर्माण कार्य शुरू न होने पर आंदोलन होगा। यह सड़क लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी है। आए दिन यहां से गुजर रहे ओवरलोड वाहनों की चपेट में आकर हादसे हो जाते हैं। बीते दिनों भी एक महिला की दर्दनाक मौत इसी सड़क में ट्रक की टक्कर से हो चुकी है। ओवरलोड वाहनों पर पाबंदी लगाए जाने की मांग के साथ-साथ सड़क को जल्द से जल्द बनवाए जाने की मांग की गई। किसानों ने उक्त सडक पर पानी के छिड़काव की भी मांग की तो वही सड़क के निर्माण को लेकर प्रशासन से जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाने के लिए कहा गया। किसानों ने चेतावनी दी सड़क पर निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर एक बड़ा आंदोलन उक्त सडक पर उतर कर किया।

चेतावनी दी गई थी सड़क का

श्यामा प्रसाद मुखर्जी व रूर्बन अभियान के तहत निर्मित मिनी स्टेडियम चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट



महोबा भास्कर ब्युरो । विकास खंड कबरई के ग्राम बरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी व रूर्बन अभियान के तहत निर्मित मिनी स्टेडियम भ्रष्टाचार की भेंट चढ गया गौरतलब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी व रूर्बन अभियान के तहत योजना से गांवों को शहरों की तरह विकसित करने के लिए शासन द्वारा 128. 57 करोड की धनराशि का डीपीआर तैयार किया गया था । जसमे विकासखंड कबरई की 13 पंचायतों में किए जाने थे इस योजना के तहत कार्य लेकिन इस योजना के द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराए गए हैं वह सफेद हाथी साबित हो रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर का जनमानस उपयोग नहीं कर पा रहा है कारण निर्माण

कार्य में बरती गई शिथिलता व गुणवत्ता विहीन कार्य के कारण किसी भी कार्य को आज तक जनोपयोगी नहीं बनाया जा सका। इसी का एक जीता जागता उदाहरण ग्राम पंचायत बरा में निर्मित मिनी स्टेडियम है जो 12 लाख रुपए की लागत से प्रांतीय खंड लोक निर्माण के द्वारा बनाया गया है लेकिन इसका निर्माण इतना घटिया तरीके से किया गया है कि इसका आज तक उपयोग नहीं किया गया है स्टेडियम में न तो पेयजल तथा लाइट आदि की व्यवस्था है और न ही साफ-सफाई है झाड़ झंकार लगे हुए हैं और जो भी बच्चों के खेलने के लिए संयंत्र स्थापित किए गए हैं। वह भी गुणवत्ता विहीन लगाए गए हैं से बाज नहीं आ रहे ।

अपने साथ हो रहे

अन्याय और हिंसा

को कतई बर्दाश्त न

करें: ऊषा अग्रवाल

हिंसा विरोधी कार्यक्रम के तहत

महिला हिंसा के लिए जागरूकता

कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि अपने

जो लगने के कुछ ही समय बाद अपने आप ही टूट गए हैं स्टेडियम के अंदर जानवरों का चारागाह बना हुआ है और यहां पर झाड़ झंकार लगी हुई है जब से बना है तब से आज तक यहां पर कोई भी खेलने के लिए नहीं आया। कारण स्टेडियम तक बरा गांव से 3 किलोमीटर की कच्ची सड़क

है जिसमें बरसात में तो निकलना दूभर है । साथ ही इसी गाँव की सड़क खराब ही बनी रहती है। इस संबंध में जब प्रांतीय खंड लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता से बात करना चाही तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से इंकार कर दिया इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी संलिप्तता भी इस कार्य में निश्चित रूप से है । क्योंकि 1 वर्ष बाद भी मिनी स्टेडियम का ताला न खुलना जनपद के आला अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हैं । सरकार द्वारा लाख प्रयास करने के बाद भी गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं भ्रष्ट अधिकारी योजना को पलीता लगाने

थाना अजनर पुलिस ने वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

महोबा अजनर।

अधीक्षक सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी शिवआसरे द्वारा गठित संयुक्त टीम उ०नि० श्यामजी द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 207/ 2022 धारा 452/308/ 323/ 504/ 506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त रघुवीर पुत्र प्रभु यादव उम्र करीब 48 वर्ष को ग्राम मझगवाँखुर्द से गिरफ्तार किया गया इसी क्रम में उ.नि. सुखलाल द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट मु०नं० 3857/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी नीरेन्द्र पुत्र धरम राजपूत को ग्राम नगाराडाँग से गिरफ्तार किया गया आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त न्यायालय के समक्ष पेशी हेत् भेजा गया ।

बुंदेलखंड किसान यूनियन ने तहसीलदार चरखारी को दिया महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन



चरखारी (महोबा)। बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहे बुंदेलखंड किसान यूनियन पदाधिकारियों द्वारा आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन चरखारी तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार को दिया गया, ज्ञापन के माध्यम से मंडियों में व्याप्त अनियमितताओं के बारे में बताते हुए बुंदेलखंड किसान युनियन के पदाधिकारियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि मंडियों में घोर अनियमितता व्याप्त है, ज्ञापन में कहा गया है कि चरखारी, महोबा, बेलाताल की मंडियों का चार्ज एक ही सचिव के पास है ज्ञापन में कहा गया है कि चरखारी व बेलाताल में मंडी सचिव कभी नहीं बैठते हैं, और मंडियों को अपने चहेते चौकीदारों के

माध्यम से चलवा रहे हैं, इसी के साथ मंडियों में किसानों की एक कुंतल मूंगफली लेने के बदले उन्हें 97 किलों के पैसों का भुगतान किया जा रहा है, मंडियों के गेट के बाहर व्यापारियों से व्यापार करवा कर टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया गया है, बताया गया कि मंडी सचिव को उपरोक्त कमियों के बारे में सूचित करने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, ज्ञापन में मंडी में व्याप्त उपरोक्त किमयों की जांच करा कर मंडी सचिव को हटाने की भी मांग की गई, ज्ञापन देते समय बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामिकशन शर्मा व प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश पाठक के साथ संगठन के

अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

मफ्त धामों के निर्माण की प्रक्रिया शरू

करने के लिए कहा गया है इस क्लबा

सारसुर्खियां

कार और बाइक भिड़त से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल



बेलाताल महोबा । कार और बाइक में भिडंत से बाइक सवार 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल , आक्रोशित ग्रामीणों ने ओमनी कार को किया छतिग्रस्त । थाना क्षेत्र कुलपहाड़ के बेलाताल स्टेशन पर एक मारुती ओमनी कार और बाइक में भिड़त हो गई । स्थानीय ग्रामीणों की माने तो राहुल पुत्रं रामनिवास निवासी लाडपुर – महोबा अपने घर से अपनी संसुराल बिहार मारुती ओमनी से जा रहे थे तभी बेलाताल स्टेशन के पास एक किराने की दुकान से कार को खड़ी कर कुछ सामग्री लेने लगे तभी तेज रफ़तार में तूरत की तरफ से तेज रफ़तार बाइक सवार दो युवक आ रहे तभी अचानक अपना संतुलन खो बैठे और खडी गाडी में तेज रफ़तार बाइक से टक्कर मार दी । और दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गये । मौके पर खड़े लोगो ने घायल हरेन्द्र पुत्र देवेन्द्र व छोटू पुत्र वीर सिंह निवासी थुरट के परिजनोंव ग्रामीणों को सूचना दी । सूचना पर आनन फानन में मौके पर पहुंचे अज्ञात ग्रामीणों ने ओमनी कार को तोड़ फोड़ कर छतिग्रस्त कर दिया । सूचना पर पहुची पुलिस ने गंभीर युवको जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया जहाँ चिकत्सको द्वारा हालत को गंभीर देखा दोनों बाइक सवारों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया । और बाइक और कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की ।

अपर पुलिस अधीक्षक ने खन्ना थाना का किया अर्द्दवार्षिक निरीक्षण,



महोबा भारकर ब्यूरो । अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0 के0 गौतम द्वारा थाना खन्ना का अईवार्षिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्पडेस्क, अपराध रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर, सीसीटीएनएस कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया, रजिस्टरों को अद्यावधिक रखने हेतु व पाई गई किमयों को दुरुस्त करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया । तत्पश्चात बन्दी गृह, मालखाना, शस्त्रागार इत्यादि का निरीक्षण किया गया व मिशन शक्ति योजना के क्रम में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का गहन निरीक्षण करते हुए रिकार्ड रिजस्टर व प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा लावारिस वाहनों एवं मालों का विधिक निस्तारण सुनिश्चिचत करने व थाने की साफ-सफाई उच्चकोटि की बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा थाना खन्ना में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की गयी व सम्बन्धित को निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए । इस अवसर पर थाना प्रभारी थानाध्यक्ष उपेन्द्र प्रताप सिंह सहित थाना खन्ना में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

बाइक में ट्रक ने टक्कर मारी एक की मौत एक घायल, कालपी क्षेत्र का मामला

उरई। आटा थाना क्षेत्र के ग्राम सन्दी निवासी कृपाल ठाकुर पुत्र सूखे उम्र 52 वर्ष अपने पड़ोस के रामु पुत्र रामसेवक नाई उम्र 35 वर्ष के साथ बाइक से कालपी बीज लेने जा रहा था। इस दौरान बाइक जैसे ही नेशनल हाइवे स्थित कालपी कोतवाली क्षेत्र के हरकुपुर के पास पहुँची तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर गिरे कृपाल ठाकुर को रौंदते हुए ट्रक मौके से फरार हो गया। जबकि रामु गम्भीर रूप से घायल हो गया। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना पर तुरत पहुँची पुलिस ने घायल रामु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जबिक कृपाल के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। बीच सड़क पर हुए हादसे से झाँसी कानपुर मार्गे कुछ देर के लिए डायवर्ट कर दिया गया।

पूर्व विधायक दीपनारायण वह कुख्यात गैंगस्टर लेखराज भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट आये

दैनिक भारकर उरई। गैंगस्टर के आरोप में झांसी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लेखराज व पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पुलिस अभिरक्षा मे न्यायालय में आए इन दोनों पर सहयोगियों को जाने समेत गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं। बता दें कि बीती 25 सितंबर को एट कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक राजेश सिंह ने झांसी के कुख्यात गैंगस्टर लेखराज के ऊपर पुलिस अभिरक्षा में आत्महत्या की कोशिश व पुलिसवालों को धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि एट कोतवाली क्षेत्र में कानपुर-झाँसी नेशनल हाईवे पर लेखराज ने पुलिस अभिरक्षा में गाड़ी में आत्महत्या करने की कोशिश की थी और गरौठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सपा विधायक दीपनारायण सिंह यादव और उनके सहयोगियों पर उकसाने का आरोप है। शुक्रवार को पूर्व विधायक दीपनारायण यादव व गैंगेस्टर लेखराज को झांसी जेल से बंद गाड़ी में कचहरी लाया गया। बाद में दोनों आरोपितों को सीजेएम अंजू राजपूत की कोर्ट में पेश दिया गया। 19 नवंबर की पेशी में पुलिस के आरोप पत्र पर बहस हो चुकी थी। शुक्रवार को हुई पेशी में सीजेएम ने गैंगेस्टर लेखराज सिंह पर पुलिस अभिरक्षा में आत्महत्या की कोशिश करना, पुलिस कर्मियों के साथ धक्कामुक्की करना एवं धमकी देने तथा पूर्व विधायक दीप नारायण यादव लेखराज के पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने की कोशिश करने के अपराध में पुलिस द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया। आरोप तय होने के बाद आरोपितों को झांसी जेल भेज दिया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश वर्मा ने बताया कि पुलिस की चार्जशीट को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

चोरी की दो ट्राली समेत दो चोरों को दबोचा पुलिस ने, चोरी की दो ट्राली बरामद

कोंच। मध्यप्रदेश के अलग अलग स्थानों से चुराई की गईं दो ट्रालियों को अपने ट्रैक्टर में लगाकर ले जा रहे दो चोरों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी गुरुवार को कोतवाली क्षेत्र के महेशपुरा रोड स्थित लकड़ी के टाल से की गई है। पकड़े गए दोनों चोरों को जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे गए आरोपियों के नाम पंकज यादव निवासी ग्राम संसीगढ़ थाना आलमपुर भिंड व संजू निवासी पटेलनगर कोंच बताए गए हैं। उधर, चोरी की उक्त घटना में शामिल अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस सक्रिय है।

१६ दिवसीय महिला हिसा विरोधी कार्यक्रम के तहत रीथिक गोष्टी सपन्न

महोबा भास्कर ब्यूरो। चरखारी के गोवर्धन नाथ जू महाराज मंदिर प्रांगण से शुरू महिला हिंसा विरोधी कार्यक्रम के 8वें दिन रीथिंक गोष्ठी का आयोजन किया गया। ग्रामोन्नति संस्थान महोबा द्वारा मानसिक रोग विभाग के प्रतिनिधियों को साथ लेकर महिलाओं, किशोरियों के मुद्दों पर चर्चा कर समाधान की खोज किए जाने की कोशिशों को कैसे साकार किया जाए, इससे जुड़े अनुभव और विचारों को साझा किया गया। गोष्ठी कार्यक्रम में आधुनिक समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोक कर उनके कारणों को सुधार कर महिलाओं को समाज में बराबरी का मौका दिए जाने की कवायद पर जोर दिया गया। समाज में महिलाओं की गैर बराबरी और उत्पीड़न को लेकर क्रिया परियोजना की



जिन्हें उनके पति बाहर निकलकर

काम करने से रोकते थे। उन सभी

परियोजना के 15 गांवों में महिला

की काउंसलिंग कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया गया। आज की वर्तमान स्थिति में वे किशोरियां और महिलाएं अपने स्वतंत्र है अपने निर्णय स्वयं ले रही हैं। जो कि क्रिया परियोजना के कार्यक्रमों में भागीदारी से ही संभव हो पाया है। संस्थान से जुड़ी ऊषा अग्रवाल ने बताया कि

साथ हो रही हिंसा और अत्याचारों को महिलाएं सहन करने के स्थान पर विरोध कर सकें। कार्यक्रम के दौरान मानसिक रोग विभाग से मनोरोग परामर्श दाता प्रेमदास, ग्रामोन्नति संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अरविंद खरे. ऊषा. ममलेश विश्वकर्मा ग्रामीण क्षेत्रों की महिआओं समेत ग्रामोन्नित संस्थान के समस्त स्टाफ

महोबा भास्कर ब्यूरो । 16 दिवसीय महिला हिंसा रोकथाम जागरूकता अभियान के दौरान ग्रामीण स्वालंबन समिति से ग्राम



किया गया

पचपहरा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर महोबा से केन्द्र प्रबंधक क्षमा द्वारा महिला कल्याण विभाग की ओर से संचालित योजनाये कन्या सुमंगला योजना, बाल सेवा योजना, विधवा पेंशन, एवं महिला हिंसा से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई 112, 1090, 1076, 102, 108, 181महिला हेल्पलाइन आदि की जानकारी दी गई, बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी दी गई उपस्थित बच्चे में महिलाओं को किशोर न्याय बोर्ड से उपस्थित कल्पना सोनी ने कानून की जानकारी दी एवं बच्चों के अधिकार के विषय में बात की हिंसा से प्रताड़ित महिला किस प्रकार से आगे आकर शिकायत दर्ज करें उन सब के बारे में भी जानकारी दें बाल विवाह रोकथाम हेतु भी जागरूक किया गया मीटिंग में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिवकली ब्युटी मित्रा ममता ,मोहिनी पंचायत सहायक अर्चना समृह सखी प्रियंका स्कुल से टीचर सभी लोग उपस्थित रहे।

मछुआ समुदाय के लिए मोक्ष धाम निर्माण को लेकर एसडीएम को सौपा ज्ञापन



बेलाताल,,महोबा। जैतपुर बेलाताल कस्बे के सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रपाल रिछारिया ने एसडीएम कुलपहाड़ को दिए ज्ञापन में जैतपुर बेलाताल कस्बा मैं मछुआ समुदाय के लिए मुक्तिधाम मोक्ष धाम के निर्माण को लेकर ज्ञापन दिया साथ ही बाईपास रोड स्थित मोक्ष धाम की जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं बाउंड्री वाल कराने को लेकर गए एसडीएम को अवगत कराया एसडीएम अरुण दीक्षित ने जैतपुर बेलाताल कश्मीर की अत्यंत मतपुर समस्या को ध्यान में रखते हुए खंड विकास अधिकारी सौम्या लोक से वार्ता कर जैतपुर बेलाताल कस्बे में

जैसा विदित है जैतपुर बेलाताल की जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रपाल रिछारिया के द्वारा आज उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ को दिए ज्ञापन में कहां गया है 40,000 की आबादी वाले जैतपुर बेलाताल ब्लॉक मुख्यालय में मुक्तिधाम शवदाह गृह की गंभीर समस्या है पहाड़ों के नीचे बसर करने वाले मछुआ समुदाय के आसपास कहीं भी कोई मोक्षधाम नहीं है ऐसे में जब किसी के परिवार में कोई मृतक हो जाता है तो उसकी अंतिम क्रिया पहाड़ों के ऊपर कराई जाती है जिससे लकड़ी सामग्री ले जाने में भारी दिक्कतों का कर समाजसेवी द्वारा दिए गए ज्ञापन के मुक्तिधाम शवदाह गृह का सर्वे कराकर सामना करना पड़ता है दिए हुए ज्ञापन आधार पर मछुआ समुदाय के लिए कही है

समस्या से अवगत कराने को कहा है में कहा गया है मछुआ समुदाय के लिए दो स्थानों पर मोक्षधाम मौका निर्माण कराया जाए इसके अलावा बाईपास रोड स्थित जो मोक्ष धाम का सेट बना हुआ है उसके आसपास भारी गंदगी रहती हैं जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा कर के उसकी चौहद्दी बाउंड्री वाल बनवाई जाए साथ ही पानी की व्यवस्था भी कराई जाए इसके अलावा रेलवे स्टेशन रोड रोड पर भी मुख धामों का निर्माण कराए जाने के लिए एसडीएम कुलपहाड़ से निवेदन किया गया है इस संदर्भ में एसडीएम ने तत्काल खंड विकास अधिकारी इस दूरभाष पर वार्ता

बायपास रोड एवं अन्य स्थानों पर भी मोक्ष धाम सौदा ग्रह के निर्माण के एवं जमीन आरक्षित करने के लिए कहा गया है ज्ञापन देने वालों में रिटायर्ड शिक्षक महेंद्र नायक रामलीला मंच के मुकेश अग्रवाल एडवोकेट युसूफ मोहम्मद अखिलेश द्विवेदी साथ रहे सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रपाल रिछारिया ने कहा कि इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर वार्ता कर मछुआ समुदाय एवं अन्य जरूरतमंद स्थानों पर मुछ धामों के नव निर्माण की बात

संवाद

हमारी ताकत और स्थिरता के लिए हमारे सामने जो जरूरी काम हैं उनमे लोगों में एकता और एकजुटता स्थापित करने से बढ़ कर कोई काम नहीं है। - लाल बहादुर शास्त्री

अब भी हरे हैं भोपाल गैस कांड के जख्म

शनिवार ०३ दिसम्बर २०२२ स्था

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वर्ष 1984 में हुई भयावह गैस त्रासदी को पूरी दुनिया के औद्योगिक इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। 03 दिसम्बर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (से निकली जहरीली गैस 'मिथाइल आइसोसाइनाइट' ने हजारों लोगों की जान ली थी। इस त्रांसदी से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। भोपाल गैस कांड के 38 साल बीत चुके हैं। इस त्रांसदी के पीड़ितों के जख्न आज भी हरे हैं। यह हादसा पत्थर दिल इंसान को भी इस कदर विचलित कर देने वाला था कि हादसे में मारे गए लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया जबिक करीब दो हजार जानवरों के शवों को विसर्जित करना पड़ा। एक शोध में यह तथ्य सामने आया है कि भोपाल गैस पीड़ितों की बस्ती में रहने वालों को दूसरे क्षेत्रों में रहने वालों की तुलना में किडनी, गले तथा फेफड़ों का कैंसर 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा इस बस्ती में टीबी तथा पक्षाघात के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। इस गैस त्रासदी में पांच लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें से हजारों लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी और जो जिंदा बचे, वे विभिन्न गंभीर बीमारियों के शिकार होकर जीवित रहते हुए भी पल-पल मरने को विवश हैं। बहुत से लोग कैंसर सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और घटना के 38 साल बाद भी इस सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गैस त्रासदी से 3787 की मौत हुई और गैस से करीब 55,8125 लोग प्रभावित हुए थे। हालांकि कई एनजीओ का दावा रहा है कि मौत का यह आंकड़ा 10 से 15 हजार के बीच था तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। करीब आठ हजार लोगों की मौत तो दो सप्ताह के भीतर ही हो गई थी जबकि करीब आठ हजार अन्य लोग रिसी हुई गैस से फैली संबंधित वर्ष 1979 में मिथाइल आइसोसाइनाइट के उत्पादन के लिए एक नया कारखाना खोला गया लेकिन भोपाल गैस त्रांसदी की घटना के समय तक उस कारखाने में सुरक्षा उपकरण ठीक हालात में नहीं थे और वहां सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। कारखाने के टैंक संख्या 610 में निर्धारित मात्रा से ज्यादा एमआईसी गैस भरी हुई थी और गैस का तापमान निर्धारित 4.5 डिग्री के स्थान पर 20 डिग्री था। 03 दिसम्बर 1984 को करीब 40 टन गैस का जो रिसाव हुआ, उसका एक बड़ा कारण माना गया कि टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के साथ पानी मिल जाने से रासायनिक प्रक्रिया होने के परिणामस्वरूप टैंक में दबाव बना और टैंक का अंदरुनी तापमान 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे धमाके के साथ टैंक का सेफ्टी वाल्व उड गया और यह जहरीली गैस देखते ही देखते पूरे वायुमंडल में फैल गई। अचानक हुए जहरीली गैस के इस रिसाव से बने गैस के बादल हवा के झोंके के साथ वातावरण में फैल गए और इसकी चपेट में आने वाले लोग मीत की नींद सोते गए।

प्रारब्ध के अनुसार मिलता है सुख-दुख

ॅयक्ति को चाहिए कि हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करे और प्रारब्ध के अनुसार जो सुख-दुख मिलता है उसे प्रभु का प्रसाद समझकर निर्विकार मन से भोग ले। श्री मदभागवत का पावन संदेश-- इंसान को अपना प्रारब्ध प्रसन्नता से भोगना चाहिए। बुद्धिमान किसान वह है, जो बीज बोते समय अच्छी तरह विचार कर ले कि कौन-सा बीज बोना हितकर होगा। पर जब बीज बो चुका और फसल काटने का समय आया तो यह सोचने से क्या फायदा कि वह बीज बोया होता तो अच्छा होता। ज्ञानी जनों का कहना है— "अब जो बोया है वह तो चुप-चाप काट ले, आगे जब बोना तो सोच समझकर बोना।" लेकिन जीव की प्रवृति क्या है? प्रत्येक जीव प्रायः पाप का बीज बोता रहता है और फल पुण्य का काटना चाहता है। यह कैसे संभव हो सकता है? पाप का बीज बोया है तो पाप और दुख की फसल काटनी ही पड़ेगी, पुण्य का बीज बोया है तो सुख की फसल मिलेगी ही। कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्रह्लाद जी ने कहा- यथा दुखमयत्नत; तथा सुखमयत्नत; सुख भाग्य के अधीन है। यदि तुम कुछ नहीं भी करो और प्रारब्ध अच्छा है तो तुम्हारे लिए जंगल में भी मंगल है। दुख कोई नहीं चाहता फिर भी दुखी होना पड़ता है, उसी प्रकार सुख नहीं भी चाहो और भाग्य में है तो न चाहने पर भी अवश्य मिलेगा। जैसे बिना कोशिश के दुख मिला वैसे ही बिना कोशिश के सुख भी मिलेगा। प्रसन्नता पूर्वक प्रारब्ध को स्वीकार करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति प्रारब्ध को हँसकर भोगता है और अज्ञानी रो-रोकर भोगता है, भोगते दोनों ही हैं। यदि आप अपने कर्मों को हँसकर भोगेंगे तो उतना कष्टप्रद नहीं होगा और रोते हुए भोगोगे तो हर क्षण दुखी रहोगे। भगवान की कृपा को हर परिस्थित में महसूस करना चाहिए। आखिर जीवन में किया क्या जाए? तन, मन और वचन से हिर चरणों की वंदना करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा नही कि वाणी से कुछ कहा, मन कुछ दूसरा हिसाब लगा रहा है और तन किसी इसरे काम में लगा है। मन, वचन, कर्म तीनों से एक होकर जिसने प्रभ् को भजना सीख लिया और इन तीनों को अपनी जबान में उतार लिया उसका भगवत धाम में रिज़र्वेशन हो गया। पुत्र को पिता की संपत्ति पाने के लिए पिता की आज्ञा में रहना पड़ता है। पिता का आज्ञाकारी पुत्र हो गया तो पिता की सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब परमात्मा की संतान हैं तो परमात्मा की मोक्ष रूपी संपत्ति में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर हम लोग क्या करते हैं। परमात्मा को तो मानते हैं किन्तु परमात्मा की नहीं मानते हैं।

प्रेरणाप्रद मोती



प्रत्येक काम का अपना अवसर होता है और अवसर वही है, जब वह काम आपके सामने पडा हो।

> पं श्रीराम शर्मा आचार्य (गायत्री परिवार)

आज का राशिफल

मेष : आज आपको कार्य में सफलता और यश-कीर्ति मिलेगी। आर्थिक रूप से आज का दिन बेहतर रहेगा है।

वष: मनोरंजन का लाभ उठाएं, परिजनों के साथ समय आनंदपर्वक व्यतीत होगा। वाहन-सुख मिलेगा व मान-सम्मान भी मिलेगा।

मिथन : आज विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद-विवाद में आप न पड़ें। आज आप अपने पास के किसी व्यक्ति के लिए एक महंगा उपहार

खरीद सकते है जो की उस व्यक्ति को आश्रयचिकत कर सकता है। कर्क: आपके वैवाहिक जीवन में खटास पैदा हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी से काम लेना होगा।

सिंह: अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं तो फैसला लेने की अपनी क्षमता को और विकसित कीजिए।

कन्या : आज आपके आमदनी बढऩे के आसार हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। एकाग्रता बनाए रखें। व्यवसाय से जुड़ा कोई फैसला लेते वक्त आप सावधान रहें ताकि कोई आप को ठर्गे नहीं क्योंकि अंदेशा है कि आपके व्यवसायिक साझेदार आपके व्यवहार का नाजायज फायदा उठाने

तुला : व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। वसूली के पैसे

आएंगे। परिवार में भी आनंद का वातावरण रहेगा। वृश्चिक: आज के दिन कार्यालय का माहौल अनुकूल बना रहेगा। वैवाहिक जीवन पर आशंकाओं के बादल मण्डरा सकते हैं। कई दिनों से

धन : आज आप एक साथ कई परियोजनाओं के बोझ तले दबा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। मन में व्यग्रता रहेगी।

चली आ रही बीमारी से आज आराम मिलेगा।

मकर : आज आप ज्यादा खाने से बचें। अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा। आज आप अकेलापन महसस कर सकते हैं।

कुंभ : नये विचार भी दिमाग में आयेंगे। आप अपने दृढ़ प्रयासों से अपने

मीन : उद्योग में निवेश करेंगे तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। मित्रों

लक्ष्य को पा लेंगे और आपके सपने साकार होंगे। के मिलने से आपको आनंद होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में सकारात्मक

विश्व में एकता की भावना बढ़ाएगी जी-20 अध्यक्षता



अध्यक्षताओं के दौरान वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय कराधान तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को

कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे तथा यहां से और आगे की ओर बढ़ेंगे। अब, जबिक भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं अपने आपसे यह पूछता हूं- क्या जी20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव को उत्प्रेरित कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी परिस्थितियां ही हमारी मानसिकता को आकार देती हैं। पूरे इतिहास के दौरान, मानवता अभाव में रही। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़े, क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। विभिन्न विचारों, विचारधाराओं और पहचानों के बीच, टकराव और

दुर्भाग्य से, हम आज भी उसी शून्य-योग की मानसिकता में अटके हुए हैं। हम इसे तब देखते हैं जब विभिन्न देश क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। हम इसे तब देखते हैं जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। हम इसे तब देखते हैं जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, भले ही अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हों। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय स्वभाव है। मैं इससे असहमत हूं। अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, तो हम सभी में मूलभूत एकात्मता की हिमायत करने वाली इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराओं के स्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाए? भारत में प्रचलित ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी जीवित प्राणियों और यहां तक कि निर्जीव चीजों को भी एक समान ही पांच मूल तत्वों-



आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, वह डिजिटल पौद्योगिकियों की मापनीयता को प्रदर्शित करती है। भारत इस सकल विश्व का सूक्ष्म जगत है जहां विश्व की आबादी का छठवां हिस्सा रहता है और जहां भाषाओं, धर्मों, रीति-रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। 🏒

भारत की जी-20 की अध्यक्षता बुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम - 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये मानवीय परिस्थितियों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है, जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। हमारे पास ढुनिया के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन हैं। हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है । आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंक और महामारी जैसी जिन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनका समाधान लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है।

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंचतत्व से बना हुआ मानती है। इन तत्वों का सामंजस्य - हमारे भीतर और हमारे बीच भी- हमारे भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए आवश्यक है। भारत की जी-20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम - 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये मानवीय

परिस्थितयों में उन हालिया बदलावों को ध्यान में रखता है, जिनकी सराहना करने में हम सामूहिक रूप से विफल रहे हैं। आज हमारे पास दुनिया के सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने के साधन हैं। आज, हमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है - हमारे युग को युद्ध का युग होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए! आज हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनक समाधान आपस में लंडकर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है। सौभाग्य से, आज की जो तकनीक है वह हमें मानवता के व्यापक पैमाने पर समस्याओं का समाधान करने का साधन भी प्रदान करती है। आज हम जिस विशाल वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, वह डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मापनीयता को प्रदर्शित करती है। भारत इस सकल विश्व का सूक्ष्म जगत है जहां विश्व की आबादी का छठवां हिस्सा रहता है और जहां भाषाओं, धर्मों, रीति-रिवाजों और विश्वासों की विशाल विविधता है। सामृहिक निर्णय लेने की सबसे पुरानी ज्ञात परंपराओं वाली सभ्यता होने के नाते भारत दुनिया में लोकतंत्र के मूलभूत डीएनए में योगदान देता है।

लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की राष्ट्रीय सहमति किसी फरमान से नहीं, बल्कि करोड़ों स्वतंत्र आवाजों को एक सुरीले स्वर में मिला कर बनाई गई है। आज, भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारे प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा का पोषण करते हुए, हमारा नागरिक-केंद्रित शासन मॉडल एकदम हाशिए पर पड़े नागरिकों का भी ख्याल रखता है।हमने राष्ट्रीय विकास को ऊपर से नीचे की ओर के शासन की कवायद नहीं, बल्कि एक नागरिक-नेतृत्व वाला 'जन आंदोलन' बनाने की कोशिश की है। हमने ऐसी डिजिटल जन उपयोगिताएं निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है जो खुली, समावेशी और अंतर-संचालनीय हैं। इनके कारण सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे विविध क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रगति हुई है। इन सभी कारणों से भारत के अनुभव संभावित वैश्विक समाधानों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। जी20 अध्यक्षता के दौरान, हम भारत के अनुभव, ज्ञान और प्रारूप को दूसरों के लिए, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए एक संभावित टेम्प्लेट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। - लेखक वर्तमान में भारत के

आवश्यकता है ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने की



27वां पार्टियों का सम्मेलन (कॉप 27) पिछले सप्ताह समाप्त हुआ और कई चुनौतियों तथा विचारों में भिन्नता के बावजूद, सदस्य देशों ने जटिल मुद्दों के समाधान के प्रयास किए।

कॉप 27 को कार्यान्वयन के लिए कॉप का ब्रांड नाम दिए जाने के साथ, प्रमुख मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख हैं- हानि और क्षिति वित्त पोषण पर समझौता; अनुकूलन और शमन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, जो उत्सर्जन में कमी का मुकाबला करता है और प्रभावी कार्यान्वयन को गति प्रदान करता है तथा जो वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के अधिक महत्वाकांक्षी पेरिस समझौते के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए वैश्विक समुदाय को प्रेरित करता है। भारत की दृष्टि से कॉप 27 के परिणाम महत्वपूर्ण रहे

हैं, क्योंकि एक देश के रूप भारत के या विकासशील देशों की सामूहिक आवाज के रूप में भारत द्वारा प्रस्तावित चिंताओं, विचारों और सुझावों को उचित महत्व दिया गया है। शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना मानती है कि ग्लोबल वामिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की तेज और निरंतर कमी किए जाने की आवश्यकता है। योजना यह भी स्वीकार करती है कि विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में एवं सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के संदर्भ में सामान्य लेकिन पृथक जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) को दर्शाते हुए, न्यायपूर्ण और सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर, इस महत्वपूर्ण दशक में त्वरित कार्रवाई की



आवश्यकता है। भारत, राष्ट्रों के लिए जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन्हें पूरा करने में सीबीडीआर-आरसी दृष्टिकोण अपनाने का मुखर समर्थक रहा है, ताकि जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं से पृथ्वी को बचाने की इस लड़ाई में हम ऐतिहासिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों और तकनीकी व वित्तीय अंतर के प्रति सचेत रहें तथा हरित विश्व निर्माण के लिए विकासशील देशों को शामिल किए जाने की आवश्यकता सुनिश्चित की जा सके।

कार्यान्वयन योजना ने पार्टियों से आग्रह किया, जिन्होंने अभी तक नए या अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों की जानकारी नहीं दी है, वे जल्द से जल्द इसे पुरा करें। भारत न केवल उन 29 देशों में शामिल है, जिन्होंने सीओपी 26 के बाद अपने बढ़े हुए एनडीसी प्रस्तुत किए हैं, बिल्क उन 60 से कम देशों की उस सूची में भी मौजूद है, जिन्होंने ग्लासगो में अपनी शुद्ध शून्य घोषणा के एक वर्ष के भीतर अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां प्रस्तुत की हैं। ये कदम, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के प्रयास का हिस्सा बनने के सन्दर्भ में नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। देशों को निम्न-कार्बन उत्सर्जन की ओर बढऩे के लिए एक कार्ययोजना तैयार करते हुए, कॉप27 कार्यान्वयन योजना राष्ट्रीय

तमिलनाडु के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता

कार्यान्वयन योजना ने पार्टियों से आग्रह किया, जिन्होंने अभी तक नए या अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों की जानकारी नहीं दी है, वे जल्द से जल्द इसे पूरा करें। भारत न केवल उन 29 देशों में शामिल है, जिन्होंने सीओपी 26 के बाद अपने बढ़े हुए

एनडीसी प्रस्तुत किए हैं, बल्कि उन ६० से कम देशों की उस सूची में भी मौजूद है, जिन्होंने ग्लासगो में अपनी शुद्ध शून्य घोषणा के एक वर्ष के भीतर अपनी दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास

रणनीतियां प्रस्तुत की हैं। ये कदम, जलवायु पारवतन स मुकाबला करने के प्रयास का हिस्सा बनने के सन्दर्भ में नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

परिस्थितियों के अनुरूप सबसे गरीब और सबसे कमजोर देशों को लक्ष्य-आधारित समर्थन देने और एक न्यायपूर्ण परिवर्तन की दिशा में समर्थन की आवश्यकता की पहचान करने का आह्वान करती है। इसने मान्यता

सबको सियासत में हक नहीं देती राजधानी दिल्ली

दी कि विकासशील देशों को दिया गया अधिक समर्थन, उनकी कार्रवाई संबंधी उच्च महत्वाकांक्षा को अनुमति प्रदान करेगा। भारत ने इस बात को रेखांकित किया कि अधिकांश विकासशील देशों के लिए न्यायपूर्ण बदलाव की तुलना सिर्फ कार्बनीकरण को कम करने से नहीं की जा सकती है, लेकिन कम-कार्बन उत्सर्जन के साथ, विकासशील देशों को, अपनी पसंद के ऊर्जा मिश्रण तथा एसडीजी हासिल करने में, स्वतंत्रता की आवश्यकता है। कॉप 27 ने सभी जलवायु कार्रवाईयों-न कि केवल शमन, बल्कि शमन, अनुकूलन, वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण- पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को रेखांकित किया।

कॉप 27 योजना ने गंभीर चिंता के साथ, जलवाय परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुकाबले के लिए अनुकूलन के मौजूदा स्तरों और उन स्तरों, जिनकी आवश्यकता है, के बीच मौजूदा अंतर को; जलवायु परिवर्तन छठी आकलन रिपोर्ट पर अंतर-सरकारी पैनल के सन्दर्भ में कार्य समूह डुडु के योगदान के निष्कर्षों के अनुरूप बताया। पार्टियों से क्षमता बढ़ाने, सहनीयता को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति खतरे को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। इसने विकासशील देशों से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुकूलन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी अपने प्रावधान को तत्काल और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि विकासशील देशों की जरूरतों का समाधान किया जा सके। भारत ने लंबे समय से अनुकूलन को उचित महत्व देने और विकासशील देशों की जरूरतों के पैमाने के अनुरूप संसाधनों के पैमाने पर चर्चा करने की तत्काल आवश्यकता पर अपनी लड़ाई को जारी रखा है। -लेखक केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री हैं।

पुरातन मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा जरूरी



समाज और देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है कि हमारा समाज पूरी तरह से शिक्षित हो। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए पुरातन मूल्यों के साथ ही आधुनिक तकनीक का

समावेश करना होगा। तमिलनाडु के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक के. रामचन्द्रन ने कहा कि हमारी पुरातन शिक्षा व्यवस्था में गुरूकल व्यवस्था रही है। शिक्षक और छात्र में परिवेश और रहन-सहन का कोई अंतर नहीं था। गुरुदक्षिणा एक अनिवार्य व्यवस्था थी। यदि आज भी उसी व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही पूरे देश में लागू कर दिया जाए, तो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान शिक्षक के रामचन्द्रन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। छात्र की तरह स्कूली परिधान पहने के. रामचंद्रन हर दूरी को पाट रहे थे। मंच से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हर ग्रामीण इलाके में स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाना चाहिए, जो पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस हो। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इसे

बनाने में महज 20 हजार रूपये का खर्च आएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों से सामासजिक उत्तरदायित्व, लोगों के कर्तव्य, अभिभावक की जिम्मेदारी में कमी देखी जा रही है। इसलिए बेहद जरूरी है कि शिक्षा के पारंपरिक व्यवस्था का अनुशीलन हो। आज हम काशी में बात कर रहे हैं और यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र रही है। तमिलों के लिए भी काशी आना हमेशा से ही गर्व की बात रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फीथिएटर में काशी तिमल संगमम के दौरान तमिलनाडु से आई शिक्षिका सी. मृत्तुलक्ष्मी ने कहा कि हमें एक तरह से 1893 के शिकागो के धर्म संसद का आभास हो रहा है। हमने उस संसद के बारे में पुस्तकों में पढ़ा है। लेकिन, विख्यात शिक्षा केंद्र बीएचयू में जब हम इतने शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के बीच बैठक शिक्षा पर बात कर रहे हैं,

शिक्षक के. रामचन्द्रन ने कहा कि हमारी पुरातन शिक्षा व्यवस्था में गुरूकल व्यवस्था रही है। शिक्षक और छात्र में परिवेश और रहन-सहन का कोई अंतर नहीं था। गुरुदक्षिणा एक अनिवार्य व्यवस्था थी। यदि आज भी उसी व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही पूरे देश में लागू कर दिया जाए, तो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान शिक्षक के रामचन्द्रन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। छात्र की तरह स्कूली परिधान पहने के रामचंद्रन हर दूरी को पाट रहे थे। मंच से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हर ग्रामीण इलाके में स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाना चाहिए।

तो स्वामी विवेकानंद की कही कई बातें अनायास ही मानस पटल पर आ रही है। तिमलनाडु से आए एक अन्य शिक्षक के. एस. नारायणन ने कहा कि कई रिपोर्ट में यह सिद्ध हो चुका है कि जो समाज अपनी मातृभाषा में सिद्धहस्त नहीं है, वह किसी अन्य भाषा को नहीं सीख सकता है। हमें गर्व है कि पूरा तमिलनाड़ और यहां बैठे हमारे तमाम राज्यवासी अपनी मातृभाषा को जीते हैं। इसलिए हमें कोई अन्य भारतीय भाषा को समझने में दिक्कत नहीं आती है। - लेखक पत्रकार व समसामयिक विषयों की जानकार हैं।

लघु भारत का दर्जा हासिल कर चुकी देश की राजधानी दिल्ली सियासत में सबको बराबर का हक देने में नाकाम रही। उसके पास आगामी 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनावों में अपनी छवि को उजला करने का मौका था। वह अपने को बदल सकती थी। पर दिल्ली इस बार नहीं बदली। उसे यथास्थितिवादी रहना ही पसंद आता रहा। वह चाहती तो मुंबई की तरह समावेशी हो सकती थी। उसके पास अनुपम अवसर था बांग्लाए तमिलए मराठीए तेलुगू, गुजराती भाषियों को अपना नगर सेवक चुनने का। भारतीय जनता पार्टीएकांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 250 सदस्यों के निगम के सदन के लिए किसी गैर.हिन्दी भाषी को टिकट नहीं दिया। अफसोस कि इन्हें एक भी गैर-हिन्दी भाषी नहीं मिला जिसे ये अपना उम्मीदवार बना पाते। ये सब दिल्ली में दशकों से रह रहे हैं और इस महानगर को समृद्ध कर रहे हैं। इन सबने दिल्ली में दर्जनों श्रेष्ठ स्कूल खोले। जिनसे लाखों बच्चों ने पढ़ाई की और वे बेहतर नागरिक बने। ये

आमतौर पर माना जाता है कि दिल्ली में पैसा पंजाबियों और बनियों ने सबसे ज्यादा कमाया है। तमिल भाषी शिव नाडार इस सोच को ध्वस्त करते हैं। वे मूल रूप से तंजावुर जिले से है। शिव नाडार की नेटवर्थ 14.3 बिलियन डॉलर है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसारए शिव नाडार राजधानी के सबसे धनी शख्स हैं। उन्होंने यहां आकर कुछ साल डीसीएम डाटा प्रोडक्टस में नौकरी की। उसे 1976 में छोड़कर एचसीएल इंटरप्राइजेज की स्थापना की और एक गैराज से केलकुलेटर और माइक्रोप्रोसेसर बनाने लगे। आगे चलकर उन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजी की स्थापना की। अब करीब आधा दर्जन देशों मेंए 100 से ज्यादा कार्यालय, करीब एक लाख पेशेवर उनके साथ जुड़े हैं। दिल्ली-नोएडा में तो शिव नाडर के दफ्तरों की भरमार है। फिलहाल एएचसीएल की 80 फीसदी आमदनी कंप्यूटर और ऑफिस इक्विपमेंट्स बेचकर होती है। शिव का बचपन

दिल्ली के खेलए शिक्षा और बिजनेस जगत में भी अपनी

आमतौर पर माना जाता है कि दिल्ली में पैसा पंजाबियों और बनियों ने सबसे ज्यादा कमाया है। तमिल भाषी शिव नाडार इस सोच को ध्वस्त करते हैं। वे मुल रूप से तंजावुर जिले से है। शिव नाडार की नेटवर्थ १४.३ बिलियन डॉलर है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, शिव नाडार राजधानी के सबसे धनी शख्स हैं। उन्होंने यहां आकर कुछ साल डीसीएम डाटा प्रोडक्टस में नौकरी की। उसे १९७६ में छोड़कर एचसीएल इंटरप्राइजेज की स्थापना की।

अभावों में बीता। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। इसलिए वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बेहतर स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान स्थापित करने में इनवेस्ट करना पसंद करते हैं। शिव ने दिल्ली से जितना लिया उससे ज्यादा वह इसे दे रहे हैं। उनसे मिलते-जुलते अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। दिल्ली ने गैर-हिन्दी भाषियों को आगे बढ़ने के मौके दिए पर सियासत के संसार स दूर ही रखा। अपने को राष्ट्र दल का दावा करने वाले दलों ने इस बार भी टिकट सिर्फ हिन्दी भाषियों को ही दिये। यहां पर पूर्वोतर राज्यों के लाखों लोगों की बात करना ही व्यर्थ है। उन्हें कौन दिल्ली की राजनीति में हक देता है। अब ये मत कहिए कि गैर.हिन्दी भाषियों ने स्थानीय सियासत में अपना हक नहीं मांगा। वे मांगते रहे हैंएपर एक-दो उदाहरणों को छोड़कर उनके हिस्से में निराशा ही आई है। आप 1958 से लेकर अब होने जा रहे नगर निगम चुनावों के इतिहास के पन्नों को खंगालिए। आप पाएंगे कि सिर्फ एक गुजराती भाषी यहां पर नगर निगम पार्षद बना। - विवेक शुक्ला



मुजफ्फरनगर से हैदराबाद भेजे जा रहे भैंसा कंटेनर से बरामद



गौपुत्र सेना ने सूचना मिलने पर पुलिस के सहयोग से करायी कार्यवाही

लिलतपुर। जिले में गुरुवार की रात हाईवे टोल प्लाजा के पास से पलिस ने गौ सेना के कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक ऐसे कंटेनर को जब्त किया है, जिसमें 24 भैंसों को भरकर तस्करी के लिए मुजफ्फरनगर से हैदराबाद ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में कंटेनर के ड्राइवर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार का मामला दर्ज कर लिया है। गौ पुत्र सेना के अध्यक्ष प्रशांत शुक्ला गुरुवार को अपने साथियों के साथ गौकशी की सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित ग्राम विद्या खेत टोल प्लाजा के पास चेकिंग कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि झांसी से सागर की तरफ जा रहे कंटेनर में भारी संख्या में भैंसे ले जाये जा रहे हैं।

सूचना मिलने पर गौ पुत्र सेना के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद तत्काल अमरपुर मंडी चौकी प्रभारी सुरेन्द कुमार पुलिस बल के साथ पहुंच गए और रात साढ़े नौ बजे के करीब आए कंटेनर संख्या आर.जे. 11 जी.सी. 0840 रुकवाया। जांच करने में कंटेनर में 24 भैंसे भरे हुए

लिलितपुर। इन्टैक लिलितपुर चैप्टर द्वारा

चंद्रशेखर आजाद उद्यान पार्क में चुनिंदा योग

साधकों का योग शिविर लगाया गया। योग

शिविर में साधकों ने अनेक आसनों को करते

हुए योग के महत्व को समझाया तथा योग को

जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया।

इन्टैक संयोजक सन्तोष कुमार शर्मा ने कहा कि

थे। ने पुलिस ने चालक और उसमें मौजूद लोगों से घसीटा निवासी शाहपुर थाना स्वास जिला भैसें सम्बन्धी अभिलेख मांगे तो वह कुछ भी नहीं

उन्होंने बताया कि वह यह भैंसा मुजफ्फरनगर से हैदराबाद ले जा रहे थे। पांच आरोपियों में हरियाणा के पलबल अंतर्गत पचका 244 निवासी हरीश खान पुत्र मौज खान व मोहम्मद आकील पुत्र मोहम्मद आजाद, जनपद बागपत के मोहल्ला केतीपरा निवासी सद्दाम पत्र अब्दल गफ्फार. जनपद मुजफ्फरनगर अंतर्गत ग्राम शाहपुर के मोहल्ला माता वाला निवासी हसीन पुत्र मुबीन व मोहल्ला कस्साबान निवासी शानू पुत्र घसीटा को पलिस ने पकडा।

पुलिस ने इस दौरान हरियाणा प्रदेश के जिला पलवल के पंचका 255 हथिन निवासी हरीश खान पुत्र मौज खान, सद्धाम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मोहल्ला रकेतीपुर थाना बागपत कोतवाली जिला बागपत, मोहम्मद आफील पुत्र मोहम्मद आजाद चकविली पंचका थाना हथिन जिला पलवल हरियाणा, हसीन पुत्र मुवीन शाहपुर मोहल्ला माता बोला थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर, शानू पुत्र

इन्टैक ललितपुर चैप्टर ने लगाया योग शिविर

विश्वविधालयों में योग की कक्षयायें चल रहीं हैं

और विश्व स्तर पर योग सीखने की ललक

लोगों में पैदा हो रही है। यदि जीवन में निरोग

रहना है तो हमें योग को प्राथमिकता देनी होगी।

योग, प्रणायाम, ध्यान करने से जहां हमारा

शरीर स्वस्थ रहता है वहीं ध्यान से ईश्वर से

तारतम्य स्थापित किया जा सकता है। इस

अवसर पर एक लंबे अरसे से योग में लोगों को

पारंगत कर रहे अनुराग चतुर्वेदी, मुकेश साहू,

प्रीति जैन, प्रीति शुक्ला, डा.दीपक चौबे का

मुजफ्फरनगर पकड़े गए। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज हुआ।

मामला उन्होंने बताया कि पशु बेचने के लिये हैदराबाद ले जा रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने कंटेनर में बंधे सभी 24 भैंसो को बरामद कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सदर सन्तोष सिंह ने बताया कि पांच लोगों पर पश क्रूरता का निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और कंटेनर में से 24 भैंसा बरामद किए गए है।

इस दौरान गौपुत्र सेना के अध्यक्ष प्रशान्त शुक्ला, गौ रक्षा प्रमुख बजरंग दल मनीष दुबे, अभिषेक दुबे दरौनी, अंतिम सेन, हरेन्द्र राजा खजरा, वंश यादव, राघवेन्द्र राजपूत आदि मौजूद रहे। पकड़े गये पांचों अभियुक्तों के खिलाफ गौपुत्र सेना अध्यक्ष प्रशान्त शुक्ला की तहरीर पर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1)(डी) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी

इन्टैक द्वारा सम्मान किया गया। योग शिविर में

अन्य साधकों ने भी उपस्थित लोगों को योग की

क्रियायें सीखायीं तथा उन्हें जागरुक किया।

शिविर में हरपाल सिंह चन्देल, मनीष

श्रीवास्तव, प्रकाश चन्द साहू, इन्टैक के

रामकुमार दुबे, ममता श्रीवास्तव, श्यामलाल

साहू, सुधा सोनी, स्वाति रजक, रामिकशोर

विश्वकर्मा, श्रद्धा सोनी, नीलम, आयशी.

जागृति, आरती, प्रतीक्षा, आराघ्या, गीता

अतिक्रमण पर रोक नहीं लगाई तो

उसे विवश होकर आमरण अनशन

जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। बताते चलें

कि यह पत्रकार 70 वर्ष से अधिक

उम्र के और हृदय रोग का बड़ा

ऑपरेशन करवा कर अपना जीवन

यापन कर रहे हैं। नाले पर

अतिक्रमण के चलते उनकी दुकानों

में पानी भर जाता है। इसके चलते

उनकी अजीब का प्रभावित हो रही

है। उन्होंने तत्काल अवैध

अतिक्रमण हटाने और जांच करवाने

अहिरवार, सपना राजा आदि मौजूद रहे।

सारसूर्खियां

नहर का पानी छोड़कर खेत में बोई फसल डुबाने का आरोप



एसपी को शिकायती पत्र देने जाती पीड़ित महिलायें

लितपुर। गांव के दबंग व्यक्तियों द्वारा खेत में नहर का पानी छोड़े जाने का विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में महिलाओं ने एक शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजते हुये कार्यवाही की मांग उठायी है। शिकायती पत्र में कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम भरतपुरा निवासी अनीता पत्नी रामनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि बीते दिवस जब वह अपने खेत पर पहुंची तो गांव के विपक्षी उसके खेत में नहर का पानी छोड़कर फसल को डबा रहे थे। इसका विरोध करने पर उक्त लोगों द्वारा गाली-गलौज करते हुये मारपीट कर दी गयी। घटना की सूचना मिलने पर अवतार विश्वकर्मा व भुवन पत्नी मुलायम मौके पर जा पहुंचे. जिन्हें देखकर उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हये भाग खंडे हुये। पीड़िता ने बताया कि उक्त लोग काफी दबग किरम के हैं, इनके खिलाफ कोई गवाही तक नहीं देता। पीड़ित ने बताया कि जब मामले की शिकायत करने चौकी राजघाट पहुंचे तो वहां भी उनकी सुनवाई नहीं की गयी। अब पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मामले की

जांच् करायी जाकर कार्यवाही किये जाने की गुहार लगायी है। महिला को पत्री समेत अपहरण कर मार डालने की धमकी देंने का आरोप

पीडिता ने डीएम-एसपी को भेजा शिकायती पत्र, इंसाफ की लगायी गुहार

लितपुर। शहर के एक मोहल्ला निवासी महिला ने गिरफ्तारी के पहले जमानत स्वीकृत कराने वाले आरोपित व्यक्तियों पर राजीनामा के लिए दबाव बनाने और पुत्री समेत अपहरण कर जान से मार कर फेंक देने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र में पीड़िता ने बताया कि उसके साथ हुये दुष्कर्म की शिकायत उसने कोतवाली पुलिस को दी थी। जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 354 क, 316 व 506 के तहत मामला दर्ज कर ली थी। पीड़ित ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद से अब तक उक्त लोगों की गिरफ्तारी नहीं की गयी है। यह भी बताया कि उक्त लोगों द्वारा गिरफ्तारी के पूर्व न्यायालय से जमानत स्वीकृत करा ली है। अब पीड़िता का आरोप है कि उक्त लोग खुलेआम घूम रहे हैं और मामले में राजीनामा करने का दबाव बना रहे है। बताया कि 1 दिसम्बर को सुबह करीब 11.30 बजे उसे रास्ते में रोकते हुये उक्त लोगों द्वारा अश्लील गालियां देते हुये उसकी पुत्री समेत अपहरण कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िंता ने यह भी बताया कि उक्त लोग दिल्ली में श्रद्धा-आफताब मामले का हवाला देते हुये ऐसी ही घटना को अंजाम देने की धमकी दे रहे हैं। पीडिता ने यह भी बताया कि इसी समय वहां से गुजर रहे कार्तिक पाठक, बसंतराज (बंटू महाराज सनातनी) व विन्द्रांवन कुशवाहा ने यह सब देखा तो वह एकत्र हो गये। जिन्हें देखकर उक्त लोग भाग खड़े हुये। पीड़िता ने जानमाल का खतरा बताते हुये उक्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने की गुहार

दसवीं की छात्रा से दृष्कर्म का आरोप पीड़िता ने चार युवकों पर लगाये आरोप

लितपुर। शहर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिक के परिजनों ने कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने चार वकों पर उसकी नाबालिक पुत्री के साथ जबरन दृष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाये हैं। साथ ही पुत्री के साथ दुष्कर्म का अश्लील वीडियो भी वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीडित परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। वहीं एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने पूरे मामले में सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किये हैं।

परिजनों के अनुसार उसकी नाबालिक पत्री कक्षा 10वीं की छात्रा है। बताया कि उसकी पत्री जब कोचिंग जाती थी कि तभी रास्ते में एक युवक द्वारा उससे मोबाइल नम्बर मागा। विरोध करने पर उक्त बात वहीं खत्म हो गयी थी। आरोप है कि युवक ने अपनी बहन के जरिए उसका नम्बर प्राप्त कर लिया और उसे रेलवे आवास पर बुलाकर पानी में नशीला पदार्थ पिला दिया। जिससे नाबालिक छात्रा अद्रधमूर्छित हो गयी। आरोप है कि बेहोशी की हालत में उक्त युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इतना ही नहीं दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उक्त युवक द्वारा शिकायत न करने का दबाव भी बनाया गया। मामले की जानकारी होने पर बीती 30 नवम्बर को जब वह आरोपित यूवक की बहन के पास पहुंचा तो उक्त महिला द्वारा पीड़ित परिजनों को हरिजन उत्पीड़न में फंसाने की धमकी देते हुये वहां से भगा दिया। पुलिस ने मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है।

पुत्री को बहला फुसला कर भगाने का आरोप तीन के खिलाफ मामला दर्ज

तालबेहट। पुराकला क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिक के बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक व उसकी बहन, पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नाबालिक की मां द्वारा पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया गया कि गावं के पास स्थित टावर के पास उसकी १४ वर्षीय पूत्री घर में खाना पकाने के लिए लकडी बीनने गयी हुई थी। उसी समय अज्ञात मोटर साइकिल सवार व्यक्ति बहिला फुसलाकर भगा ले गया। जिसे रास्ते में गांव के एक व्यक्ति ने देखा और उसे रोकने की कोशिश की मगर वह भाग गया। पुत्री के मोबाईल पर एक युवक बात किया करता था और उक्त नम्बर से अन्तिम बार दिनांक २*.११.२०२२ को समय करीब ११.०० बजे दिन में दस मिनट बात हुई । उसे आशंका है कि मेरी पुत्री को गब्बू पुत्र आलम व पूजा पुत्री आलम , आलम पुत्र नामालूम निवासी लुहरगुवों थाना जेरोन , जिला निवाडी द्वारा पुत्री के भगाने में सहयोग किया है। उसने लुरहगुवा व ग्वालियर में खोजबीन की किन्तु उक्त मोबाईल बन्द आ रहा है और पुत्री की कोई जानकारी मिल रही है । पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

विद्युत के लो वोल्टेज आने से ग्रामीण परेशान बालाबेहट। क्षेत्र में पूरी तरह विद्युत व्यवस्था चौपट होती जा रही है सूबे

के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ग्रामीण अंचलों में भरपूर बिजली देने के लिए निर्देशित किया गया है जिससे किसानों को खेतों में सिचाई हेतू बिजली उपलब्ध हो पठारी क्षेत्र होने के कारण यहां के किसान काफी गरीब स्थिति में हैं जिसके चलते मजबूरन डीजल लेकर सिंचाई करना पड़ रही है बिजली का वोल्टेज काफी लो आने से किसानों को सिंचाई के लिए तो ठीक है सही तरीके से लोगों के मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहे हैं लगभग २४ घंटे में ६ घंटे ही बिजली सिर्फ देखने को मिलती है जिसमें सही तरीके से जीरो वाट का बल्ब भी नहीं जलता है ऐसे में क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं।

समाजसेवी बाबूलाल साइकिल की स्मृति में रक्तदान जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित



लिलतपुर। समाजसेवी बाबुलाल जैन की 28 वी पुण्यतिथि पर विविध आयोजन सम्पन्न हुए। जरूरतमंदों को भोजन असहायों को वस्त्र एवं रक्तदान कर श्रद्धान्जलि सभा में वक्ताओं ने उन्हें याद किया। जिला अस्पताल परिसर में अन्नपूर्णा भोजनशाला में श्रद्धान्जलि सभा में जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश जिलाध्यक्ष राजकुमार जैन, बुन्देलखण्ड विकास वोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे, डा.राजकुमार जैन, अक्षय अलया, लोकप्रिय पार्षद अनुराग जैन शैलू अंकुर जैन सानू बाबा, राजेश दुवे, वीरेन्द्र जैन, रवीन्द्र जैन, अभिषेक सोनी, अमित जैन, प्रमोद सक्सेना एड. मनीष जैन पूर्व पार्षद, गिरीश पाठक ने श्रद्धान्जलि अर्पित कर उनके कार्यो को प्रेरणादायी बताया। इसके उपरान्त जरूरतमंदों को भोजन वितरित कर पुण्याजन किया। तदपरान्त ललितपर सेवा गरप की ओर से आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में अनेक युवकों ने रक्तदान का संकल्प लिया। वीरेन्द्र जैन बडकुल ने रक्तदान कर एक महिला के प्राणों की रक्षा की। मध्यान्ह में ज्बाला बाबू शिक्षा मंदिर में स्कूली बच्चों ने रोचक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रदीप चौबे ने ग्रामीण

क्षेत्र में विगत 28 वर्षों से शिक्षा के गया।

क्षेत्र में दिए जा रहे योगदान को प्रसंशनीय बताया। प्रबंधक अजय जैन साइकिल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया कि उन्होने अपने पिता की स्मृति में जो शिक्षा का केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया उसके माध्यम से अनेक छात्र प्रशासनिक, बैक पत्रकारिता में को अमुल्य निधि बताते हुए कहा प्राईवेट विद्यालयों के माध्यम से जो भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं वह अविस्मरणीय है। इस मौके पर पत्रकार सौरभ गोस्वामी ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा का केन्द्र ज्वाला बाब शिक्षा मंदिर बताते हुए कहा इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में अलख जगाई गई वह अविस्मरणीय है। इस मौके पर जितेन्द्र सिंह बुन्देला, दीपराज बुन्देला, सतीश जैन, मनोज जैन, आनंद जैन साइकिल, गोल राजा, मनीश जैन, विनोद मालवीय, मोहित आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के द्वारान उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रियेश जैन, सरोज श्रीवास्तव, रश्मि राजा, शिवानी राज प्रतीक्षा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को वस्त्र एवं अन्य उपयोगी सामग्री का वितरण किया

जीवन अनमोल जिसमें समय का मूल्य पहिचाना : मुनिश्रा जैन अटामंदिर में नवनिर्मित वेदिका पर मलनायक भगवान विराजित

लिलतपुर। निर्यापक श्रमण मुनि सुधासागर महाराज मानव जीवन को अनमोल बताते हुए कहा समय का मूल्य पहिचानो। समय लौटकर वापिस नहीं आता इसलिए समय को व्यर्थ में मत गवाओ। गलत कार्यो से दूर रहकर धर्म और सत्संग में समय व्यतीत करने से जीवन पवित्र और निर्मल होता है। उन्होने धर्म कार्यो में लगा जीवन अनमोल बताते हुए कहा प्रभु के चरणों से आत्मा पवित्र होती है और भविष्य संवरता है। धर्मसभा का शुभारम्भ आचार्यश्री विद्यासागर महाराज के चित्र के अनावरण के साथ श्रेष्ठीजनों ने किया तथा पादप्रक्षालन के उपरान्त मुनिश्री को शास्त्र भेंट का पुण्याजन किया। इसके पूर्व मुनि सुधासागर महाराज एवं मुनि पुज्य सागर महाराज के सानिध्य में जैन अटामंदिर में झरावटा परिवार द्वारा नवनिर्मित वेदिका पर मूलनायक श्रीपाश्र्वनाथ भगवान ब्रहमचारी मनोज भैया ललितपुर के मार्गदर्शन में विराजमान हुए। सायंकाल जिज्ञासा समाधान के लिए श्रावक मृनि श्री सुधासागर महाराज के सम्मुख अपनी जिज्ञासाए की। इसके उपरान्त पण्याजक परिवार द्वारा गरू भिक्त एवं संगीतमय आरती की गई।

आज की भागमभाग भरी जिदंगी में प्रत्येक व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि वह कई बार अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करता है। ऐसे में यदि हम अपने लिए कहीं भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर नियमित रुप से योग को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने आप को स्वस्थ्य रख सकते हैं बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक उर्जा दे सकते हैं। योग बडा ही आसान व्यायाम है जिसके लिए किसी भी संसाधन की जरुरत नहीं होती है केवल हमें अपनी आत्मशक्ति को जगाना होता है। योगाचार्य अनुराग चतुर्वेदी, योग प्रशिक्षक मुकेश साह, पंतजिल युवा भारत प्रभारी प्रीति जैन ने कहा कि समस्त विश्व आज भारत के प्राचीन योग को स्वीकार करने के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। सक्षम अंगीकार कर रहा है। विश्व के प्रमुख जिलाध्यक्ष अक्षय अलया ने शिक्षा

जाखलौन में अवैध कब्जे के मामले तेजी से बढ़े जाखलौन ललितपुर योगी सरकार अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जों को लेकर बेहद संजीदा है। परंतु कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में दबंग आज भी अतिक्रमण करने हिचिकचाते है। कस्बा जाखलौन में अतिक्रमण एक

व्यवसाय का रूप धारण कर चुका है। कस्बे के रेलवे स्टेशन के आसपास की ग्राम सभा की भूमि को कुछ भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से बिक्री कर दी गई है। स्टेशन स्टेशन रोड पर बड़ी तेजी से ग्राम सभा की भूमि को कब्जा कर अवैध निर्माण कर दिए गए हैं।

कई बार नापतोल हुई परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई इसी तरह कस्बे में बंदेलखंड इंटर कॉलेज के नजदीक स्थित नाले पर अवैध कब्जा कर पक्की दुकानों का निर्माण कार्य कुछ वर्ष पूर्व किया गया था, जिसका स्थानीय पत्रकारों ने विरोध किया राजस्व विभाग ने तत्काल प्रभावशाली कार्यवाही कर इन दकानों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे, परंतु कार्यवाही अमल

में नहीं लाई गई। दुकानों के निर्माण से नाले का पानी का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। इसके चलते घरों और सरकारी अस्पताल परिसर में पानी भर जाता है। इसके चलते लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। अवैध कब्जों का यह गैंग



दुकानों की खड़ी दीवाल

कस्बे में कई स्थानों पर तरह-तरह के कृत्रिम विवाद उत्पन्न करवाकर गरीब लोगों को परेशान कर उनका उत्पीडन करता रहता है। इस गैंग में अनुसचित जाति जनजाति के लोगों को शामिल कर उनके अधिकारों का

बताते चलें कि कस्बे के 1 डिग्री कॉलेज में आदिवासी सहरिया की भूमि पर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवा कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस गैंग का मुखिया खुद को राजस्व का विशेषज्ञ बताता है लोगों का तो

यहां तक आरोप है कि जो खसरा

खतौनी नक्शा राजस्व विभाग में

उपलब्ध नहीं है। वह इस व्यक्ति के

दुरुपयोग किया जाता है।

पास पाया जाता है उसी के आधार पर यह गैंग पुरे कस्बे में आतंक मचाए हुए हैं जिनके उत्पीडन के शिकार लोग या तो इनकी अवैध धनराशि की मांग को पूरा करते हैं अथवा इनके द्वारा फैलाए हुए फर्जी कार्यवाही यों के मकडजाल में फंसकर कई कई वर्षों तक आर्थिक और मानसिक रूप से उत्पीडन का

कस्बे के वरिष्ठ पत्रकार शिखर चंद जैन ने जिलाधिकारी मुख्यमंत्री तथा उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर बुंदेलखंड इंटर कॉलेज के नजदीक स्थित अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि

शिकार बनते रहते हैं। अधीक्षक

मैनपुरी उप चुनाव के लिंए पुलिस फोर्स रवांना

की मांग की है।

लिलतपुर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी (इटावा) में संचालित उप चुनाव के मद्देनजर जनपद से पुलिस फोर्स को रवाना किया गया है। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने जनपद ललितपुर से इयूटी में लगे पुलिस फोर्स को पुलिस लाइन में ब्रीफ किया गया। चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेत् आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर फोर्स को रवाना किया गया। इस मौके पर अपर पलिस अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण क्षेत्राधिकारी कार्यालय आर.पी.सिंह मौजूद रहे।

देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा ही रहा आर्य राजाओं का जीवनव्रतः डॉ राकेश कुमार आर्य

महरौनी (ललितपुर)। महर्षि दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी के तत्वावधान में विगत २ वर्षों से वैदिक धर्म और संस्कृत के मर्म को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतिदिन मंत्री आर्य रत्न शिक्षक लखन लाल आर्य द्वारा आयोजित आर्यों का महाकुंभ में दिनांक २९ नवंबर २०२२ को

च्छितिहास का वह सच जो हमसे छुपा लिया गयाज्ज विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुप्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार डॉ राकेश कुमार आर्य ने कहा कि भारत के महान शासकों के विशाल साम्राज्य स्थापित हुए इन राजाओं को भारत के आर्य राजाओं की श्रेणी में रखा समझा जाना चाहिए ,परंतु यह दुर्भाग्य का विषय है कि भारत की आर्य राजाओं की उस गौरवशाली परंपरा को इतिहास से पूर्णतया दूर कर दिया गया। आज हमारे पास सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल का वह कालखंड ही इतिहास के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है, जिससे हमारे

गौरवशाली इतिहास की परंपराओं को विलुप्त करने में सहायता मिली है।

अपनी लघु पुस्तिका च्भारत का इतिहास साम्राज्यों के मानचित्रों के आईने मेंज्ज के हवाले से डॉक्टर आर्य ने बताया कि कभी संपूर्ण यूरोप और एशिया मिलकर जंबूद्वीप का निर्माण किया करते थे। इस प्रकार आज के संपूर्ण एशिया और यूरोप के सभी देश कभी भारत का ही अंग हुआ करते थे। महाभारत युद्ध के पश्चात भी हमारे यहां पर नंद वंश का शासन काल कई सौ वर्ष का रहा। जिसमें १५ लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल नंद वंश के शासकों के अधीन रहा।

डॉ आर्य ने कहा कि मौर्य काल में भारत का विस्तार ७२ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। यह ढाई सौ ईसा पूर्व की घटना है। इस प्रकार अब से लगभग २२ ५० वर्ष पहले भारत ७२ लाख वर्ग किलोमीटर का हुआ करता था।१५० ईसा पूर्व में शुंग वंश के समय में भी इस वंश के शासकों ने १२ लाख वर्ग किलोमीटर का

विशाल क्षेत्रफल का साम्राज्य तैयार किया था। डॉ आर्य ने कहा कि सिकंदर महान को धूल चटाने वाला भी भारत ही रहा था। जिसका साम्राज्य उसकी मृत्यु के तुरंत पश्चात छिन्न-भिन्न हो गया था। उन्होंने कहा कि गुप्त साम्राज्य ने आज के भारत से भी बड़े भाग पर अर्थात ३५ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर शासन किया था। डॉ आर्य ने चालुक्य वंश के बारे में जानकारी दी कि यह राजवंश १२ वीं शताब्दी के अंत तक शासन करता रहा था। जिसका १२ लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। कुषाण साम्राज्य भारत के आज के भारत के २० लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर शासन करता था, जबकि इससे भी बड़े भाग पर उसका शासन आज के भारत के बाहर स्थापित था। जिस महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रमी संवत प्रचलित है वह अब से लगभग २०७९ वर्ष पहले हमारे राजा हुआ करते थे। जिनका शासन संपूर्ण यूरोप और एशिया पर था। इसी प्रतापी शासक के इतने

लोग उस समय भारत के संविधान से ही शासित होते थे। जिसके उपरांत भी हमारे इस सारे गौरवशाली इतिहास को मिटा दिया

सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ आर्य ने कहा कि आज भारत के अस्तित्व की लड़ाई हम लड रहे हैं। क्योंकि विदेशी और घर के भीतर की देश विरोधी शक्तियां मिलकर भारत को मिटा देने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में हमारे लिए सबसे पहले आवश्यकता है अपने इतिहास के अनछुए पृष्ठों को सही स्थान और सम्मान देने की। उन्होंने कहा कि जो देश या समाज अपने इतिहास से पीठ फेर कर बैठ जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।

इस अवसर पर श्रीमती दया आर्या ,अनिल नरूला,डॉ वेद प्रकाश शर्मा , रामिकशोर विश्वकर्मा शिक्षक, आराधना सिंह शिक्षिका सुमन लता सेन आर्या शिक्षिका,अदिति आर्य, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थ सहित अनेक आर्यजनों ने भी अपने विचार व्यक्त सामने आ सकता है।

किए और और कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि भारत के महान शासकों के विशाल विशाल साम्राज्यों का सच भी हमसे छुपा लिया गया है। आज अपने इन सभी आर्य हिंदू राजाओं के गौरवशाली इतिहास पर शोध करने की आवश्यकता है, जिससे वास्तविकता का पता हमारी युवा पीढ़ी को लग सके।

कार्यक्रम का संचालन च्भारत को समझोज्ज अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आर्य रत्न शिक्षक लखन लाल आर्य द्वारा किया गया।

श्री आर्य ने कहा कि अब इस अभियान के अंतर्गत भारत की सच्चाई को जन जन तक पहुंचा कर राष्ट्र जागरण करने का समय आ गया है ,जिसके लिए सभी राष्ट्र भक्तों को सामृहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि हम भारतवासी अपने ही अतीत से काट दिए गए हैं। यदि हम सब सामूहिक प्रयास करें तो हमारा सच हमारी युवा पीढ़ी के

निकाय चुनाव में दिखेगा आधी आबादी का जलवा, 48 वार्डों में लड़ेंगी चुनाव

अतर्रा नगर पालिका परिषद

वार्डः 1- गांधीनगर पिछडा वर्ग वार्ड वार्डः 2- मूसानगर पिछड़ा वर्ग महिला

वार्डः 3- सिविल लाइन अनारक्षित

वार्डः ४- सुदामापुरी अनारिक्षत

वार्डः 5- राजनगर अनुसूचित जाति महिला

वार्डः 6- कृष्णा नगर पिछड़ा वर्ग महिला

वार्डः ७- शिवपुरी महिला

वार्डः 8- भवानी नगर अनुसूचित जाति महिला वार्डः १- दामुगंज अनुसूचित जाति

वार्डः 10- लाल चौक अनुसूचित जाति

वार्डः 11- अंबेडकरनगर अनुसूचित जाति

वार्डः 12- आजाद नगर अनुसूचित जाति

वार्डः 13- अत्री नगर महिला

वार्डः 14- तिलक नगर अनारक्षित

वार्डः 15- भागवत नगर महिला वार्डः 16- सुलक ठोक अनारक्षित

वार्डः 17- शास्त्री नगर अनारक्षित

वार्डः 18- तुलसी नगर पिछड़ा वर्ग वार्डः 19- बाजार पिछड़ा वर्ग

वार्डः 20- बजरंग नगर अनारक्षित

वार्डः 21- संजय नगर महिला

वार्डः 22- लखन कॉलोनी अनारक्षित

वार्डः 23- राजेन्द्र नगर अनारक्षित वार्डः 24- ब्रह्म नगर पिछड़ा वर्ग

वार्डः 25- सुभाष नगर महिला

नगर पंचायत बबेरू

वार्डः 1- करुइहा पुरवा महिला

वार्डः 2- अंबेडकरनगर अनुसचित जाति महिला

वार्डः 3- कृष्णा नगर अनुसूचित जाति वार्डः 4- गौतम बुद्ध नगर अनुसूचित जाति

वार्डः 5- देवी नगर अनारक्षित

वार्डः 6- विभार थोक अनारक्षित वार्डः 7- प्रभाकर नगर पिछडा वर्ग

वार्ड: 8- राघव थोक महिला

वार्डः 9- आजाद नगर महिला वार्डः 10- मनोरथ थोक द्वितीय अनारक्षित

वार्डः 11- गांधीनगर पिछड़ा वर्ग

वार्डः 12- सिंगार थोक अनारक्षित

वार्डः 13- मनोरथ थोक प्रथम पिछड़ा वर्ग महिला

वार्डः 14- शास्त्री नगर अनारक्षित वार्डः 15- दूल थोक अनारक्षित

वार्डः 16- नेता नगर पिछड़ा वर्ग महिला

वार्डः 29- गूलर नाका अनारक्षित वार्डः 30- बन्योटा अनारक्षित वार्डः 31- इंदिरा नगर अनारक्षित

नगर पंचायत तिंदवारी वार्डः 1- शंकर नगर अनारक्षित

वार्डः 2- कबीर नगर अनारक्षित

वार्डः 3- हनुमान नगर अनुसूचित जाति महिला

बांदा नगर पालिका परिषद

वार्डः 1- बिजलीखेडा पिछडा वर्ग महिला

वार्ड: 3- गायत्री नगर पिछडा वर्ग महिला

वार्डः 7- जरैली कोठी अनुसूचित जाति

वार्डः 8- सिविल लाइन अनसचित जाति

वार्डः 11- मर्दन नाका पश्चिमी पिछडा वर्ग

वार्डः 15- मिढ्या नाका पिछड़ा वर्ग मिहला

वार्डः 12- कटरा पश्चिमी पिछडा वर्ग

वार्डः 13- क्योटरा दक्षिणी अनारक्षित

वार्डः 14- स्वराज कॉलोनी महिला

वार्डः 16- झील का पुरवा महिला

वार्डः 18- छाबी तालाब पिछडा वर्ग

वार्डः 19- शांति नगर अनारक्षित

वार्डः 22- निम्नी पार अनारक्षित

वार्डः 23- कटरा पर्वी अनारक्षित

वार्डः 24- गुलाब नगर अनारक्षित

वार्डः 25- मर्दन नाका पिछडा वर्ग

वार्डः 27- छोटी बाजार अनारक्षित

वार्डः 28- अलीगंज उत्तरी अनारक्षित

वार्डः 26- बाकरगंज अनारक्षित

वार्डः 20- सेंद्रु तलैया महिला

वार्डः २१- छावनी अनारक्षित

वार्डः 17- खुटला महिला

वार्डः १- खाईंपार महिला

वार्डः 10- आजाद नगर महिला

वार्डः 4- कैलाशपुरी अनुसुचित जाति महिला

वार्डः 5- बंगाली टोला, अंबेडकरनगर पिछड़ा वर्ग

वार्डः 6- क्योटरा उत्तरी अनुसूचित जाति महिला

वार्डः 2- चौंसठ जोगिनी अनारक्षित

वार्डः 4- गांधीनगर अनुसूचित जाति

वार्डः 5- श्रीनगर अनारक्षित वार्डः 6- प्रेम नगर महिला

वार्डः 7- विकास नगर पिछडा वर्ग

वार्डः 8- भगवती नगर महिला

वार्डः १- रामनगर अनारक्षित

वार्डः 10- संतोषी नगर पिछडा वर्ग महिला

शासन से जारी हुई नगर निकाय चनाव की प्रस्तावित आरक्षण सुची

भास्कर न्यूज, बांदा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिये प्रस्तावित आरक्षण सूची जारी कर दी है। आपत्ति के लिए मात्र एक सप्ताह का समय दिया गया है। जनपद में 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों समेत छह नगर पंचायतों के लिये चुनाव होने हैं। जिले के 113 वार्डों में 48 वार्ड आधी आबादी के लिये आरक्षित किए गए हैं।

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जारी सुचना में कहा है कि नगर पालिका व नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का आरक्षण अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है। इसी के तहत बांदा नगर पालिका परिषद में 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिनमें दो अनुसूचित जाति और तीन पिछड़ा वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। नगर पालिका अतर्रा में महिलाओं के लिए 5, पिछडा वर्ग व अनसचित जाति महिला के लिए दो-दो वार्ड आरक्षित हैं। नगर पंचायतों में बबेरू में 6, नरैनी व तिंदवारी

नगर पंचायत बिसंडा

वार्डः 1- पंचवटी नगर महिला

वार्डः 3- देवी नगर पिछडा वर्ग

वार्डः 2- रामनगर अनुसूचित जाति महिला

वार्डः 5- हनुमान नगर अनुसूचित जाति

वार्डः १- सुभाष चंद्र बोस नगर अनारक्षित

वार्डः 11- जवाहर नगर पिछड़ा वर्ग महिला

वार्डः 12- दुल्हा ठोक अनारक्षित

वार्डः 13- गांधीनगर अनारक्षित

वार्डः 14- दशवत थोक अनारक्षित

वार्डः 10- पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर अनारिक्षत

वार्डः 6- असदेव थोक पिछड़ा वर्ग

वार्डः ४- अंबेडकरनगर अनुसूचित जाति महिला

वार्डः ७- सरदार वल्लभभाई पटेल नगर अनुसूचित जाति

नगर पंचायत मटौंध

वार्डः 1- समता नगर अनुसचित जाति

वार्डः 2- कुशीनगर अनुसूचित जाति

वार्डः 4- नैनी नगर आरक्षित

वार्डः 6- विजयनगर पिछडा वर्ग

वार्डः १- न्याय नगर पिछडा वर्ग

वार्डः 11- प्रतिभा नगर पिछड़ा वर्ग महिला

नगर पंचायत औरन

वार्डः 2- पीढ़ियन थोक अनारिक्षत

वार्डः 4- दासी थोक अनुसूचित जाति

वार्डः 5- बराती थोक पिछडा वर्ग

वार्डः ६- अंबेडकरनगर अनारक्षित

वार्डः 7- बाजार थोक अनारक्षित

वार्ड:10- गढ़ी थोक अनारक्षित

वार्डः 8- साहब थोक महिला

वार्डः 3- रवि थोक अनुसूचित जाति महिला

वार्डः ९- हरदिया थोक पिछड़ा वर्ग महिल

नगर पंचायत नरेनी

वार्डः 2- पटेल नगर अनारक्षित महिला

वार्डः 7- राजीव नगर पिछड़ा वर्ग महिला

वार्डः 3- रामनगर अनसचित जाति

वार्डः 4- गांधीनगर अनारक्षित

वार्डः 6- सुभाष नगर महिला

वार्डः 8- कृष्णा नगर अनारक्षित

वार्डः ९- इंदिरा नगर अनारक्षित

वार्डः 10- शास्त्री नगर अनारक्षित

वार्डः 11- राजनगर पिछडा वर्ग

वार्डः 1- भान थोक महिला

में चार-चार सीटें आरक्षित हैं, जबकि बिसंडा व मटौंध में पांच-पांच महिलाओं वार्ड की कमान संभालेंगी। इस सूची में सामान्य महिला समेत अनुसूचित जाति व पिछडा वर्ग महिला आरक्षण शामिल है। हालांकि अभी प्रस्तावित सूची को लेकर आपत्तियां मांगी गई हैं और आपत्ति के निस्तारण के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

वार्डः 1- देविन नगर पिछड़ा वर्ग

वार्डः 3- श्रद्धा नगर अनुसूचित जाति

वार्डः 5- कृष्णा नगर महिला

वार्डः 8- हुसैन नगर अनारक्षित

वार्डः 10- प्रेम नगर महिला

वार्डः 12- एकता नगर अनारक्षित

वार्डः 13- अली नगर पिछड़ा वर्ग महिला

वार्डः 12- किदवई नगर महिला नवाब टैंक में कल

चलेगा सफार्ड अभियान

बांदा। भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष व जिला अधिवक्ता संघ पूर्व अध्यक्ष अशोक त्रिपाठी जीतू की अगुवाई में सुंदर बांदा-उत्तम बांदा के तहत रविवार को नवाब टैंक में सफाई अभियान चलाया जाएगा। श्री त्रिपाठी ने नगर पालिका ईओ को पत्र भेजकर अभियान के लिए सफाई निरीक्षक की अगुवाई में सफाई कर्मियों को मुहैया कराने की मांग की है। कहा कि नवाब टैंक बहुत ही पुरानी धरोहर है। इसकी सफाई कराए जाने से अच्छा संदेश प्रसारित होगा। साथ ही पुरानी धरोहरों के प्रति स्वयं से जागरूक होंगे।

गौशालाओं में ठंड से बचाव की व्यवस्था करे प्रशासन

भास्कर न्यूज, नरैनी। गौ रक्षा समिति ने गौशालाओं में ठंड के साथ ही खाने-पीने की व्यवस्था में सुधार किए के लिये खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिन्दू महा संघ गौरक्षा समिति के अध्यक्ष सोनू करवरिया, विपिन विनोद दीक्षित. आनंद पांडेय समेत सदस्यों ने खंड विकास अधिकारी को दिये ज्ञापन में बताया कि ठंड को देखते हुए गौशालाओं में छाया की व्यवस्था के साथ ही गौवंशों को खाने-पीने के लिये पर्याप्त भूसा उपलब्ध कराने एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान दिये जाने की मांग की। यह भी मांग की कि रगौली भटपुरा व करतल गांव में संचालित गौशालाओं में बाउंड्री की व्यवस्था तत्काल की जाए।

घायल वृद्धा ने दम तोड़ा भास्कर न्यूज, बांदा। दो दिन

पहले सड़क पर गिरकर घायल वृद्धा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना के बाद भी परिजनों के यहां न आने पर शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पड़ोसी जनपद चित्रकूट जिले के मऊ कुर्मिनपुरवा निवासी रामप्यारी (70) पत्नी रामराज दो दिन पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के बाबुलाल चौराहा के पास गश खाकर अचानक सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां उपचार के दौरान शुक्रवार को सुबह उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

सारसूर्खियां

डा.श्रीराम अध्यक्ष व डा.रविंद्र बने पशु



भास्कर न्यूज, बांदा। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ का निर्वाचन कार्यक्रम संघ कार्यालय में आयोजित किया गया। जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री समेत सभी पदाधिकारियों को

निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को साथी कर्मचारियों ने शुभकामनाएं दी और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। शुक्रवार को मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा.एसपी सिंह की देखरेख में उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ के निर्वाचन किया गया। जिसमें डा.श्रीराम कुशवाहा को अध्यक्ष और डा.रविंद्र कुमार को महामंत्री नियुक्त किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद डा.कमलेश सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर डा.नंदलाल कुशवाहा और संयुक्त मंत्री पद पर डा.लघुचंद्र अहिरवार को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसके पहले चुनाव संबंधी बैठक में सभी के निर्वाचन को लेकर आम सहमति बनाई गई और फिर कार्यकारिणी का ऐलान किया गया। निर्वाचन के बाद सभी पदाधिकारियों ने संघ हित में काम करते हुए सभी समस्याओं का निस्तारण कराने का भरोसा दिलाया।

गौशाला में बीमार गौवंशों का प्राथमिकता से कराएं उपचार



भास्कर न्यूज, बांदा। मुख्य विकास अधिकारी र्ने बड़ोखर खुर्द ब्लाक अंतर्गत भूरेडी गांव में अस्थाई गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ व्यवस्थाएं सही मिली तो कुछ खामियां भी पाईँ गई। जिन्हें ठीक करने के निर्देश दिए गए। गौशाल में बीमार गौवंशों का

प्राथमिकता से उपचार कराने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य ने अस्थाई गौशाला के निरीक्षण के दौरान दो केयरटेयर मौजूद मिले। वहीं गौशाला में गोबर उठाने का कार्य भी किया जा रहा था, लेकिन भूसे का स्टाक मौके पर नहीं पाया गया केवल दो ट्राली पुआल पाया गया जो पशुओं को खिलाया जा रहा था। गौशाला में पुआल रखने की व्यवस्था नहीं पाई गई। प्रतिदिन पुआल की ट्राली आकर पुआल उतारती हैं। एक सप्ताह पूर्व तक मूंमफली का भूसा का मिल जाता था, लेकिन अब वह भी नहीं हैं। एक स्थाई टिन शेंड बनाया गया है और एक अस्थाई शेंड भी पन्नी से बनाया गया है। गौशाला में 370 गौवंश संरक्षित मिले। जिसमें 271 का टीकाकरण भी कराया गया है। उन्होंने 3 बीमार मिले पशुओं का प्राथमिकता से इलाज कराए जाने के निर्देश दिए।

निपुण भारत मिशन अंतर्गत हुए शिक्षक प्रशिक्षण का समापन

भास्कर न्युज, बांदा। कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी बडोखर खुर्द में ब्लॉक की सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का निपुण भारत मिशन अंतर्गत चार दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के अंतिम बैच का समापन हुआ। इस प्रशिक्षण का संचालन 14 बैचों में कराया गया। प्रत्येक बैच में 50-50 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। रिसोर्स परसन विनय बाजपेई ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा में एक महत्वाकाक्षी योजना को पूरे प्रदेश में प्रत्येक विद्यालय में लागू करने के लिए निपुण लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं। जिनको विद्यालयों में पर्णतया लाग करने के बाद निपुण विद्यालय, निपुण ब्लॉक, निपुण जिला एवं निपुण प्रदेश बनाने की दिशा में शिक्षक संदर्शिका भाषा एवं गणित के लिए प्रत्येक विद्यालय की कक्षाओं के अनुसार कार्य पुस्तिकाओं के साथ उपलब्ध कराई जा रही है। अब कक्षा शिक्षण इन संदर्शिकाओं की शिक्षण योजना के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। बीआरसी बड़ोखर खुर्द में यह प्रशिक्षण खंड शिक्षा अधिकारी अनुराग मिश्रा के निर्देशन में प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को कराया गया। इस प्रशिक्षण में व्यवस्था प्रभारी कामता अवस्थी रहे। रिसोर्स परसन के रुप में कमल सिंह. विनय बाजपेई, गोरेलाल, शैलेंद्र, मनोज, सुनील, अमरनाथ, शिव प्रकाश रहे। तकनीकी कार्य में सहयोग अमरीश व मुकेश ने किया।

युवती ने जहर खाया बांदा। मटौंध थाना क्षेत्र के मरौली गांव निवासी सुमन (21) पत्नी

रामदेव ने गुरुवार की रात पति की डांट से नाराज होकर ससुराल में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालत बिगड़ने पर परिजनों को जानकारी हुई तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

कन्या भोज के साथ हुआ सवा लाख हनुमान चालीसा पाट **भास्कर न्यूज, बांदा।** श्रीसीताराम नाम संकीर्तन परिवार की 13वीं

वर्षगांठ पर सवा लाख हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जारी रहा। कर्मकाडी ब्राह्मणों ने छठवें दिन कन्याओं की पूजा-अर्चना कर भोज कराया। पार्थिव शिवलिंग का पूजन हुआ। रामकथा के दौरान कथा व्यास ने श्रीराम जन्म से लेकर सीता विवाह प्रसंग का वर्णन किया। नेशनल हाइवे स्थित संकट मोचन मंदिर परिसर में श्री श्रीसीताराम नाम संकीर्तन परिवार के तत्वाधान में रामकथा की 13वीं वर्षगांठ के मौके पर भक्ति रस धारा बह रही है। आयोजन के छठवें दिन शुक्रवार को १०८ कन्याओं का पूजन-अर्चन कर भेजन कराया गया। भगवान शंकर का विधि विधान के साथ पार्थिव पूजन किया गया। 108 कर्मकांडी ब्राह्मणों ने सामूहिक रूप से सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ किया। कथा व्यास जगदीश प्रसाद ने भगवान श्रीराम की बाल लीलाओं से लेकर विवाह का सुंदर वर्णन किया। आयोजक नंदकिशोर तिवारी 'भोले महराज' ने बताया कि पांच दिसंबर को कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा निशुल्क बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाएगा। उन्होंने संस्कार के इच्छुक अभिभावकों से आयोजन स्थल पहुंचकर संपर्क करने की सलाह दी है।

दिमागी बुखार से युवक की मौत, कई भती **भास्कर न्युज, बांदा।** मौसम में तब्दीली होने के साथ ही जनपद में

तेजी से संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियों के फैलने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग खामोशी अख्तियार करे है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में भर्ती युवक की दिमागी बुखार की चपेट में आकर मौत हो गई। चिकित्सक ने भी युवक की मौत दिमागी बुखार से होने की पृष्टि की है। पूरे जनपद में सक्रामक बीमारिया तेजी से फैल रही हैं। संक्रामक बीमारियों का कहर लगातार जारी है। देहात कोतवाली क्षेत्र के करबई गांव निवासी दिव्यान (40) पुत्र दिलीप को कई दिनों से बुखार की चपेट में था। गुरुवार की रात घर पर उसकी अचानक हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए। यहां पैथालाजी जांच के दौरान दिमागी बुखार की पुष्टि हुई। शुक्रवार को सुबह उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन शव लेकर घर चले गए। उधर, बुखार ग्रस्त कहला गांव निवासी मुलिया (62), पिपरगवां निवासी बृजेश (४१), कैलाशपुरी निवासी वंश (४ माह), क्योटरा निवासी निशा (1) समेत आधा दर्जन मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उद्घाटन मैच में रहा प्रयागराज का दबदबा, हमीरपुर को ४ विकेट हराया प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के 7



खिलाडियों का परिचय प्राप्त करते डीआईजी व एसपी।

तीन दिवसीय जनपद स्तरीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के 7 जिलों की टीमें क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन मैच प्रयागराज व हमीरपुर के बीच खेला गया, जिसमें प्रयागराज ने हमीरपुर को 4 विकेट से मात दी। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल चित्रकूट व प्रतापगढ़ और बांदा व महोबा के बीच मैच का आयोजन

भास्कर न्युज, बांदा। पुलिस मुख्य अतिथि डीआईजी डॉ.विपिन लाइन में शुक्रवार को डीआईजी ने कुमार मिश्र ने खिलाड़ियों से मान प्रणाम ग्रहण करते हुए रिबन काटकर किया। मुख्य अतिथि ने खिलाडियों से खेल भावना, उत्साह और अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने की अपील की। प्रतियोगिता का आयोजन पुलिस अधीक्षक अभिनंदन की अध्यक्षता में गठित आयोजन समिति द्वारा किया

लम्पी वायरस से पीड़ित हैं क्षेत्र के दो दर्जन पशु

रहीं प्रतिभाग कौशांबी व प्रतापगढ़ की पुलिस टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। आज उदुघाटन मैच हमीरपुर व प्रयागराज के बीच खेला गया, जिसमें हमीरपुर ने पहले

बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 152 रन बनाये। लक्ष्य का पीछा करते हए प्रयागराज की टीम ने 4 विकेट से मैच जीतकर अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल सुबह 9 बजे पहला मैच चित्रकूट व प्रतापगढ तथा दसरा मैच बांदा व महोबा के बीच खेला जायेगा। प्रतियोगिता के शुभारम्भ में अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र. क्षेत्राधिकारी अतर्रा आनंद कुमार पांडेय, क्षेत्राधिकारी सदर गवेन्द्र पाल गौतम, क्षेत्राधिकारी यातायात सत्य प्रकाश शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक पलिस लाइन वेदमणि मिश्र

जिलों की टीमें कर

जा रहा है। तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के जनपद बांदा, महोबा, होगा। प्रतियोगिता का शुभारम्भ चित्रकूट, हमीरपुर, प्रयागराज,

भास्कर न्यूज, नरैनी। क्षेत्र में दो दर्जन पशु लंपी वायरस से पौड़ित मिले हैं, जिनका उपचार पशु चिकित्सालय करतल में किया जा रहा है। पशुओं को इसकी दवा दी जा रही है, उधर गौवंश में एलएसडी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग टीम बनाकर लगभग अब तक 2500 गोट पॉक्स वैक्सीन के टीके लगा चुका है। पश विभाग के अनसार ब्लॉक क्षेत्र में अब तक तकरीबन दो दर्जन मवेशियों में लंपी वायरस पाया गया है, जिसमें

करतल, गंगापरवा गांव में 1, कालिंजर में 3, नहरी में 4 और नरैनी में 6 समेत अन्ना गोवंश में 4 में यह वायरस मिला है। मंगलवार को कस्बे के मछली मंडी में एक गौवंश में लंपी वायरस के लक्षण दिखने पर विश्व हिन्दू महासंघ गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष सोनू करवरिया ने पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन पर सूचना दी, जिस पर पशु चिकित्सालय के फार्मासिस्ट राजेश गुप्ता ने मौके पर

पहुंचकर लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश का उपचार किया।

विद्यालय की गुणवत्ता खराब मिलने पर डीएम खफा, दिए कार्रवाई के निर्देश



। पैक्स पैंड करा रही है को बनाए रखने को कहा। डीएम मानसिक मदित विद्यालय का निर्माण

जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और नवीन मानसिक मंदिर विद्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता परखी। निर्माणाधीन मानसिक मंदित विद्यालय की गणवत्ता में खामी मिलने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। कार्यदाई संस्था पैक्स पेड अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। मानव क्षमता बढ़ा कर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर निर्माण शीघ्र पूरा कराने को कहा। डीएम दीपा रंजन ने शुक्रवार को निमार्णाधीन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर एवं नवीन मानसिक, मंदित आश्रय गृह, प्रशिक्षण केंद्र तथा मानसिक मंदित विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता

दो पहिया व चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग ट्रैक बनाए जा रहे हैं। मुख्य भवन एवं अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के एप्रोच रोड को जिला पंचायत से बनवाए जाने और मैन पावर बढ़ाए जाने के निर्देश एआरटीओ को दिए।

को बताया गया कि टेनिंग सेंटर में

इसके बाद नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्यालय निर्माण में गुणवत्ता खराब मिलने पर डीएम का पारा चढ़ गया। कडी नाराजगी जताते हुए कार्यदाई संस्था पैक्स पैड अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदाई संस्था अधिकारी को बोरिंग समेत अन्य कार्य मैन पावर बढ़ाकर पूरा कराने को कहा। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य, संख्याधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।

जहां एक ओर शहरी क्षेत्र में विद्युत

बिजली कर्मचारियों ने सीयूजी नंबर किए बंद, ऑनलाइन सेवा टप करने का अल्टीमेटम

सैकड़ा विभागीय अधिकारियों,



धरना को संबोधित करते कर्मचारी नेता।

भास्कर न्यूज, बांदा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का कार्य बहिष्कार जारी है। विभागीय कर्मचारियों ने सीयुजी नंबर और हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिये हैं। जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। कर्मचारियों ने सरकार को ऑनलाइन समस्त कार्य, झटपट

पोर्टल, पीटी डब्ल्यू, निवेश मित्र, आईजीआरएस आदि भी तत्काल प्रभाव से बंद कर देने की चेतावनी दी है। अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत संघर्ष समिति के आह्वान पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति कार्य बहिष्कार की घोषणा चार दिन पहले ही कर चुकी है। मांगों को लेकर तकरीबन तीन

कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों का 132 केवी उपकेंद्र चिल्ला रोड पर धरना-प्रदर्शन आज भी जारी रहा। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी बात पर अडिग हैं। शीर्ष प्रबंधन की तानाशाही और स्वेच्छापूर्ण रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस क्रम में संचालक के रूप में संगठन के सह संयोजक अवर अभियंता कांता प्रसाद ने प्रतिभाग करते हुए प्रबंधन की कूटनीति की जानकारी दी। लखन पटेल ने पूर्व में मिलने वाले भत्तों और सुविधाओं का पुनरीक्षण व अवलोकन के साथ समीक्षा के विषय में कर्मचारियों को बताया। संघ के घटक दल के नेता अनिल यादव ने प्रबंधन के फिजुल खर्चों की जानकारी दी। संघर्ष समिति ने आज

चौथे दिन कार्य बहिष्कार की धार

को और तेज करते हुए शुक्रवार शाम

💶 १३२केवी उपकेंद्र में तीन सैकडा अधिकारियों व कर्मचारियों ने डाला डेरा 🔳 लगातार चौथे दिन भी जारी रहा विद्युत कर्मियों

का कार्य बहिष्कार

5 बजे से कर्मचारियों समेत जूनियर इंजीनियर व अभियंताओं ने विभागीय सीयूजी नंबर बंद कर दिये। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न हुईं तो ऑनलाइन समस्त कार्य, झटपट पोर्टल, पीटी डब्ल्यू, निवेश मित्र, आईजीआरएस आदि भी तत्काल प्रभाव से बंद कर

शहर में लड़खड़ाई जलापूर्ति, खेतों में पानी का संकटः कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से

आपर्ति व्यवस्था बेपटरी हो रही है. वहीं देहात क्षेत्र में भी आपूर्ति लड़खड़ा रही है। शहरी क्षेत्र में शुक्रवार को कई इलाकों में सुबह के वक्त आपूर्ति न मिल पाने के कारण लोगों को जल संस्थान के नलों से पीने तक का पानी नसीब नहीं हो पाया। नतीजतन लोगों को अपने घरों की बाल्टियां लेकर आसपास के सरकारी हैंडपंपों का सहारा लेना पड़ा। उधर गरम पानी न मिल पाने के कारण तमाम लोगों को ठंडे पानी से ही स्नान करना पड़ा, जबकि बहुत से लोगों ने आज नहाया ही नहीं। ग्रामीण इलाकों में इन दिनों फसल में पलेवा के लिये किसानों को पानी की बेहद जरूरत है, लेकिन आपूर्ति न मिल पाने के कारण ट्यूबवेल नहीं चले, जिसकी वजह से खेतों की सिंचाई का काम

प्रभावित रहा।

शनिवार, 03 दिसम्बर 2022 स्थारी

सारसूर्खियां

आरक्षण सूची जारी होने से चुनावी हलचल शुरू भास्कर न्यूज-हमीरपुर। नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डी का

आरक्षण जारी होने के बाद नगर पंचायत कुरारा में वार्ड सदस्य का

चुनाव लड़ने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। 11 वार्ड में आरक्षण सूची

जारी होने से चुनावी हलचल शुरू हो गई है। कुरारा नगर पंचायत के

चुनाव के लिए शासन द्वारा 11 वार्ड का आरक्षण जारी किया गया है।

अनसचित जाति के लिए तथा एक सीट महिला के लिए आरक्षित की

गई है। जिसमे वार्ड 1. 9. 10. 11 को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।

वार्ड 2 अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। जब कि इस

वार्ड में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है। वार्ड 3 टेनरी मोहाल

को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि इस

वार्ड में भी अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है। दोनो वार्ड पिछले

चुनाव में एससी सीट थी। इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण होने

वाले लोग अन्य वार्ड में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। आरक्षण

सूची जारी होते ही लोग सक्रिय हो गए हैं। तथा मतदाताओं से सम्पर्क

करना शुरू कर दिया है। चुनावी हलचल शुरू हो गई है। वही चेयरमैन

के कारण लोगो को झटका लगा है। वही वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने

जिसमे चार वार्डो में अनारिक्षत, दो पिछडा वर्ग के लिए तथा चार

धरना प्रदर्शन की वजह से चरमराई विद्युत व्यवस्था से मचा हाहाकार

विभाग के कार्यालय परिसर में आज लगातार तीसरे दिन भी विद्युत कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना प्रदर्शन में शामिल बिजली विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने बताया कि नेतृत्व के आवाहन पर वह लोग अपनी 15 सूत्रीय मांगों एवं समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के समस्त कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन व हडताल की वजह से नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में कई इलाकों की बिजली गुल है जिससे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नगरवासी पानी के लिए तरस रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी और

इस समस्या से मुंह चुरा रहे हैं।विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने बताया कि शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन निरंकशता एवं हठधर्मिता की नीतियों को अपनाए हुए है। जिस वजह से वह लोग धरना प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य हुए हैं। वह लोग बिजली कर्मचारियों अवर अभियंताओं व अभियंताओं की न्याय संगत समस्याओं एवं 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि विद्युत विभाग के सेवा नियमों व श्रम अधिनियम तथा मानवाधिकार कानूनों के इतर कर्मियों से

रोक लगाई जाए तथा सभी बिजली कर्मचारियों एवं अभियंताओं को पूर्व की भांति पदोन्नत पद के समयबद्ध वेतनमान प्रदान किए जाएं। साथ ही सभी बिजली कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए एवं हाल ही में जारी किए गए ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश को वापस लिया जाए। समस्त बिजली कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों को पिछले कई वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान किया जाए। साथ ही सभी श्रेणी के बिजली कर्मचारियों अवर अभियंताओं एवं अभियंताओं की वेतन विसंगतियां दूर की जाएं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी

धरने पर बैठे रहेंगे। इस दौरान इंजीनियर निरंजन चैधरी, चंदन यादव एसडीओ राठ सत्य प्रकाश मिश्रा, सुरेंद्र कुमार, विजय कौशल पांडे, सदुरु शरण, वैष्णव कुमार, सोनू कुमार, राम प्रकाश सोनी, मंजुल तिवारी, नसीम अहमद, रवि शंकर गुप्ता व आशीष सक्सेना सहित अन्य दर्जनों विद्युत कर्मचारी व अधिकारी गण मौजूद

मुंह चुराते नजर आए पार्लिका परिषद के आसन्न चुनाव के दावेदार

भास्कर न्यूज-राठ। अब जबिक नगरवासी बिजली की आपूर्ति के चलते नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के दावेदारों, वार्ड मेंबर के दावेदारों के नाकारापन को देखते हए खद ही उच्चाधिकारियों को फोन लगा लगा कर अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। यह सारे दावेदार मुंह चुराए बैठे हैं। कोई भी इस समस्या को लेकर न कुछ करना चाहता है और न कुछ करने की स्थिति में ही है।

विकास विकास अगले 5 सालों तक विकास का ढिंढोरा पीटने का आश्वासन देने वाले यह निषक्रय दावेदार कुछ कर पाने की स्थिति में ही नहीं नजर आए।

पद का आरक्षण आने का बेसब्री से इंतजार है। ग्रामीणों ने खण्ड शिक्षा अधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। कुरारा विकास खंड क्षेत्र के डामर गांव में स्थित कम्पोजिट विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में अभिभावको को सूचना न देकर चुनाव कराने की जांच की मांग खण्ड शिक्षा अधिकारी से ग्रामीणों ने की है। क़ूरारा क्षेत्र के डामर गांव में कम्पोजिट विद्यालय प्राथमिक व जूनियर विद्यालय संचालित है। गांव निवासी बीर सिंह यादव, राजेश, चंद्रभान, बीर सिंह कुशवाहा, पूजा आदि ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव कराया जा रहा है। जिसमे अभिभावको को चुनाव कराए जाने की सूचना नहीं दी गई है। तथा अपने मन मृताबिक बैठक कर अध्यक्ष का चुनाव कराया गया है। तथा इसमे अनियमता की जा रही है। ग्रामीणों ने इस चुनाव को सभी अभिभावको की मौजूदगी में अध्यक्ष पद का चुनाव कराएँ जाने की मांग खण्ड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार कमल से की है।

स्वामी जी के जन्मोत्सव पर आयोजित हुआ अखिल भारतीय कुश्ती दंगल

भास्कर न्यूज-राठ। स्वामी ब्रह्मानन्द जी के 128वें जन्मोत्सव पर अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। पहले दिन दंगल में नामी गिरामी पहलवानों ने कुश्ती के दावपेंश दिखाये। दंगल का शुभारभ अध्यक्ष ब्रहमानंद महाविद्यालय डा० इंद्रपाल सिंह, प्राचार्य एसएल पाल ने स्वामीजी के चित्र पर माल्यार्पण और पहलवानों से हाथ मिलाकर किया। पहली कुश्ती कुमार रायबरेली और प्रीतम लीगा के बीच हुई। इस कुश्ती में प्रीतम ने कुमार को पटकनी दे दी। इसके बाद हमीरपुर के अंतर सिंह ने उन्नाव के प्रमोद को पटकनी दी। हमीरपुर के हृदेश कुमार ने कानपुर देहात के राज सिंह, हमीरपुर के अजब सिंह ने भरतपूर के अंकित, नितेश हमीरपूर ने बागपत के आदेश, जय सिंह हमीरपुर ने नंद कुमार फतेहपुर, भरत पांडे ने दिनेश मथुरा, हमीरपुर के आकाश ने साहिनूर कानपुर को पटकनी दी। हुकम सिंह हमीरपुर और राहुल श्रीनगर की कुश्ती बराबरी पर रही। हाथरस के विश्वजीत ने दीपक हरियाणा को पटकनी दी। भूपेंद्र हाथरस ने अमित कुमार श्रीनगर को हराया। कमलजीत आगरा ने बलविंदर हरियाणा को पटकनी दी। जम्मु के राकेश ने इटावा के विकास को पल भर में ही चित कर दिया। आगरा के विजय ने बांदा के विकास को पटकनी दी। कबरई के प्रमोद ने फतेहपुर के पुष्कल को हराया। दंगल के पहले दिन 17 कुश्तियां हुई। दंगल में पूर्व प्राचार्य डा.यूपी सिंह, डा. आरबी शर्मा, डा. नरेश कुमार, डा. वीके सिंह, डा. अतुल शुक्ला, डा. मोतीलाल, डा. जितेंद्र रिनंह, डा. अमित विशेन, डा. पीयूष कुमार,आर के मिश्रा, रामप्रकाश, डा. कीरत सिंह, धर्मेंद्र सिंह, गोविंद सिंह ,खेमचंद, रामसिंह ,मुकेश कुमार ,राजेश चैरसिया ,वीरेंद्र कोष्टा, नंदराम एवं शैलेंद्र कुमार समेत सैंकड़ों की तादाद में लोग रहे। संचालन अरुण कुमार तिवारी एवं

आरके मिश्रा ने किया। निकाय चुनाव के महेनजर एसडीएम ने बीएलओं की ली बैठक

भास्कर न्यूज-राठ। विधान सभा विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी राँठ की अध्यक्षता में बीएलओ की बैठक संपन्न हुई। शुक्रवार को आयोजित बैठक के दौरान एसडीएम पी पी पाठक ने बताया की 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक विधानसभा विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सभी बीएलओ अपने क्षेत्र में जाकर 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक व युवतियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम करेंगे। बताया ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो और किसी कारण वर्ष उनका नाम मतदाता सूची से छूटा हो उनके नाम सूची में जोड़े जाएंगे। साथ ही मृतक हो चुके लोगों के नाम जांच के बाद मतदाता सूची से काटने का काम किया जाएगा। एसडीएम ने सभी बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर 18 वर्ष की आयू पूरी करने वाले सभी के नाम मतदाता को सूची में जोड़ने का काम करें। इस दौरान तहसीलदार अनुभव चंद्रा सहित निर्वाचन विभाग के अधिकारी व क्षेत्रीय

बीएलओ मौजूद रहे। ब्लाक स्तरीय खेलकूप प्रतियोगिता आयोजित



भारकर न्यूज-हमीरपुर। आज स्थानीय बीआरसी प्रांगण में सम्पन्न हुई ब्लाक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय बचरौली के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय बचरौली के कब्बडी टीम कमल, अनूप, प्रांशु, कपिल, देवेंद्र, धर्मेंद्र, अर्जुन ने अच्छा प्रदर्शन किया। विद्यालय की छात्रा सृष्टि ने 200 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान तथा नैंसी ने 100 मीटर दौड़ में व 200 मीटर दौड़ में तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इनको पुरुस्कृत किया गया है।

जिलाबदर अपराधी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान बीके होटल ग्राम नरायनपुर से जिलाबदर अभियुक्त अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार पुत्र राजा भैया उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम नारायनपुर थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर किया गया। पंजीकृत अभियोग मुअस. 534/2022 धारा 10 उप्र. गुण्डा नियन्त्रण अधि. व 3/25 आर्म एक्ट एक्ट थाना सुमेरपुर। गिरफ्तार हुये अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार पुत्र राजा भैया निवासी ग्राम नरायनपुर थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के कब्जे से एक अदद तमचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुयी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव, कांस्टेबल अवनीश कुमार शामिल रहे।

चरमराई विद्युत आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएमं को दिया ज्ञापन

भास्कर न्यूज़-राठ। राठ तहसील आवश्यकता है। लेकिन बीते 4 परिसर में आज राठ क्षेत्र के लगभग एक दर्जन गांवों के लगभग आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने चरमराई विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से खेतों की सिंचाई न हो पाने की वजह से सूख रही फसलों को लेकर नारेबाजी करते हए उप जिलाधिकारी पवन प्रकाश पाठक को शिकायती पत्र सौंपकर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रुप से बहाल करने की गुहार लगाई है। राठ तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसान वीरेंद्र अशोक कुमार ,राजिकशोर, जितेंद्र, कुलदीप, पृष्पेंद्र राजपुत, वहीद अहमद , अनिल कुमार, शरीफ , सुरेंद्र अजय कुमार, जागेश्वर, राजेंद्र कुमार , सुरेश कुमार व सूरजपाल सहित लगभग आधा सैकडा किसानों ने आज राठ तहसील परिसर में उपजिलाधिकारी पवन प्रकाश पाठक को लिखित रूप से शिकायती पत्र देकर बताया कि वर्तमान समय में उनके फसलों के

दिनों से चरमराई विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से उनके खेतों में फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है जिस वजह से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच चुकी हैं।फसलें सूख जाने पर वह लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। किसानों ने बताया कि जब उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि वह लोग बीते 4 दिनों से हडताल एवं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अतः वह लोग उनकी कोई मदद कर सकते। आक्रोशित किसानों ने आज जिलाधिकारी पवन प्रकाश पाठक को शिकायती पत्र देकर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सचारु रुप से बाहर कराए जाने की मांग की है। मामले में एसडीएम पवन प्रकाश पाठक ने बताया कि बिजली कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन की वजह से विद्युत सप्लाई में समस्या आ रही है। जब तक कर्मचारी हड़ताल वापस नहीं लिए उन्हें सिंचाई की अत्यधिक लेंगे तब तक वह विवश हैं।

जन सामान्य को कूड़ा अन्यत्र न फेंककर कुड़ेदान में ही डार्ल जाने का दिया संदेश

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। अधिकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद हमीरपुर ने बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अन्तर्गत प्रतिबद्घ 75 जनपद 75 घण्टे 750 निकाय के अभियान को सफल बनाने के निर्देशो के अनुपालन में एक दिसम्बर को न्यायालय परिसर तथा चैरादेवी प्रागंण में कडा एकत्रीकरण स्थलो की सम्पूर्ण सफाई सुन्दरीकरण वृक्षारोपण तथा वाल पेंटिंग करायी गयी। इसी प्रकार आज कृषि विभाग के पास तथा पारस गेस्ट हाउस के पास गार्बेज स्थलो की सफाई सन्दरीकरण तथा वाल पेटिंग कराते हुये स्थलो को गार्बेज से मुक्त कराया गया तथा जन सामान्य को कुड़ा अन्यत्र न फेककर कूडेदान में ही डाले जाने का संदेश दिया गया। गीला कुडा व सुखा कुडा को भी अलग अलग रखने तथा दरवाजे पर पहुंचने वाले सफाई कर्मी को ही अलग अलग देने हेतु प्रेरित किया गया। उपजिलाधिकारी हमीरपुर एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा गार्बेज स्थल में कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा इस्लामियां इण्टर कांलेज के अध्यापको एवं बच्चो द्वारा भी गार्बेज स्थल मुक्त कराये जाने में योगदान किया गया। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक उपजिलाधिकारी सदर हमीरपुर, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद



कूडा हटवाते नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद

सिंह एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी जन

उत्साह से जन सहभागिता की गयी। जिसके लिये सहभागिता की गयी। हमीरपुर नगर वासियों, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हमीरपुर तथा उपजिलाधिकारी व अधिशाषी अधिकारी द्वारा जन

अज्ञात कारणो से लगी आग से हमीरपुर कुलदीप निषाद, नगर अध्यक्ष भाजपा अधिकारियों, कर्मचारियों व बच्चो द्वारा गार्बेज स्थलों को गार्बेज से मुक्त कराये जाने में विशेष



लाखों रूपये का सामान स्वाहा

दुकान में आग लगने के बाद जला पड़ा सामान

भास्कर न्यज-मौदहा। अज्ञात कारणों के चलते बिजली उपकरण की दकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान स्वाहा हो गया। पडोसी दकानदारों की मदद से आज में काब पाया जा सका है। नगर के बस स्टॉप के निकट वारसी इनवर्टर दकान के मालिक रहमान ने बताया कि देर रात मैं दुकान बंद करके देर रात्रि को घर गया था। सुबह दुकान में धुंआ उठते देख पड़ोसी दुकानदार ने सूचना दी कि आग लग गयी है वहां पहुंच कर जब सटर बोझ बढ़ गया

उठाई तो आग लगी हुई थी पर अभी तक आग लगने का कारण सपष्ट नहीं हो सका है। जबकि आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर चुकी थी। जैसे तैसे आस-पास मौजूद दुकानदार व एकत्रित भीड़ ने पास में ही लगे हैंड पंप समरसेबल आदि से पानी डालकर आग में काबू पाया पर जब तक आग बुझी तब तक लगभग चार लाख से अधिक उपकरण जलकर खाक हो चुके थे। इस घटना से दुकानदार पर आर्थिक

युवक ने फांसी लगा आत्महत्या करने में असफल होने के बाद रेलवे ट्रैक पर पहुंच ट्रेन के आगे लगायी छलांग

को एक युवक ने फांसी लगा आत्महत्या करने में दो हिस्से हो गए। स्थानीय पुलिस की मदद से काफी अर्से से नगर के फत्तेपुर में मकान बनवा रह रहा है। वह दिल्ली समेत अन्य शहरों में काम रस्सी से फांसी लगा ली लेकिन रस्सी टूट जाने से जिससे वह पुनः आत्महत्या करने के मकसद से नगर के समीप निकले रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया गया। यवक को ट्रेन के आगे छलांग लगाते देख लोगों को अपने आत्महत्या करने का कारण

भास्कर न्यूज-मौदहा। पुलिस के भय से शुक्रवार असफल होने के बाद रेलवे ट्रैक पर पहुंच ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। जिससे युवक के शरीर के घायल युवक को लहुलुहान हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां चिकित्सक ने उसका प्राथमिक इलाज कर उसे सदर अस्पताल क लिए रफर कर दिया। इस घटना स घायल युवक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना क्षेत्र बिवांर के ग्राम पाटनपुर निवासी जयराम उर्फ लल्लू अनुरागी उम्र 40 वर्ष पुत्र जय किशोर करता है। शक्रवार की सबह उसने अपने घर में वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और कानपुर से चित्रकूट जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस के आने पर उसने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी जिससे उसका शरीर दो हिस्सों में बढ़ आसपास खेतों में मौजूद लोग घटनास्थल पर पहुंच गए जहां बुरी तरह से लहूलुहान लल्लू बताता रहा। इधर घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुँच घायल लल्लू



रेलवे टैक पर पड़ा घायल जयराम

को आनन-फानन सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सक ने उसकी हालत गंभीर देख उसका प्राथमिक उपचार कर उसे मुख्यालय रेफर कर दिया। इस घटना से लल्लु के परिजनों में कोहराम मच गया। लल्लू ने बताया कि उसके पड़ोसी गांव भरसवा का एक युवक उसके साथ

नौकरी के लिए दिल्ली गया था। जिसके लौटकर घर ना आने पर उसके परिजनों ने उसके खिलाफ बिवार थाने में उसके खिलाफ तहरीर दी है। जिससे वह काफी आहत है। इसके अलावा यही बात कुछ लोगों ने और कही है। यह घटना नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

दबंगों ने किसान को कुल्हाड़ी व लाटियों से हमला कर किया मरणासन्न

भास्कर न्युज-राठ। क्षेत्र के चिकासी थाना अंतर्गत चिकासी गाँव में खेतों से सिंचाई कर घर वापस जा रहे किसान को अत्यधिक शराब के नशे में धुत दर्जन भर दबंगों ने उसके मकान के पास उसे रास्ते में रोककर लाठियों व कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मरणासन्न अवस्था में पहुंचा दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल किसान को आनन फानन में राठ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने घायल किसान का प्राथमिक उपचार कर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे नजदीकी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। राठ क्षेत्र के चिकासी थाना अंतर्गत चिकासी गांव के निवासी किसान जयहिंद पुत्र रघुनाथ ने बताया कि वह खेतों में फसलों की

सिंचाई करने के बाद वापस अपने घर की ओर लौट रहा था।तभी रास्ते में उसके मकान के पास ही अत्यधिक शराब के नशे में धुत गांव के लगभग दर्जनभर दबंगों ने उसे रोक लिया। उक्त सभी शराबी दबंग उसके साथ गाली गलौच व अभद्रता करने लगे। जब उसने गाली गलौज व अभद्रता करने का विरोध किया तो उक्त दबंगों ने कुल्हाड़ी व लाठियों से हमला कर उसे गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया। आज सुबह उसने थाना चिकासी में घटना की लिखित तहरीर देकर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। मामले में काफी थाना के अस्थायी प्रभारी कल्बे अब्बास ने बताया कि घटना की तहरीर प्राप्त हो चकी है तथा मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मैनपुरी लोकसभा उपनिर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने हेत् जनपद से आवंटित पुलिस बल को ब्रीफिंग कर किया रवाना

भास्कर न्यूज-हमीरपुर। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा जनपद मैनपुरी में 5 दिसम्बर को लोकसभा उपनिर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद हमीरपुर से आवंटित पुलिस बल की ब्रीफिंग कर निष्पक्ष एवं शांतिपुर्ण मतदान कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए साथ ही हरी झंडी दिखाकर पुलिस बल को बसों से रवाना किया गया। जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक, चार उपनिरीक्षक, 28 हेडकांस्टेबल, 172 कांस्टेबल कुल 204 कर्मचारी रवाना हुये।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को 11 माह वं ४००० रुपये के अर्थदंड की दिलायी सजा

भास्कर

न्यूज-हमीरपुर। जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप 23 सितम्बर 2020 को थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत असं. धारा एनडीपीएस एक्ट में नामजद अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी कुम्हऊपुर थाना लालपुरा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय द्वारा 11 माह 4000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

समिति के अध्यक्ष ने ग्राम सचिव पर विकास कार्यों के सरकारी धन का बंदरबांट कर धन को टिकाने लगाने की शिकायत भास्कर न्यूज-मौदहा। विकासखंड द्वारा धर्मू को अध्यक्ष पद पर नियुक्त

क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों से लगातार भ्रष्टाचार की आवाजें उठने से मौदहा ब्लाक जिले में अपना प्रथम स्थान बनाये हुए है, जिन्हें शिकायतों के बाद भी उच्चाधिकारियों द्वारा दोषियों पर कार्यवाही न करते हुए दबाने का प्रयास किया जाता है जिससे भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसा ही एक ताजा मामला ग्राम पंचायत परछछ से उभर कर सामने आया है। जहां कार्य समिति के अध्यक्ष ने ग्राम सचिव पर विकास कार्यों के सरकारी धन का बंदरबांट कर धन को ठिकाने लगाने की शिकायत की है। आपको बताते चलें कि पूर्व में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव में विजय प्रत्याशी प्रधान अंशिका गौतम के न्यायालय में नाबालिक साबित होने पर न्यायालय के आदेश द्वारा प्रधान के अधिकार समाप्त करते हुए एक कार्य समिति गठित की गई थी जिसमें चयन समिति

किया गया था सिमिति के अध्यक्ष धर्म ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि हमारे कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाते हुए पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी महेंद्र प्रताप द्वारा सरकारी योजनाओं सहित विकास कार्यों में भी जमकर धांधली करते हुए सरकारी धन को ठिकाने लगाने का कार्य किया जा रहा है शिकायतकर्ता ने बताया कि पंचायत सचिव द्वारा पीएम आवास योजना के तहत गरीब व निर्धन लाभार्थियों से दस दस हजार की वसूली की गई जिसमें सुनीता, गोमती, पुनीता,नेहा, अनुसुइया,रेखा,गीता, मोतीलाल,इंदी सहित अनिला भारती शामिल है। यहां तक की सरकार की महत्वपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को मिले शौचालय में भी प्रति लाभार्थी से दो हज़ार रूपये वसुले गए तथा बिना उसकी जानकारी के अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से ग्राम के

विकास कार्य सामुदायिक शौचालय, पुलिया निर्माण व संपर्क मार्ग आदि तमाम ऐसे कार्य जो पंचायत के विकास में चार चांद लगा सकते हैं यह सब सचिव व उनके चहेतों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ चुके हैं जब इसकी जानकारी उसे हुई तो वह लगातार इसकी जांच के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार शिकायत मिलने के बाद भी ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्यवाही होती दिखाई नहीं दे रही है, जिससे भ्रष्ट ग्राम पंचायत अधिकारी महेंद्र प्रताप सहित अन्य भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के हौसले बुलंद है और गरीब ग्रामीण तमाम योजनाओं से वंचित हैं। शिकायतकर्ता ने सचिव पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं सुत्रों की मानें तो हर बार की तरह ये जांच भी भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों से करवाकर ठंडे बस्ते में जाने की उम्मीद

जताई जा रही है।

आज ही के दिन 1829 में वायसराय लॉर्ड विलियम बैंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी।

सारसुर्खियां

पांचवी लहर शुरू

में स्थित देश पेरू के अधिकांश क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की पांचवी लहर शुरू हो गई है। पिछले तीन सप्ताह में यहां कोरोना के मामलों तेजी से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री केली पोर्टलैटिनो ने शुक्रवार को बताया कि देश में कुल 6,541 लोग संक्रमित पाएँ गए और मंगलवार और बुधवार के बीच नौ मरीजों की मौत हुई। महामारी की 4,252,383 मामले और 217,414 मौतें हुई हैं।

न्यूजीलैंड में भूकंप

द्वीप में शुक्रवार को मध्यम दर्जे के भूकंप के झटके महसूस किये गये। न्यूजीलैंड के भूविज्ञान अनुसंधान सर्विस सेंटर ने बताया कि स्थानीय समयानुसार शाम छह बजकर सात मिनट पर आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 आंकी गई है। भूकंप का केन्द्र उत्तरी द्वीप के वाइकाटो क्षेत्र में शहर टोकोरोआ से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जमीन से 159 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। करीब 9,000 लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया। भूकंप से किसी के हताहत होने

उपग्रहों की तैनाती

वाशिंगटन। अमेरिका के संघीय संचार आयोग ने स्पेसएक्स के 7500 अतिरिक्त स्टारलिंक उपग्रहों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। आयोग ने बताया कि विशेष रूप से हम आवृत्तियों का उपयोग कर क्रमशः 525, 530, और 535 किलोमीटर की ऊंचाई उपग्रहों को तैनात करने को

लिमा। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप शुरुआत के बाद से, पेरू में कुल

की फिलहाल को खबर नहीं है।

अनुमति प्रदान करते हैं।

पेरू में महामारी की

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के उत्तरी

देश-विदेश

अमेरिकी रैपर कान्ये का एकाउंट सस्पेंड

वाशिंगटन, एजेंसी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्विटर' के नये 'मालिक' एलन मस्क ने

शुक्रवार को कहा कि कंपनी के नियमों का एक बार फिर उल्लंघन करने वाले अमेरिकी रैपर कान्ये, जिन्हें कान्ये वेज्ञस्ट के नाम से भी जाना जाता है, का एकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है।

ट्विटर हैंडल पर गुरुवार को नाज़ी स्वास्तिक के चिंह की तस्वीर साझा की थी, जिसके अंदर डेविड का तारा दिखाया गया था। यह नाजियों का एक जाना माना प्रतीक है। मस्क ने ट्वीट किया कि मैंने

• पोस्ट किया था नाजी का स्वास्तिक चिहन

पूरी कोशिश की ये बात को समझें और किसी भी तरह की हिंसा को प्रोत्साहन देने एकाउंट पर न डालें, लेकिन उन्होंने एकबार फिर नियम तोडा, जिसके बाद उनका एकाउंट सस्पेंड कर

कान्ये ने एक अन्य विवादित बयान देते हुए कहा था कि वह जर्मनी के नाजी नेता एडोल्फ हिटलर को पसंद करते हैं और उन पर लगे यहदी विरोधी भावना के आरोपों के बाद वह यहदियों को

कान्ये नहीं खरीदेंगे 'पार्लर'

पार्लमेंट टेक्नोलॉजीज ने घोषणा की है कि अमेरिकी रैप कलाकार कान्ये वेस्ट अब सोशल मीडिया कंपनी का अधिग्रहण नहीं करेंगे। इस कलाकार को अब ये के नाम से जाना जाता है। पार्लमेंट टैक्नोलॉजीज ने अक्टूबर में कहा था कि वह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पार्लर के अधिग्रहण के लिए ये के साथ सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर पहुंच गई। मीडिया सवाल के जवाब में पार्लमेंट टेक्नोलॉजीज यह पुष्टि करना चाहेगी कि कंपनी ने पार्लर की बिक्री के इरादे को समाप्त करने के लिए ये के साथ पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है।

पसंद करते हैं।

पिछले माह ही कान्ये द्वारा कुछ उद्योगों में यहदियों की असंगत उपस्थिति को लेकर दिये गये बयान के बाद उन पर यहूदी विरोधी भावना का आरोप लगा था। उसने दावा किया था कि काले

लोग ही असली यहदी हैं। उन्होंने अपना बयान सोशल नेटवर्किंग साइटों ट्विटर और इंस्टाग्राम पर डाला था, जिसके बाद इन दोनों प्लेटफार्मों से इन बयानों के कारण उनका एकाउंट सस्पेंड कर दिया

न पर हमले तेज करेगा रूस

यूक्रेन के दो शहर निप्रॉपेट्रोस और खारकीव में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई

कीव, एजेंसी। रूसी सेना एक बार फिर युक्रेन पर हमले तेज करने जा

रही है। यूक्रेन के निप्रॉपेट्रोस और खारकीव क्षेत्रों में हवाई हमले चेतावनी जारी की गई

रूसी हमलों के नए अलर्ट के बाद इन शहरों के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेने के निर्देश जारी किये गए हैं। साथ ही सेना ने भी हमलों को विफल करने

है। यूक्रेन में

यूक्रेन के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के ऑनलाइन हवाई हमले के अलर्ट मानचित्र के अनुसार निप्रॉपेट्रोस और खारकीव क्षेत्रों में

की तैयारियां तेज कर दी हैं।

• नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया

रोमानिया के बुखारेस्ट में राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित सैन्य परेड में शामिल युद्धक टैंक।

हवाई हमले जारी की गई है। रूस के जापोरिज़्जिया

पीपुल्स रिपब्लिक के कीव नियंत्रित क्षेत्रों में भी हवाई हमले के सायरन बजने लगे। रूस के क्रिमियन पुल पर युक्रेन के आतंकवादी हमले के दो दिन बाद दस अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करना शुरू कर दिया।

यूक्रेन में बिजली, रक्षा उद्योग, सैन्य कमान और संचार सुविधाओं युक्रेन ने युरोप से मांगी मदद

रूस के लगातार जारी हमलों के कारण युक्रेन में बिजली संकट ने भीषण रूप ग्रहण कर लिया है। पिछले हफ्ते रूस के मिसाइल हमलों के बाद लगभग पूरे यूक्रेन में 48 घंटों तक बिजली नहीं रही। बढ़ती ठंड के बीच इस संकट ने लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसे देखते हुए अब यूक्रेन ने यूरोपीय देशों से गुहार लगाई है कि वे प्राथमिकता के आधार पर उसके बिजली ग्रिड को बहाल करने में मदद दें। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संगठन एनर्जी कम्युनिटी ने सलाह दी है कि यूक्रेन को बिजली ग्रिड को विकेंद्रित कर देना चाहिए। इस क्रम में उसे बिजली सब-स्टेशन बनाने चाहिए। इन छोटे स्टेशनों पर हमला करना रूस के लिए कठिन होगा।

में प्रतिदिन, क्षेत्र तथा कभी-कभी प्रधानमंत्री डेनिस शिम्हाल ने 15 पुरे देश में हवाई हमले के अलर्ट नवंबर को हमलों के बाद कहा कि

मॉस्को। रूसी सेना का एक लड़ाकू विमान

रूसी लडाक विमान मिग ३१ क्रैश

मिग-31 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान प्रिमीस्की क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हालांकि इस दुर्घटना में पायलट सुरक्षित निकल गये। पूर्वी सैन्य डिस्ट्रिक्ट की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। एक नियोजित प्रशिक्षण उडान के दौरान प्रिमोंस्की क्षेत्र में मिग -31 आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना रेगिस्तानी इलाके में हुई इस कारण जमीन पर जान और माल का किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते यह दुर्घेटना

पर हमले किए गए। तब से यूक्रेन जारी किए गए हैं। यूक्रेन के देश की ऊर्जा प्रणाली का लगभग आधा हिस्सा सेवा से बाहर कर

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा 'कू' यूजर्स में हुए शामिल

बेंगलुरु। ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने शुक्रवार को कहा कि वह भारतीय ट्वीट को एक लाख से माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'कू' के यूजर्स में शामिल हो

सिल्वा एक दिसंबर को इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पहली पोस्ट पूर्तगाली में लिखा। कहा कि मैं आ गया हं। आप यहां क्या देख रहे है? उनके 'कू' में शामिल होने के दो दिनों के अंदर ही उनके एक लाख तीन हजार से ज्यादा फॉलोअर बन गए हैं और उनके पहले संदेश को 33 हजार से ज्यादा लाइक और 10 हजार से ज्यादा टिप्पणियां प्राप्त

गए हैं।

सिल्वा ने ट्विटर पर अपने कू प्रोफाइल की घोषणा पीले पक्षी वाले इमोजी के साथ की और उनके हस्तियां इसमं शामिल हो चुकी हैं।

• ब्राजील की करीब ५०० प्रतिष्टित हस्तियां जुड़ीं

ज्यादा लाइक्स मिले। इस ऐप पर उनकी उपस्थिति दर्शाती है कि इस लोकप्रिय डिजिटल ऐप से ब्राजील में बड़ी संख्या में लोग इस जुड़ने वाले हैं।

क के सीईओ एवं सह-संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्ण ने कहा कि हम ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को अपने मंच पर देख बहुत खुश हैं। हमें लोकतांत्रिक मंच होने पर गर्व है, जो लोगों को संपर्क बनाने और फॉलोअर से अपडेट साझा करने में सहायक है। पूर्तगाली भाषा की सुविधा मिलने के बाद ब्राजील की 500 से ज्यादा प्रतिष्ठित

चिपको मूवमेंट' पुस्तक को सम्मान

बेंगलूरु। द न्यू इंडिया फ़ाउंडेशन चट्टोपाध्याय एनआईएफ़ बुक प्राइज 2022 के पांचवें संस्करण के विजेता की घोषणा की है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इतिहासकार, कार्यकर्ता से संबंधित गहन शोध पर लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंटः ए पीपल्स मूवमेंट को दिया गया है, जिसका हिंदी से अनुवाद मनीषा चौधरी द्वारा किया गया है।

• एनआईएफ बुक प्राइज विजेताओं की घोषणा

भारतीय इतिहास के व्यापक क्षेत्र और विविध विषयों व दृष्टिकोणों लिखित पांच पुस्तकों की एक इंडिया, सुचित्रा विजयन द्वारा विविध लघुसूची से किया गया। इनमें श्वेता एस. बालाकृष्णन

एक्सिडेंटल द्वारा लिखित विजेता का चयन आधिनक फ़ेमिनिज़्मः जैंडर पैरिटी एंड मुस्लिमः सम दृश्स अबाउट

मोबिलिटी इस्लाम इन इंडिया शामिल हैं। इंडियाज प्रोफ़ेशनल ईलीट. शेखर कमलादेवी चट्टोपाध्याय प्राइज सभी

पाठक द्वारा लिखित द चिपको एनआईएफ़ बुक राष्ट्रीयताओं के लेखकों द्वारा मूवमेंटः ए पीपुल्स हिस्ट्री, रुक्मिणी एस. द्वारा लिखित होल नंबर्स एंड आधुनिक/समकालीन भारत पर हाफ़ ट्रथ्सः व्हाट डेटा कैन एंड कथेतर लेखन में उत्क्रष्टता को और लेखक शेखर पाठक द्वारा आधारित और आकर्षक ढंग से कैननॉट टैल अस अबाउट मॉडर्न मान्यता देता है और उसका जश्न लिखित मिंडनाइट्स बॉर्डर्सः ए

आयोजकों के अनुसार विजेता को पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ़ मॉडर्न इंडिया, 15 लाख रुपये का नक़द पुरस्कार, ग़ज़ाला वहाब द्वारा लिखित बॉर्न ए एक ट्रॉफ़ी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

आग से चार लोग वार्ड में अंधेरा दूर करेगी टॉर्च: चौकन जिंदा जले, मौत • जुनाव को लेकर घोषणा चुनाव जीतने के तुरंत बाद विरि

काकीनाडा। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिले राष्ट्रीय राजमार्ग पर **नई दिल्ली।** वार्ड 183 हरी नगर धर्मवरम के पास शुक्रवार तड़के दो एक्सटेंशन से निर्दलीय लॉरियों की भिडंत के बाद वाहनों में आग लगने से चार लोगों की जिंदा जल गए हैं। पलिस ने कहा कि एक लॉरी राजमुंदरी में बालू पहुंचाकर कि हरिनगर वार्ड का अंधेरा लौट रही थी और तभी अचानक से लॉरी अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर को पार करने के बाद विपरीत दिशा से आ रही कंटेनर लॉरी से उसकी भिडंत हो गई।

प्रत्याशी मोहित चौकन ने नुक्कड़ सभा और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा टॉर्च ही दुर कर सकती है। जन ने अगर विश्वास जताया तो वार्ड में विकास का चौतरफा नजारा नजर आएगा। मोहित ने कहा कि चौकन परिवार धोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि

• चुनाव को लेकर घोषणा पत्र किया गया जारी

घोषणाओं पर नहीं काम पर विश्वास करती है। वार्ड की जनता जानती तब हमने इसका विरोध किया तो मुझ पर जैतपुर थाना में एमसीडी

द्वारा झठी मकदमा तक दर्ज करवा दिया गया। मोहित चौकन ने अपना

चुनाव जीतने के तुरंत बाद वरिष्ठ विकलांगों जरूरतमंदों के लिए सवारी रिक्शा, गरीब परिवार के कन्याओं के लिए शादी, 5 महीने के अंदर जरूरतमंदों में चौकन परिवार की ओर से 1500 है. जब गरीबों का सिलाई मशीनों का वितरण अपने आशियाना टूट रहा था, खर्चे से साफ़ सफाई के वास्ते 10 निजी स्टॉप लगाकर 4 ऑटो डीपड की व्यवस्था करवाएंगे। साथ ही 24 घंटे लोगों की सुविधा के वास्ते निःशुल्क इको एंबुलेंस की व्यवस्था

'दिल दियां गल्लां' में दिखेंगे रवि

नई दिल्ली। सोनी सब के आगामी शो 'दिल दियां गल्लां ' में रणदीप है। का किरदार रवि गोसाई निभाएंगे। माइग्रेशन पर आधारित इस शो में वह एक ऐसे बेटे

के रूप में नजर आयेंगे, जिसे अपने वजूद की तलाश है। रवि गोसाईं ने न सिर्फ छोटे पर्दे पर, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंनने कई अनुठे किरदार निभाये हैं और इनके जरिये

मनोरंजन जगत में नाम कमाया

सोनी सब पर जल्दी ही लॉन्चह होने वाले शो 'दिल दियां गल्लां ' में रवि गोसाईं को 'रणदीप' का किरदार निभाने के लिये चुना गया है। रवि इस शो में दिलप्रीत (पंकज

बेरी) और सं जो त (जसजीत हलचल बब्ब र) के दूसरे बेटे का कि र दा र

निभायेंगे। रणदीप जुनूनी है और एक अच्छा बेटा बनने की परी कोशिश करता है. लेकिन असफल रहता है। उसके निराशावाद का कारण कहीं न कहीं परिवार के अंदर का मतभेद है। अपने भाई के कारण माता-पिता

को जो तकलीफ हुई है, उसकी वजह से वह उनका प्याहर और सम्माणन पाने की परी कोशिश करता है। अपनी पत्नीव और बेटी के साथ उसका अनुठा रिश्ता है लेकिन

यहाँ हास्य से भरपूर है और उसकी नासमझी प्या री है। यह रिश्तां मतभेद के बीच भी संतुलन बनाये रखता है और इसकी वजह से उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां हैं।

भेड़िया का प्रमोशन के सिलसिले में झलक दिखला जा 10 के सेट पर पहुंची थीं। कृति सैनन ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में कृति, माधुरी दीक्षित के साथ बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गाने पर डांस करती नजर आ रही है। वीडियो शेयर करते हुए कृति सैनन ने लिखा कि यहीं एक महिला है, जिसके लिए मेरा दिल धक-धक करता है। उनके साथ डांस करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उनको देखकर मुझे गर्व होता है। माधुरी दीक्षित मैम आपके जैसा कोई नहीं है।

राजस्थानः खराब दूध को पीने से 24 छात्राएं बीमार

श्रीगंगानगर। राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना लागू होने के चौथे दिन ही हनुमानगढ टाउन के एक सरकारी विद्यालय में शुक्रवार को दो दर्जन से अधिक बालिकाओं की तबीयत

विद्यालय में सुबह प्रार्थना सभा के पश्चात दूध पिलाए जाने के बालिकाओं ने चक्कर आने, गले और पेट में दर्द होने,जी मिचलाने तथा उल्टी होने की शिकायतें की। इससे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बीमार बालिकाओं को आनन फानन टाउन के सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद • मुख्यमंत्री की योजना के तहत दिया गया था दूध

हनुमानगढ़ जंक्शन में स्थित गंगमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक, क्वालिटी कंट्रोल तथा मिल्क पाउडर के पैकेट सप्लाई करने वाले अधिकारी हनुमानगढ़ टाउन के सेठ राधाकृष्ण बिहाणी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे। गंगमूल डेयरी की टीम ने बच्चों को पिलाए गए दुध के सैंपल जांच के लिए भरे।

ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाए गए बच्चे तीसरी से पांचवीं कक्षा के हैं। इनके अभिभावकों को 3 घंटे बाद सूचना दी गई, जब उपचार के बाद बच्चों की हालत ठीक हो गई।



नई दिल्ली में शुक्रवार को एक स्कूल के खेल दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ढाकूर।

डब्ल्यूएचपी ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में किया खुलासा, 25 प्रतिशत कोविड पीड़ितों को हैं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी

मानिसक बीमारी से जूझ रहे हैं कोविड

• स्वास्थ्य के प्रभाव को किया गया उजागर

नई दिल्ली। प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स (डब्ल्यूएचपी) की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी का असर कम होने के बावजूद 25 प्रतिशत कोविड पीड़ित आज भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से जुझ

डब्ल्युएचपी की कंट्री डायरेक्टर प्राची शुक्ला ने शुक्रवार को एक संगोष्ठी में कहा कि उनके संगठन के एक प्रोजेक्ट की अवधि के दौरान इसके टेलीहेल्थ प्लेटफॉर्म को 70 हजार से



हेल्पलाइन के आंकड़ों के अनुसार 25 प्रतिशत कोविड-19 रोगी आज भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से जुझ रहे हैं। यह प्रोजेक्ट जून 2021 से नवंबर 2022 तक तीन राज्यों के 26 जिलों में लागू किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट

ने किफायती और सामयिक

बेहद जरूरी है पीड़ितों की काउंसलिंगः प्राची प्राची शक्ला ने कहा कि उनके संगठन ने ग्रामीण क्षेत्र में मानसिक

स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे लोगों की काउंसिलिंग की भी बेहतर व्यवस्था की है। पीड़ितों को परामर्श के जरिए हरसंभव मदद की जाती है। बेरोजगारी से की समस्या से जझ रहे यवाओं को यदि कोई आवश्यकता होती है, तो उनके लिए भी काउंसिलिंग की तत्काल व्यवस्था की जाती है। संगोष्ठी में मानसिक स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने कोविड और सेहत संबंधी अन्य समस्याओं पर अपने विचार रखे।

मानसिक स्वास्थ्य पर देखभाल की आवश्यकता तथा कोविड-19 महामारी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को उजागर किया है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों में वृद्धि ने कम लागत वाली डिजिटल तकनीकों को लागू करने के

दरवाजे खोल दिये हैं। ये तकनीक मजबूत स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में सरकार के प्रयासों का समर्थन करने में सहायक है। इस संगोष्ठी में दिल्ली, गुजरात

और झारखंड में मानसिक स्वास्थ्य और लिंग आधारित हिंसा प्रोजेक्ट के दौरान हासिल की गईं महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं। प्रोजेक्ट को यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के सहयोग से पूरा किया गया। इसे केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची न्यूरोसाइकियाट्री और संबद्ध विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।

गौरतलब है कि विश्व के कई देशों में कोरोना महामारी आज भी हावी है। जिसमें इस महामारी का जनक चीन भी शामिल है। जबकि भारत में कोरोना काफी हद तक नियंत्रित हो चुका है।



वाले एक ऐसे जख्म से जुड़ी





टेलिविजन 5 दिसंबर से सुपरहिट टर्किश ड्रामा '1001 नाइट्स' का विआन के लीड किरदार में नजर हिंदी रीमेक 'कथा अनकहीं' लेकर आएंगे। विआन एक स्थापित आ रहा है। इस शो में अदनान बिजनेसमैन हैं, और पूर्व में हुई खान वापसी करेंगे। एक भावुक घटना के चलते यह शो पछतावे से भरी एक प्रेम उनकी सोच महिलाओं के खिलाफ कहानी है, जो कभी ना भुलाए जाने हो गई है।

माधुरी के साथ झूमी कृति सैनन मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति

सैनन ने माधुरी दीक्षित के साथ बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल गाना पर डांस किया है। कृति सैनन अपनी फिल्म

सारसुर्खियां

क्रोएशिया ने तोड़ दिया बेल्जियम का सपना

दोहा। फीफा विश्वकप में क्रोएशिया ने बेल्जियम टीम का सपना तोड़ दिया। फीफा रैंकिंग में दसरे स्थान पर काबिज बेल्जियम की टीम कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गई। उसे क्रोएशिया ने ग्रुप-एफ में 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। बेल्जियम को आगे बढ़ने के लिए किसी भी हाल में जीत और बेल्जियम को कम से कम ड्रॉ की आवश्यकता थी। बेल्जियम की इस टीम में कप्तान इडेन हेजार्ड, दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर में से एक केविन डी ब्रुइन, स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू और गोलकीपर थिबाउट कोर्त्वा सहित कई स्टार खिलाड़ी हैं। इस कारण इस टीम को बेल्जियम की फुटबॉल इतिहास में 'गोल्डन जेनरेशन' कहा गया। उसी गोल्डन जेनरेशन' के एक सदस्य रोमेलू लुकाकू ने इस मुकाबले में कई गलतियां कीं। उन्होंने तीन आसान मौके गोल के गंवाए। बेल्जियम की इस 'गोल्डन जेनरेशन' टीम की उम्र हो चुकी है। इसे खुद केविन डी ब्रुइन ने स्वीकार किया था।

खिलाडियों का प्रदर्शन

जींद। अंतरराष्ट्रीय डब्ल्यूडब्ल्यूएफ महिला रेसलर कविता दलाल के नेतृत्व में खिलाडियों ने सरकारी भर्तियों में खेल कोटा बहाल करने की मांग को लेकर आज लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीटीएम को सौंपा। दलाल ने कहा कि सरकार ने खेल कोटे को पूरी तरह खत्म कर दिया था, बाद में खिलाड़ियों के दबाव के कारण सी और डी ग्रुप में तीन प्रतिशत कोटा बहाल कर दिया गया।



कतर के अल खोर के अल बायत स्टेडियम में फीफा विश्वकप के ग्रुप ई मैच के दौरान जर्मनी को शिकस्त देने के बाद खुशी मनाते कोस्टा रिका के खिलाडी।

हॉकी इंडिया ने की ट्रॉफी टूर की घोषणा

• देश के 12 राज्यों में ले जाई जाएगी टॉफी

भवनेश्वर। हॉकी इंडिया ने बहुप्रतीक्षित एफआईएच ओडिशा हॉकी पुरुष विश्वकप 2023 के शुरू होने से करीब एक महीना पहले शुक्रवार को 'ट्रॉफी टूर' की घोषणा की। इस दौरे के तहत प्रतिष्ठित विश्वकप ट्रॉफी को देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भुवनेश्वर में पांच दिसंबर को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की को ट्रॉफी सौंपकर इस दौरे की शुरुआत करेंगे, जिसके बाद यह देश के 12 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश से होते हुए वापस भुवनेश्वर लौटेगी। ट्रॉफी इस

 \mathbf{FIH} **ODISHA** HOCKEY MEN'S WORLD CUP-2023

21 दिवसीय दौरे में पश्चिम पीछे का विचार देश भर के हॉकी बंगाल, मणिपुर, असम, झारखंड, प्रशंसकों को प्रतिष्ठित ट्रॉफी की उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई एक झलक पाने का अवसर देना दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है। भारतीय प्रशंसक हमेशा हॉकी के प्रति जुनूनी रहे हैं और आगामी तिमलनाडु, केरल और कर्नाटक से टूर्नामेंट में अपनी घरेलू टीम के होते हुए 25 दिसंबर को ओडिशा पहुंचेगी, जिसके बाद इसे पुरे राज्य लिये उत्सुक होंगे। हमें विश्वास है कि इस दौरे से प्रशंसकों को खेल का दौरा कराया जाएगा। से जड़े रहने और भारतीय टीम को

तिर्की ने कहा कि इस पहल के



१३ जनवरी से होगा विश्वकप

विश्व कप अगले साल 13 जनवरी से शुरू होगा। मेजबान भारत, जिसे स्पेन, इंग्लैंड और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है. पहले दिन स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इन चार टीमों के अलावा नीदरलैंड, अर्जेंटीना, जर्मनी. न्यजीलैंड. फ्रांस. कोरिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान और चिली की टीमें टूर्नामेंट में भाग लेंगी।

अभियान शुरू करने से पहले अपनी शुभकामनायें भेजने का

सौराष्ट्र बना विजय हजारे चैंपियन

महाराष्ट्र से गायकवाड़ ने जड़ा लगातार तीसरा शतक, सौराष्ट्र से जैकसन ने जड़ा शतक

• चिराग की हैट्रिक से पलटा मुकाबला

अहमदाबाद। सौराष्ट्र ने शेल्डन जैकसन (133 नाबाद) के शानदार शतक और चिराग जानी (43/3) की हैट्रिक की बदौलत शुक्रवार को फाइनल में महाराष्ट्र को पांच विकेट से हराकर दूसरी बार विजय हजारे

महाराष्ट्र ने ऋतुराज गायकवाड़ (108) के शतक की मदद से सौराष्ट्र को 50 ओवर में 248 रन का लक्ष्य दिया। सौराष्ट्र ने यह लक्ष्य 46.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। गायकवाड़ ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरा शतक जड़ते हुए 131 गेंदों पर सात चौकों और चार छक्कों की बदौलत 108



सैकड़े के दम पर बड़े स्कोर की ओर अग्रसर थी, लेकिन चिराग ने 49वें ओवर में हैट्रिक ली, जिसके कारण गायकवाड़ की टीम 248 रन

जैकसन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए हार्विक देसाई (50) के साथ 125 रन की शतकीय साझेदारी की। हार्विक के आउट होने के बाद सौराष्ट्र का मध्यक्रम लड़खड़ाया 30 रन का योगदान दिया।

लेकिन जैकसन ने अंत तक विकेट पर खडे रहकर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। जैकसन ने अपनी मैच जिताऊ पारी में 136 गेंदों पर 12 चौकों और पांच छक्कों के साथ नाबाद 133 रन बनाये, जिसमें 47 ओवर में जड़ा गया विजयी चौका शामिल है। इसके अलावा चिराग ने भी 25 गेंदों पर तीन चौकों के साथ

गायकवाड़ ने तोड़ा रॉबिन उथप्पा का रिकॉर्ड

महाराष्ट्र की ओर से खेल रहे रुतुराज गायकवाड़ ने 108 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में एक रिकॉर्ड अपने नाम भी कर लिया है। गायकवाड ने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले गायकवाड़ ने सेमीफाइनल में जब शतक लगाया था, तो उन्होंने रॉबिन उथप्पा की बराबरी की थी, जिन्होंने इस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक लगाया था। उन्होंने शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी में रॉबिन उथप्पा के 11 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अपना 12वां शतक लगाया।

दूसरी बार सौराष्ट्र ने जीता खिताब

महाराष्ट्र की नजर पहली बार चैंपियन बनने पर थी। टीम पहली बार फाइनल खेल रही थी। वहीं, सौराष्ट्र दूसरी बार 50 ओवर के इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने उतरा था। सौराष्ट्र की टीम फाइनल पर महाराष्ट्र पर दबाव बनाने में कामयाब रही और दूसरी बार चैंपियन बनी। ऋतुराज की शतकीय पारी पर शेल्डन जैक्सन ने पानी फेर दिया। टूर्नामेंट में सौराष्ट्र के तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा है तो वहीं, महाराष्ट्र के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया।

ऑस्ट्रेलिया ने विडीज पर बनाई ३४४ रन की बढ़त

पर्थ, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल स्टार्क (तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत वेस्ट इंडीज को 283 रन पर ऑलआउट करने के बाद तीसरे दिन शुक्रवार को 344 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट के नुकसान पर 29 रन बना लिये हैं।

वेस्ट इंडीज ने पर्थ स्टेडियम पर

तीसरे दिन का खेल 74/0 से आगे बढ़ाते हुए पहले ही ओवर में तेजनारायण चंद्रपॉल का विकेट गंवा दिया। अपना पहला टेस्ट खेल रहे चंद्रपॉल 51 रन बनाये। क्रेग ब्रैथवेट ने संयम के साथ खेलना जारी रखा, जबिक एन्क्रुमाह बॉनर 16 रन पर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गये। कप्तान पैट कमिंस ने ब्रैथवेट को 64 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को अगली सफलता

• मिचेल स्टार्क ने झटके शानदार तीन विकेट

दिलाई। ब्रैथवेट ने 64 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया की अनुशासित गेंदबाजी के खिलाफ जरमेन ब्लैकवड ने 36, जेसन होल्डर ने 27, जबिक बॉनर की जगह एकादश में आये शमारह ब्रुक्स ने 33 रन बनाये। विंडीज के सात विकेट 266 रन पर गिरने के बाद कंगारुओं ने अन्य तीन विकेट 17 रन के अंदर गिरा दिये।

पहली पारी में 315 रन की बढ़त हासिल करने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने विंडीज को फॉलो-ऑन देने की जगह बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उस्मान छह रन बनाकर पवेलियन लौट गये, लेकिन दिन का खेल खत्म होने पर डेविड वॉर्नर (17) और मार्नस लाबशेन (3) विकेट पर मौजूद हैं।

ड्वेन ब्रावो का आईपीएल से संन्यास

मुंबई। वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर डवेन ब्रावी ने आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में उन्हें रिलीज किया था।

39 वर्षीय ब्रावो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2010 के आखिर सीएसके ने कुल चार बार में जुड़े थे। 2016 और 2017 में चेन्नई के बैन होने पर ब्रावो दूसरी टीम से खेले थे। हालांकि,

• चेन्नई के बॉलिंग कोच बनकर अब देंगे सेवा

बाद वह फिर से सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने फ्रेंचाइजी से जुड़ गए थे। ब्रावो तीन बार चैंपियन बनने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आईपीएल का खिताब जीता है। इसके साथ ही ब्रावो 2014 में चैंपियंस लीग जीतने वाली चेन्नई 2018 में चेन्नई की वापसी के सुपर किंग्स की टीम का भी



हिस्सा थे। ब्रावो अब आईपीएल 2023 में लक्ष्मीपति बालाजी की

बॉलिंग कोच का रोल निभाते नजर आएंगे। बालाजी ने निजी कारणों से एक साल के लिए ब्रेक लिया है। ब्रावो 2008 से आईपीएल से जुड़े रहे हैं। तौन सीजन खेले। ब्रावो के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का ओवरऑल रिकॉर्ड है।

शुरुआत में वह मुंबई इंडियंस से महसूस कर रहे थे, इसलिए जांच के उन्होंने 161 मैचों में 183 विकेट गया। वह तीसरे सेशन में कमेंट्री करते नहीं दिखेंगे।

कमेंर्टी करते पोटिग की तबियत बिगडी

पर्थ। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबले में कमेंट्री के दौरान रिकी पोटिंग की तबियत बिगड गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोंटिंग के सहयोगियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। वह अस्वस्थ लिए अस्पताल गए थे। पोंटिंग को पहले टेस्ट के तीसरे दिन लंच टाइम के आसपास अस्पताल ले जाया

मुंबई। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी-20 शृंखला के लिये शुक्रवार को घोषित 15-सदस्यीय स्क्वाड में ऑलराउंडर

देविका वैद्या को शामिल किया है। चार साल बाद टीम में वापसी करने वाली वैद्या ने अपना पिछला मैच 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय शृंखला में खेला था। उन्हें टी-20 विश्व कप 2018 के लिये भी स्क्वाड में तलब किया गया था, लेकिन वह किसी भी मैच

के लिये एकादश में जगह नहीं बना

• ऑस्टेलिया के खिलाफ टीम में किया शामिल

देविका वैद्या की चार साल बाद वापसी

वैद्या मुख्य रूप से एक बल्लेबाज हैं, लेकिन लेगस्पिन से गेंदबाजी में योगदान देने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने अंतर-राज्यीय टी-20 में छह विकेट लेने के अलावा पांच पारियों में 32.50 की औसत और 109.24 के स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाये थे।

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने

बताया कि पजा वस्त्राकर चोट के कारण इस सीरीज में नहीं खेल सकेंगी। ऑलराउंडर स्नेह राणा को भी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, हालांकि बोर्ड ने उन्हें टीम से बाहर रखने की कोई वजह नहीं दी। रेलवे की वामहस्त तेज गेंदबाज अंजली सरवनी को भी पहली बार टीम में शामिल किया है, जबकि शिखा पांडे अंतर-राज्यीय टी-20 में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद 15-सदस्यीय स्क्वाड में जगह नहीं बना सकीं।

ब्याज दर बढ़ोत्तरी धीमी रखने का किया आग्रह

नर्ड दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की आगामी द्विमासिक बैठक से पहले एमपीसी से ब्याज दरों में बढोतरी की गति धीमी रखने का आग्रह किया है।

एसोचैम ने शुक्रवार को बताया कि उसने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को लिखे अपने पत्र में उद्योग के समक्ष अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में वृद्धि दर 0.25 से 0.35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसोचैम प्रमुख सिफारिशों में इलेक्ट्रिक रही है।

• एसोचैम ने आरबीआई से किया है अनुरोध

वाहनों की खरीद के लिए खुदरा ऋण को रियायती ब्याज दर के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के रूप में मानना शामिल है।

एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऋण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण के तहत शामिल किया जा सकता है। यह भारत में ईवी क्षेत्र को उत्प्रेरित करने में मदद कर करेगा। हालांकि भारत में ईवी की ओर से आरबीआई को की गई की यात्रा अच्छी तरह से आगे बढ

विदेशी मुद्रा मंडार 2.९ अरब डॉलर बढा

मंबर्ड। विदेशी मदा परिसंपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की बदौलत देश का विदेशी मद्रा भंडार 25 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 2.9 अरब डॉलर बढ़कर 550.14 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबिक इसके पिछले सप्ताह यह 2.54 अरब डॉलर की बढ़त लेकर 547.3 अरब डॉलर पर रहा था।

आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार 25 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति तीन अरब डॉलर की बढ़ोतरी लेकर 487.3 अरब डॉलर डॉलर की गिरावट आई है।

देश में डिजिटल रूपये का कैट ने किया स्वागत

नई दिल्ली। कैट ने केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में डिजिटल रुपये का चलन शरू किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि वह व्यापारियों के बीच डिजिटल रुपये को बढावा देने के लिए

राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। कैट ने कहा कि खुदरा स्तर पर डिजिटल मुद्रा शुरू करने का भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय एक स्वागत योग्य है और कैट जल्द ही व्यापार में भुगतान के तरीके के रूप में डिजिटल रुपये को अपनाने और स्वीकार करने के लिए देश भर में हो गई। स्वर्ण भंडार में 7.3 करोड़ जागरुकता अभियान शुरू करेगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन है, जो बेहिसाब रह जाता है।

• शुरू किया जाएगा राष्ट्रव्यापी अभियान

खंडेलवाल ने कहा कि डिजिटल रुपया भारत में व्यापार और वाणिज्य में भगतान परिदश्य को बदल देगा। हमारे देश में खुदरा बाजार का सटीक आकार रिकॉर्ड किए गए लेन-देन से प्रमाणित होगा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर से बढ़ावा देगा। कैट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी है, लेकिन खुदरा स्तर पर नकद मुद्रा के उपयोग के कारण व्यापार नकद करेंसी का एक बड़ा हिस्सा

नई दिल्ली के जंतर मंतर में शुक्रवार को चीन में जारी जीरो कोविड नीति के खिलाफ प्रदर्शन के समर्थन में तिब्बती लोगों ने सादे कागज दिखाकर प्रदर्शन किया।

एमएमसीजी, आईटी, यूटिलिटीज, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक और पॉवर समेत ग्यारह समूहों में हुई बिकवाली

बाजार में लगातार छह दिन की तेजी पर लगा ब्रेक

मुंबई। वैश्विक बाजार की गिरावट के दबाव में एमएमसीजी, आईटी, यूटिलिटीज, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक और पावर समेत ग्यारह समूहों में हुई बिकवाली से शुक्रवार को शेयर बाजार की पिछले लगातार छह दिन की तेजी थम गई।

सेंसेक्स 415.69 अंक की गिरावट लेकर 63 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे 62868.50 अंक और का निफ्टी 116.40 अंक लुढ़ककर 18696.10 अंक पर आ गया। वहीं, दिग्गज कंपनियों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों में हुई • मझौली और छोटी कंपनियों में लिवाली

लिवाली ने बाजार को और अधिक गिरने से थाम लिया। इस दौरान बीएसई का मिडकैप 0.80 प्रतिशत उछलकर

26,321.65 अंक और स्मॉलकैप 0.70 प्रतिशत की तेजी लेकर 29,911.79 अंक पर पहुंच गया। बीएसई में 11 समूहों में गिरावट रही। सीडी 0.30, एफएमसीजी ०.४३, वित्तीय सेवाएं 0.36. हेल्थकेयर 0.10, आईटी 0.41, यूटिलिटीज 1.10, ऑटो 1.12, बैंकिंग 0.32, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.46, पावर 1.23 और महिंद्रा एंड महिंद्र को सर्वाधिक नुकसान

सेंसेक्स की नुकसान उठाने वाली प्रमुख कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.08, हिंदुस्तान यूनीलीवर 1.78, मारुति 1.58, नेस्ले इंडिया 1.52, एचडीएफसी 1.32, एशियन पेंट 1.19, इंफोसिस 1.15, पावरग्रिड 1.08, टीसीएस 1.03, आईसीआईसीआई बैंक 0.97, एलटी 0.91, एचडीएफसी बैंक 0.74, आईटीसी 0.63, विप्रो 0.30, एसबीआई 0.08 और रिलायंस 0.01 प्रतिशत शामिल रही। वहीं, टाटा स्टील 1.22, डॉ. रेड्डी 1.18, टेक महिंद्रा 1.16, इंडसइंड बैंक 0.56, बजाज फिनसर्व 0.24, एक्सिस बैंक 0.20, भारती एयरटेल 0.10 और एनटीपीसी ने 0.06 प्रतिशत का मुनाफा कमाया।

टेक समूह के शेयर 1.23 प्रतिशत 0.33 और चीन का शंघाई

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट का रुख रहा। इस दौरान ब्रिटेन का एफटीएसई 0.26, जापान का निक्केई 1.59, हांगकांग का हैंगसेंग

प्रतिशत की तेजी रही। सेंसेक्स 306 अंक लुढककर 62,978.58 अंक पर खुला

कंपोजिट 0.29 प्रतिशत टूट गया

जबिक जर्मनी के डैक्स में 0.09

लेकिन लिवाली की बदौलत थोडी देर बाद ही 63,148.59 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अंत में 0.66 प्रतिशत की गिरावट लेकर 62,868.50 अंक पर रहा। बीएसई में कुल 3621 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से 2030 में लिवाली, जबकि 1455 में बिकवाली हुई। वहीं, 136 में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी भी 60 अंक उत्तरकर

18,752.40 अंक पर खुला और सत्र के दौरान 18,781.95 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अंत में 0.62 प्रतिशत गिरकर 18,696.10 अंक पर आ गया। एनएसई में 31 कंपनियों में गिरावट, जबिक 18 में तेजी रही।

अब व्हाट्सएप पर भी होगा जियोमार्ट

नई दिल्ली। रिलायंस रिटेल का जियोमार्ट अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जियोमार्ट व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करने वाला दुनिया का इकलौता सफल ई-रिटेल ब्रांड बन गया है। व्हाट्सएप के साथ जियोमार्ट की साझेदारी के बाद ग्राहक अब सीधे अपने व्हाटसएप चैट के भीतर अपनी घरेलू जरूरत के सामानों को आसानी से ब्राउज़ कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स ने व्हाटसएप के जरिए जियोमार्ट की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मेटा के साथ साझेदारी की है, जिससे दुनिया में पहली बार उपभोक्ताओं को उत्पादों की खरीदारी का शानदार अनुभव प्रदान हुआ है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के डिजिटल बदलाव के सफर में तेजी लाना है।

हेल्थप्लिक्स ने ईएमआर परिदृश्य किया पेश

नर्ड दिल्ली। ईएमआर प्लेटफार्म हेल्थप्लिक्स ने 'ईएमआर अडोप्शन लैंडस्केप-इंडिया व्यू 2022' पेश किया है। भारत में डॉक्टकरों के लिये, भविष्यप के लिये तैयार अपने एआई-पावर्ड ईएमआर प्ले2टफॉर्म से स्वा स्टें रक्षा के डिजिटाइजेशन की पहल करने वाली कंपनी ने अपने तरह का पहला ईएमआर परिदश्य जारी किया है।

कंपनी के मुताबिक इसके ईएमआर प्लेंटफॉर्म को अपनाये जाने लगातार वृद्धि हो रही है। महामारी के बाद हुई बढ़ोतरी मेट्रोज से आगे पहुंची है, जहां 2020 की शुरूआत के बाद से 'हॉकी स्टिक हुई है। ईएमआर हॉटस्पॉकटस का मानचित्र साल 2022 के लिये टॉप 15 शहरों में

• ३७० से अधिक शहरों में फैला है नेटवर्क

औसत वृद्धि के लिये केवल दो मेटो

शहरों की रैंकिंग दिखाता है। ईएमआर हॉटस्पॉट्स वे शहर हैं, जहां ईएमआर की पहुंच ज्यांदा है। हेल्थ प्लिक्स अभी मरीजों के बेहतर परिणाम लाने में 10 हजार से ज्या दा डॉक्टंरों को सशक्त बना

रही है, जिसके लिये वह उपचार के समय चिकित्सपकीय निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करती है। हेल्थैप्लिक्सज से जुड़े डॉक्टमर और उनका नेटवर्क भारत के 370 से ज्याकदा शहरों में फैला है, जो उसे देश में डॉक्टिरों के लिये एक भरोसेमंद ईएमआर प्लेनटफॉर्म

आरपीएफः कोरे कागजों पर साइन लेने वाले अब नपने के लिए रहें तैयार

जिन्हें अवैध वैंडर घोषित करती है, उसका मेडिकल प्रमाण पत्र ही नहीं देखती है आरपीएफ

लाइसेंसी वैंडरों को ज्यादा पकड़ रही हैं आरपीएफ, अवैध वैंडरों को हैं खुला संरक्षण

दवा प्रकरण में तीन लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा, फिर छोड़ा आरपीएफ और आरपीएफ डिटेक्टिव विंग की भूमिका संदिग्ध

झाँसी। रेलवे पुलिस फोर्स 'आरपीएफ' में कुछ अधिकारियों व कर्मियों द्वारा कथित तौर पर कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। कई ऐसे मामले रेलवे मंत्रालय के संज्ञान में आए हैं। इनमें से कुछ केस ऐसे भी हैं, जिनमें आरपीएफ कर्मी द्वारा किसी व्यक्ति को फोन कर थाने या चौकी में बुलाया जाता है। वहां उस व्यक्ति पर दबाव डालकर कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए जाते हैं। दबाव के

पावरलूम के उत्पादों में

गुणवत्तां में वृद्धि होगी

झाँसी। झाँसी परिक्षेत्र अन्तर्गत (जनपद

झॉसी /जालौन/ लिलतपुर/ हमीरपुर/

महोबा) के पावरलूम बुनकर बन्धुओं

को सुचित किया जाता है कि के॰ पी॰

वर्मा संयुक्त आयुक्त, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ०प्र० कानपुर के निर्देश द्वारा अवगत कराया गया कि पावरलूम बुनकरों को लाभ दिलाने हेतु जियो टैगिंग जोकि एक अतरिक्त भौगोलिक सचना है जिससे आम तौर पर नक्शे में पावरलूम के स्थान की प्रमाणित जानकारी निर्दिष्ट अक्षांशों को चिन्हित करके दी जाती है। इस हेतु यू०पी० इण्डट्रियल कन्सल्टेन्ट्स लि॰ लखनऊ को नामित किया गया है जोकि सर्वे कर

पावरलुमों की जानकारी निर्धारित

प्रारूप पर तैयार कर सम्बन्धित

पावरलूम को बार कोड प्रदान करते हुए

पावरलूम पर टैगिंग की जायेगी । इस

बार कोड से पावरलूम उपभोक्ता,

पावरलूम उत्पाद आदि की जानकारी

प्राप्त होगी। इससे पावरलुम के उत्पादों

में गुणवत्ता में वृद्धि होगी। डॉ उत्तीर्ण

वीर सिंह परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग झाँसी (झाँसी

मण्डल एवं चित्रकृट धाम मण्डल

बाँदा) ने निर्देश दिया गया है कि सर्वे

के समय सर्वे टीम को पूर्ण सहयोग

करते हुए सर्वे टीम द्वारा वांछित सूचना

जरिए बॉन्ड, बेल बॉन्ड व स्टेटमेंट पर भी उसी के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करनी संबंधित व्यक्ति के दस्तखत ले लेते हैं। यही नहीं, लाइसेंसी वैंडरों को पकड़कर उनका मेडिकल प्रमाण पत्र तक नहीं देखा जा रहा है। अपनी वाहवाही लूटने के उद्देश्य से उसे अवैध वैंडर घोषित किया जा रहा हैं। इस पर लाइसेंसीधारकों ने नाराजगी जताई है। इस पूरे मामले में आरपीएफ और आरपीएफ की डिटेक्टिव विंग की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही हैं। इसकी शिकायत आरपीएफ महानिदेशक को भेजी गई है।

आरपीएफ के डीजी ने उक्त मामले के सामने आने के बाद सख्त लहजे में आदेश जारी किए हैं। इसमें बल के कर्मियों को चेताया गया है कि उन्होंने इस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाना है, हिरासत में लेना है या उसे जांच पड़ताल के बाद छोड़ना है, इन सभी मामलों में सीआरपीसी या जो भी दूसरा कानून है,

है। इसके बाहर जाकर काम करने वाले कर्मी नपेंगे।

डीजी ने हाल ही में ये आदेश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि किसी भी तरह की गिरफ्तारी को बिना कोई देरी किए 'रोजनामचा या डेली डायरी' में लिखना है। गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी में जो कायदे कानून दिए गए हैं, उनका पालन करना हैं। इसके अलावा संवैधानिक अदालतों द्वारा इस संबंध में दिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखना है। कोई भी अधिकारी या कर्मी, किसी व्यक्ति को बिना जरूरत के थाने में नहीं बुलाएगा। उसे जबरन हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

जांच पड़ताल के दौरान कोई व्यक्ति हिरासत में लिया जाता है या उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वह सब निर्धारित रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। जैसे रोजनामचा, डेली डायरी या केस डायरी आदि में अंकित करना होगा। डिस्पोजल के दौरान भी ऐसा व्यक्ति रिकार्ड पर होना

चाहिए। आरपीएफ में कुछ इस तरह के केस सामने आए हैं, जिनमें आरपीएफ का कोई कर्मी किसी व्यक्ति को निजी फोन कॉल कर उसे थाने में बुला लेता है। वहां उस व्यक्ति पर दबाव डालकर कोरे कागज, बयान या बेल बॉंड पर उसके हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। यदि ऐसा कोई मामला साबित होता है तो आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नियमों से परे हटकर आरपीएफ की कस्ट्डी में मौजूद व्यक्ति से कुछ नहीं लेना है। पृछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति के साथ भी यही नियम लागू होगा। इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया है. उसी का पालन करना है। बाँन्ड या बेल बॉन्ड भरने के लिए सीआरपीसी में जो प्रक्रिया दी गई है, उसी के मृताबिक फॉर्म भरा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है या उसे छोड़ा जाता है तो यह सूचना अविलंब डिविजनल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम और ट्रायल कोर्ट को दी जाएगी। बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर छोडे गए व्यक्ति


की सुचना डिविजनल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम के जरिए सीनियर डीएससी व डीएससी के पास भेजेंगे। ऐसे आरोपी जो किसी प्रक्रिया के तहत रिहा होते हैं. उनके दस्तावेज किसी अलग रजिस्टर में रखे जाने चाहिए। समय-समय पर आला अधिकारी थाने या चौकी में जाकर इस रजिस्टर की जांच करेंगे।

यह भी देखने में आया है कि सभी गिरफ्तार व्यक्तियों की सचना संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंचती। सीआरपीसी में यह विवरण दिया गया है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद वह सूचना किसके पास जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा इस बाबत समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारी केवल अपने दफ्तर में न बैठे रहें। उन्हें थाने व चौकियों में जाकर निरीक्षण करना होगा। उनके संज्ञान में ऐसा कोई कर्मी आता है जो सीआरपीसी का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ

सारसुर्खियां

डीएपी खाद यूरिया खाद की किल्लत बरकरार किसान परेशान



झाँसी। मऊरानीपुर पीसीएफ केंद्र में आज लगातार बीसवें दिन डीएपी खाद और यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान है। और लगातार 20 दिनों से आधी रात से ही किसान पीसीएफ केंद्रों और सोसाइटीयों में लाइन लगाकर बैठ जाते हैं। और खाद आने का इंतजार करते हैं 4 दिनों से पीसीएफ केंद्र मऊरानीपुर में डीएपी खाद नहीं मिल रही है सिर्फ यूरिया का वितरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने किसानों के बीच पहुंचकर किसानों की पीड़ा सुनी पीड़ा सुनकर कहां खाद की आपूर्ति कराएँ जाने हेतु शासन प्रशासन को पत्र लिखा गया है। जल्दी खाँद की किल्लत दूर कराई जाएगी किल्लत दूर नहीं होगी तो मजबूरन आंदोलन करेंगे। परिहार ने किसानों को बताया समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है जिला अधिकारी झांसी ने कहा है जनपद झांसी को जल्द डीएपी खाद की दो रैक और उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर शेखरराज बडोनिया, प्यारेलाल बेधडक, चेनू कुशवाहा, मुकेश कुशवाहा सहित हजारों किसान उपस्थित रहे। मृर्ति का हिस्सा मिला, आरोपी की तलाश जारी



झाँसी। विश्वासी हनुमान मंदिर पुलिया नंबर 9 रेलवे फाटक के पास सिंहवाहनी माता की मूर्ति कुछ अराजक लोगों की वजह से तोड़ी गई थी। इस मूर्ति का हिस्सा शुक्रवार की सुबह मंदिर से कुछ दूरी पर पड़ा मिल गया है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

वहीं, महत हरिओम पाठक सिद्धेश्वर महत द्वारा विश्वासी हनुमान मंदिर का निरीक्षण किया गया और सभी धर्म चारों के साथ वहां पर एक मीटिंग रखी गई जिस मीटिंग में धर्म आचार्य जी के द्वारा यह कहा गया है कि मां दुर्गा जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले को शासन द्वारा जल्द से जल्द सामने नहीं लाया क्या तो समस्त धर्माचार्य मिलकर एक आंदोलन करेंगे। इस मीटिंग में लल्लन महाराज महत चांदमारी हनुमान ,प्रवासी शर्मा , पं. अमित पाठक शास्त्री मनोकामना धूमावती मन्दिर,अजय जायसवाल, अखिलेश परिहार, मोनू परिहार, गोलू ठाकुर ,शत्रुघन, वीर सिंह ,जगदीश परिहार, जितेन शर्मा, राजकुमार मिश्रा, अनूप, जीतेंद्र, साकेत नायक, शिवा बर्मा , सिया शरण चतुर्वेदी, संदीप साहू ,रवि परिहार, आदि मौजूद रहे।

अपने उद्देश्य में सफल रहा हुनरबाज कार्यक्रम- वसी मोहम्मद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ने दी हुनरबाज टीम को बधाई



झाँसी। करोना के समय हम सब की गतिविधियां सीमित हो गई थी। छात्रों में छूपी प्रतिभा जंग खा रही थी। हुनरबाज प्रतिभा का मंच कार्यक्रम ने छात्रों में उमंग का संचार किया है। उक्त विचार बुदेलखंड विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी वसी मोहम्मद ने से ज्यादा लोग देख चके हैं हनरबाज टीम के वॉलिंटियर्स एवं प्रतियोगिता के निर्णायकों को कुलपति समिति कक्ष में संबोधित करते हुए कहे। इस अवसर पर उन्होंने सभी को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के मॉक इंटरव्यू सोशल मीडिया में वायरल हो रहें है। इससे सभी वॉलिंटियर्स की मेहनत साफ दिखाई देती है।

साथ ही लगभग सभी प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की है। निश्चित ही इसके लिए हनरबाज टीम बधाई की


इस अवसर पर कुलसचिव विनय कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक डॉ कौशल त्रिपाठी आयोजन सचिव डॉ शंभू नाथ सिंह, निर्णयकों में डॉ अतुल गोयल, डॉ फुरकान मलिक, डॉ संतोष पांडे, डॉ राजेश पांडे, उमेश शुक्ला, जय सिंह, अभिषेक कुमार, डॉ बुजेश परिहार, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, गोविंद यादव, शिविका भटनागर, शिखा सोनी, डॉ प्रियंका अग्रवाल, पुनीत विश्वकर्मा,दिव्यांशी पुरोहित, जया व्यास, अंशिका बोहरे, पायल जैन, अजय कुमार, शिवांश झा, शिवम पटेल, श्रेया, अपूर्वा, अनिल पस्तोर, इशिका, खुशबू मिश्रा, सुजैन खान, स्मारिका, रोशनी कंचन, तनु तोमर, चाहत, सृष्टि तिवारी, आदित्य कनौजिया, पुष्पेंद्र और प्रज्ञा सुमन उपस्थित रहे।

यूपीएसँसी, नीट, एनँडीए एवं जेईई की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग

झाँसी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिये उ०प्र० शासन द्वारा अभ्युदय योजना अन्तर्गत निशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है, जोकि जनपद झांसी में राजकीय इण्टर कॉलेज झांसी में संचालित है।

उक्त कोचिंग पूरी तरह से निशुल्क है। कोचिंग में यू०पी०एस०सी०, नीट, एन०डी०ए० एवं जे०ई०ई० की तैयारी हेतु सांय 03 बजे से 06 बजे तक निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। इस कोचिंग में विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षण सामग्री बेहतर है। उपरोक्त के दृष्टिगत जनपद के समस्त डिग्री कॉलेजों, इण्टर कॉलेजों व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं छात्रों से अपील है कि उक्त कोचिंग में अपने छात्रों का निशल्क रजिस्टेशन तत्काल करवाकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठायें। कोचिंग में रजिस्ट्रेशन हेतु राजकीय इण्टर कॉलेज में साय 03 बजे से 06 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुशासित तरीके से अपनी ड्यूटी का करेंगे निर्वाहनः एसएसपी



उप चुनावों की संवेदनशीलता झाँसी पुलिस, मैनपुरी के लिए रवाना

झाँसी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने पुलिस लाइन में आगामी उप-चुनावों के दृष्टिगत चुनाव में लगे 256 पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को ब्रीफ किया गया तथा उप चुनावों की संवेदनशीलता के दुष्टिगत विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये।

उन्होंने कहा कि सभी पुलिस कर्मी

डयूटी के दौरान साफ-सुथरी बर्दी धारणकर अनुशासित तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वाहन करेगें। कोई भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्थान नहीं छोडेगें। किसी भी पुलिस कर्मी को कोई समस्या आती है तो यूनिट प्रभारी क्षेत्राधिकारी कार्यालय सुश्री श्वेता कुमारी को अपनी समस्या से अवगत करायेगें। ब्रीफिंग के उपरान्त सभी को बसों द्वारा सम्बन्धित जनपद हेतु रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण

नैपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी कार्यालय सुश्री श्वेता कुमारी , प्रतिसार निरीक्षक चन्द्र भूषण पाण्डेय एवं पुलिस कर्मचारीगण मौजूद रहे।

एसएसपी ने परेड का किया निरीक्षण

परेड़ निरीक्षणोपरान्त कन्ट्रोल रूम, डायल 112, परिवहन शाखा, सहित पुलिस लाइन के विभिन्न मदों का निरीक्षण कर दिये निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस

ने शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परेड़ में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। एसएसपी ने परेड़ निरीक्षण के उपरान्त पुलिस कन्ट्रोल रूम, डायल 112, परिवहन शाखा. शस्त्रागार, भोजनालय, पुलिस लाइन परिसर एवं पुलिस लाइन की विभिन्न मदों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में साफ-सफाई हेतु आवश्यक

दिशा-निर्देश दिये गये। इसके बाद एसएसपी ने पुलिस लाइन में वॉलीवॉल खेल का आयोजन कराया। उन्होंने अच्छे स्वास्थ के प्रति जागरूक करने के लिये वॉलीवॉल स्वंय खेलकर पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान पलिस अधीक्षक ग्रामीण नैपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर अवनीश कुमार गौतम, प्रतिसार निरीक्षक चन्द्र भूषण पाण्डेय एवं अन्य पुलिस अधिकारी/

बिना पहचान पत्र के महंगे दामों बेची जा रही हैं डीएपी

झाँसी। रबी सीजन में शासन के निर्देश के क्रम में पास 19.5 एकड भूमि है उनके द्वारा 20 बोरी डी॰ए॰पी॰ क्रय की गई है। इसी प्रकार कृषक दिनेश जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा माह अक्टबर 2022 कमार, ग्राम-करकोस द्वारा 08 बोरी डी॰ए॰पी॰ क्रय में टॉप-20 डी॰ए॰पी॰ वॉयर्स की जॉच कराई गई। की गई है किन्तु प्रभारी द्वारा उनके नाम 15 बोरी जांच में कई तथ्य सामने आए हैं।

महेन्द्र प्रताप सिंह, प्रबन्ध निदेशक किसान सेवा डी॰ए॰पी॰ खारिज की गई है।

सहकारी सिमिति, मारकुँआ द्वारा कृषक रामजीवन, सुशील कुमार, पी०सी०एफ०, मऊरानीपुर से कृषक ग्राम एवनी को 42 बोरी डीएपी० फर्जी तरीके से दीपेन्द्र सिंह ग्राम-धवाकर द्वारा कोई डी०ए०पी० क्रय खारिज की गई जबकि कृषक के पास 4.5 एकड़ भूमि है। इसी प्रकार कृषक बृजिकशोर तिवारी, ग्राम-सौनकपुर, गुरंसराय के नाम 40 बोरी डी॰ए॰पी॰ फर्जी तरीके से खारिज की गई जबकि कृषक के पास 9 एकड़ भूमि है। श्रीमती सुषमा देवी यादव, प्रबन्ध निदेशक किसान सेवा सहकारी समिति, रेवन द्वारा कृषक द्वारिका प्रसाद पुरी ग्राम स्यावरी, मऊरानीपुर के नाम 15 बोरी डी॰ए॰पी॰ फर्जी तरीके से खारिज की गई है। जबकि कृषक के द्वारा कोई डी०ए०पी० क्रय नहीं की गई है। इसी प्रकार कृषक गजेन्द्र प्रताप सिंह, ग्राम-गढ़वा, मऊरानीपुर द्वारा 09 बोरी डी॰ए॰पी॰ क्रय की गई है जबकि समिति द्वारा फर्जी तरीके 30 बोरी खारिज की गई। राहल यादव. प्रबन्ध निदेशक किसान सेवा सहकारी समिति. सेमरी कषक संजीव कमार करकोस कोई डी॰ए॰पी॰ क्रय नहीं की गई किन्तु समिति द्वारा गणना के नाम पर फर्जी तरीके से कृषक से अंगूठा लगवाया गया है इसी प्रकार कृषक नितेश कुमार लुधियाई के द्वारा कोई डी०ए०पी० क्रय नहीं की गई

नहीं की गई है तथा पी०सी०एफ० द्वारा फर्जी तरीके से 30 बोरी डी०पी०एफ० खारिज की गई है। इस प्रकार कृषक द्वारिका प्रसाद पुरी, ग्राम-स्यावरी द्वारा 05 बोरी डी॰ए॰पी॰ क्रय की गई है किन्तु प्रभारी द्वारा 15 बोरी डी॰ए॰पी॰ फर्जी तरीके से खारिज की गई है। राजेन्द्र कुमार गुप्ता, मै०आर०के० ट्रेडर्स, सिमरावारी, बबीना से कृषक अजय वर्मा द्वारा डी०ए०पी० क्रय की गई है किन्तु उनके पास कोई भूमि नहीं है। विक्रेता द्वारा बिना पहचान पत्र / दस्तावेज के फर्जी तरीके से डी॰ए॰पी॰ खारिज की गई है। जबिक शासन के स्पष्ट निर्देश है कि कृषको को उनकी जोत / खतौनी एवं फसल सस्तुतियों के अनुसार / संस्तुत मात्रा में उनकी पहचान करके उर्वरक विक्रय किया जाये किन्तु उपरोक्त सभी विक्रेताओं द्वारा बिना पहचान पत्र / दस्तावेज के नियम विरुद्ध महंगे दामों पर डी०ए०पी० विक्रय कर कालाबाजारी की गई है जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के उलंघन में उपरोक्त सभी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है।

नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के वार्ड आरक्षण लिस्ट शासन ने शुक्रवार की शाम को जारी कर दी। पार्षद पद के उम्मीदवारों और पार्टियों को लंबे समय से आरक्षण लिस्ट आने का इंतजार था। लिस्ट जारी होने के बाद वार्डों में प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की जा सकती है। इसके बाद मेयर और चेयरमैन की सीटों के आरक्षण की सची जारी की जाएगी।

60 वार्डों की लिस्ट जारी नगर निगम के सभी 60 वार्डों के लिए आरक्षण की सूची शुक्रवार शाम को जारी की गई। सूची पर एक सप्ताह में आपत्ति मांगी गई हैं। इसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी। माना जा रहा है कि आरक्षण की फाइल सूची आने के साथ ही चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो

नगर निगम के वार्डों की सुची

1. हंसारी गिर्द प्रथम- पिछड़ा वर्ग, 2. तालपुरा प्रथम- पिछड़ा वर्ग महिला, 3. भट्टागांव- पिछड़ा वर्ग, 4. खुशीपुरा प्रथम- महिला, 5. ईसाई टोला प्रथम- अनु जाति महिला, 6. नैनागढ़- अनारक्षित, 7. कछियाना पुलिया नं.१- अनु जाति महिला. ८. नई बस्ती प्रथम- पिछडा वर्ग, 9. हंसारी गिर्द द्वितीय-महिला.10. नैनागढ दक्षिणी प्रथम-अनु जाति महिला, 11. बाहर सैंयर गेट- अनारक्षित, 12. स्कूलपुरा-पिछड़ा वर्ग, 13. कोछाभंवर- अनु जाति महिला, 14. खुशीपुरा द्वितीय-अनारक्षित, 15. गढ़ियागांव-अनारक्षित, 16. मसीहागंज-अनारक्षित, 17. नंदनपुरा- पिछड़ा वर्ग महिला, 18. तालपरा द्वितीय-अनु जाति महिला, 19. बंगला घाट-अनु जाति, 20. गुदरी- अनु जाति, 21. सिमरधा- अनु जाति, 22. बिजौली- अनु जाति, 23. लहरगिर्द प्रथम- अनु जाति, 24. सिमराहा-अनु जाति, 25. बगीचा पुलिया नं.९- अनु जाति, 26. ईसाई टोला द्वितीय- अनु जाति, 27. डडियापुरा द्वितीय- अनारक्षित, 28. हीरापुरा-अनारक्षित, 29. नैनागढ़ दक्षिणी द्वितीय- अनारक्षित, 30. अलीगोल प्रथम- महिला, 31. लहरगिर्द द्वितीय- महिला, 32. पिछोर-पिछड़ा वर्ग, 33. बाहर ओरछा गेट

द्वितीय- पिछड़ा वर्ग, 34. नई बस्ती

प्रथम - अनारक्षित, 36. प्रेमगंज द्वितीय- अनारक्षित, 37. बाहर दितया गेट द्वितीय- महिला, 38. अलीगोल द्वितीय- महिला, 39. बाहर दितया गेट प्रथम- महिला 40. आजादगंज- पिछडा वर्ग. 41. नंदनपुरा तृतीय- पिछड़ा वर्ग, 42. सागर गेट- अनारक्षित, 43. नानकगंज- अनारक्षित, 44. सिविल लाइन उत्तरी भाग- अनारक्षित, 45. छनियापुरा- पिछड़ा वर्ग महिला, 46. प्रेमगंज प्रथम- अनारक्षित, 47. तलैया- पिछड़ा वर्ग महिला, 48. मेवातीपरा- अनारक्षित, 49. सिविल लाइन पश्चिम भाग- अनारक्षित. 50. डडियापुरा प्रथम- महिला, 51. सिविल लाइन दक्षिणी भाग द्वितीय-अनारक्षित, 52. मुकरयाना-महिला, 53. बाहर खंडेराव गेट-अनारक्षित, 54. बाहर ओरछा गेट प्रथम- पिछड़ा वर्ग महिला, 55. सिविल लाइन दक्षिणी भाग प्रथम-अनारक्षित, 56. टौरिया नरसिंह राव- पिछडा वर्ग, 57, सीपी मिशन काम्पाउंड-अनारक्षित, गुसाईपुरा-अनारक्षित, डरूभोडेला- अनारक्षित.

लक्ष्मणगंज- पिछड़ा वर्ग महिला।

इलाज में पांच लाख रुपया खर्च होने के बाद भी नहीं बची जान

सड़क हादसे में घायल युवक ने तोड़ा दम

वाहन के इंतजार में खड़े युवक को ट्रक ने मारी थी टक्कर

किन्तु समिति द्वारा 10 बोरी डी॰ए॰पी॰ गणना के नाम

पर खारिज की गई है। यदनाथ सिंह, पी०सी०एफ०,

चिरगाँव से कृषक संजीव कुमार, ग्राम करकोस के

झाँसी। ट्रक की टक्कर लगने से घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। यह युवक वाहन के इंतजार में सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज गति से आ रहे टुक ने टक्कर मार दी थी। एक निजी अस्पताल में पांच लाख रुपया खर्च होने के बाद भी जान नहीं बची है। सूचना पर गई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

रक्सा थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर निवासी मोनू यादव जेसीबी चलाता था। परिजनों के मुताबिक 26 नवंबर को मोनू यादव किसी काम से रामगढ़ गया था। वहां पर पैदल जाते सडक किनारे वाहन के इंतजार

में खड़ा हो गया, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने मोनू को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगनें से वह गंभीर रुप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे मेडिकल कालेज लाया गया। इसके बाद परिजनों ने मोनू यादव को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। उपचार के दौरान मोनू यादव की मौत हो गई। सूचना पर गई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। वहीं, परिजनों के मुताबिक कानपुर बाइपास पर एक निजी अस्पताल में मोनू यादव को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। वहां इलाज में पांच लाख रुपया खर्च हो गया। सुबह चार बजे डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। मेडिकल कालेज में कुछ देर इलाज चला। इसके बाद मोनू की मौत हो गई।

मोनू यादव जैसे कड़यों की हो ही ख़िलवाड़ हो रहा हैं। चुकी है मौत

निजी अस्पताल अब मौतों का अड्डा बनती जा रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस जिन निजी अस्पताल में मरीजों की मौत न हो रही है। मौत के पहले निजी अस्पताल का मालिक मनमाफिक पैसा वसूल कर लेता है। इसकी जानकारी यहां के सत्तादल से जुड़े नेता, सांसद व प्रशासनिक अफसरों को अच्छी तरह से है मगर यह लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोगों का कहना है कि इस निजी अस्पताल में कई मरीजों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। मेडिकल कालेज में दलाल निजी अस्पताल में ले जाते हैं। वहां मौत से पहले घायल को वापस मेडिकल कालेज में भेज दिया जाता है। झाँसी में मरीजों के साथ ऐसा

शादी के पांच माह बाद युवती ने

लगा ली फाँसी पिता ने कहा- हत्या के बाद बेटी के

शव को फाँसी के फंदे पर लटकाया


शादी के पांच माह बाद एक युवती ने फाँसी लगाकर जान दे दी। वहीं, मतका के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी की हत्या की गई। इसके बाद शव को फाँसी के फंदे पर लटकाया गया है। सूचना पर गई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज

महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र के नाथुपुरा निवासी श्यामलाल प्रजापित ने बताया कि उसकी लड़की आरती की शादी बरुआसागर

थाना क्षेत्र के नईबस्ती मोहल्ले में रहने वाले पवन प्रजापित से पांच जून 2022 को हुई थी। शादी में उसने हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले बेटी को परेशान कर रहे थे। करीब दो सप्ताह पहले ही बेटी मायके से ससुराल आई थी। बुधवार को उसने अपनी मां मुन्नी देवी से बात की। बताया था कि ससुराल वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं। दूसरे दिन सुसाइड करने की खबर मिली है।वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि पवन कसबे में फर्नीचर की दुकान में काम करता है। गुरुवार को वह काम पर गया था। वह दोपहर में खाना खाने घर आया तो पत्नी का शव घर के आंगन में जाल पर साड़ी के फंदे पर लटका था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया।

संस्थापक प्रधान संपादक स्व. महेश प्रसाद अग्रवालः दैनिक भास्कर के स्वत्वाधिकारी एवं सम्पादक संजय कुमार अग्रवाल के लिये प्रकाशक, मुद्रक रमेश चन्द्र तिवारी द्वारा इम्प्रेसन्स प्रिन्टिंग एण्ड पैकेजिंग लि. 14-15, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, ग्वालियर रोड, झांसी (उ.प्र.) से मुद्रित एवं 31, रानी महल झांसी से प्रकाशित। फोन-2440550 आर.एन. आई. नं. 4645/58, डाक पंजीकरण संख्या-42/09 जनवरी 2013 समाचार चयन के लिये पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। समस्त विवाद झांसी न्यायालय के अधीन होंगे। E-mail: dbjhansi@rediffmail.com, E-paper-dainikbhaskarup.com






गीता जयंती का दिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद भगवद-गीता के जन्म का प्रतीक है। मार्गशीर्ष मॉस में शक्ल पक्ष के 11 वें दिन यह जयंती मनाई जाती है।

भगवद गीता या "भगवान का गीत" हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक गृंथों में से एक है और साधारणतः सुवाधिक प्रसिद्ध है। यह शताब्दियों से लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों, धर्मशास्त्रियों, और दार्शनिकों - दूसरों के बीच - द्वारा उद्धृत किया गया है और अक्सर पश्चिमी दर्शकों के लिए हिंदू धर्म का परिचयात्मक पाठ है। हमारे समय के कई महान विचारकों जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, और अल्बर्ट श्वेइज़र के साथ-साथ माधवाचार्य, शंकर और रामानुज जैसे बीते युगों ने इसके कालातीत संदेश पर चिंतन और विचार-विमशें किया है।

पवित्र भगवद गीता, पांच पांडव राजकुमारों में से एक अर्जुन और श्री विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बीच एक संवाद का वर्णन करती है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण, अर्जुन के सारथी की भूमिका में होते हैं । अर्जुन और उनके भाइयों को 13 साल के लिए राज्य से निवासित कर दिया गया था और परिवार के एक अन्य गुट द्वारा उनकी सही विरासत से पृथक कर दिया गया था; गीता सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए उनके संघर्ष को उठा लेती ्हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि अर्जून को अपने सारे सैन्य कौशल को सहन करते हए स्वयं के परिजनों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहिए।


कहानी कुरुक्षेत्र के धूल भरे मैदानों से शुरु होती है, जहां अर्जुन, एक प्रसिद्ध तीरंदाज, लड़ने के लिए तैयार है। परन्तु परन्तु संकोच करता है विह अपने मित्रों, शिक्षकों, और रिश्तेदारों के खिलाफ कतारबद्ध देखता है, और मानता है कि लड़ने के लिए - और संभावित रूप से मारने के लिए - इन लोगों के प्रति गंभीर पाप करना होगा जो कुछ भी अच्छा नहीं ला सकता है भले ही वह राज्य को वापस जीत लेने की बात हो। कृष्ण, उसे उसकी कायरता के लिए डांटते हैं - अर्जुन योद्धा जाति से है, और योद्धा लड़ने के लिए होते हैं - परन्तु फिर अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए एक आध्यात्मिक तर्क पेश करते हैं, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति की चर्चा शामिल है। योग, साथ ही देवत्व की प्रकृति, मानव जाति की अंतिम नियति, और नश्वर जीवन का उद्देश्य देते हैं।

गीता उच्चतम गूढु सिद्धांतों से युक्त ग्रंथ है। इसकी भाषा इतनी मधुर है कि कोई इसे आसार्गी से समझ सकता है परन्तु संदेश इतना गहरा है कि कोई अपने जीवनकाल में इसे पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है। श्रीकृष्ण द्वारा कही गुई गीता इतनी गूढ़ है कि ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आध्यात्मिक पहलू से रहित हो।



१८ अध्याय, ७०० श्लोक

भगवद गीता के अठारह अध्यायों को तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहले ६ अध्याय **कर्म योग या कर्तव्य पथ** का वर्णन करते हैं। दूसरा सेट, अध्याय ७ से १२ तक, **'भक्ति' के मार्ग, या भगवान के प्रति** प्रे**मपूर्ण भक्ति की महिमा** करता है। वे भक्ति का पोषण करने वाले दिव्य अमृत के रूप में भगवान के ऐश्वर्य का भी वर्णन करते हैं। तीसरा सेट, अध्याय १३ से १८ तक, **तत्त्व ज्ञान, या ज्ञान शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों**



पवित्र गीता से कुछ चुने श्लोक

कर्म योग या कर्म द्वारा योग इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥

स्थूल शरीर से इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं और इन्द्रियों से श्रेष्ठ मन है। मन से परे बृद्धि है और बृद्धि से भी परे आत्मा है।

एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहिँ शत्रु महाँबोहो कामरूपं दुरासदम् ॥ (Ch.3, ver. 43) इस प्रकार बुद्धि से भी उच्च आत्मा को जानकर और बुद्धि से मन को वश में करके इस दर्गम शत्रु रूपी कामना का संहार करो।

सच्चे आध्यात्मिक गुरु का महत्व

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ (Ch. 4, ver. 34)

आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानें। श्रद्धा से उससे पूछो और उसकी सेवा करो। ऐसे प्रबुद्ध संत आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है।

यज्जात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ (Ch. 4, ver. 35)

इस मार्ग पर चलते हुए और एक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, हे अर्जुन, तुम अब भ्रम में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के प्रकाश में, तुम देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश मात्र हैं, और मेरे भीतर हैं।

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥

(Ch. 4, ver. 36)

यहां तक कि जो सभी पापियों में सबसे अनैतिक माने जाते हैं, वे भी दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर भौतिक अस्तित्व के इस महासागर को पार कर सकते हैं।

सार्वभौमिक प्रेम और करुणा

तबद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिषूतकल्मषाः ॥

जिनकी बुद्धि ईश्वर में स्थिर है, जो ईश्वर में पूर्ण रूप से लीन हैं, उनमें परम लक्ष्य के रूप में रढ विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश से अपने पापों को दूर करके शीघ्र ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जहां से कोई वापसी नहीं होती है।

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ (Ch. 5, ver. 18) दिव्य ज्ञान की आँखों से, वास्तव में विद्वान एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते

और एक कत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं।

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

(Ch. 5, ver. 21)

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ जो बाह्य इन्द्रिय सुखों से आसक्त नहीं हैं वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से भगवान के साथ एक होने के कारण वे अनंत सुख का अनुभव

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्योतिरेव यः।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ (Ch. 5, ver. 24) जो अपने भीतर प्रसन्न हैं, भीतर भगवान के आनंद का आनंद ले रहे हैं, और आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं।

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः।

ि छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ वे पवित्र व्यक्ति, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके संदेह नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं, और जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे भगवान को प्राप्त करते हैं और भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाते हैं।

कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता

प्राप्य प्ण्यकृतां लोकान्षित्वा शाश्वतीः समाः ।

(Ch. 6, ver. 41)

शुचीनों श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ मृत्यु के बाद असफल योगी पुण्यात्माओं के लोकों में जाते हैं। कई युगों तक वहाँ रहने के बाद, वे फिर से पृथ्वी लोक में पवित्र और समृद्ध लोगों के परिवार में पुनर्जन्म लेते हैं।

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥

(Ch. 6, ver. 42) अन्यथाँ योग के दीर्घ अभ्यास के कारण यदि उनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया होता, तो वे दिव्य ज्ञान युक्त कुल में जन्म लेते हैं। इस संसार में ऐसा जन्म प्राप्त करना बहुत कठिन है।

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ (Ch. 6, ver. 43) ऐसा जन्म लेकर वे अपने पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः प्राप्त करते हैं, और योग में सिद्धि के लिए और भी अधिक प्रयास करते हैं। ऐसे साधक स्वांभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांड के सिद्धांतों से ऊपर उठ जाते हैं।

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥

पिछले कई जन्मों के संचित पृण्यों के साथ, जब ये योगी आगे की प्रगति करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता

भगवद गीता और सहज योग

दिए गए श्लोकों का एक ही अर्थ है - सर्वव्यापक शक्ति से एकाकार हो जाना । यही योग है। शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से योग का अर्थ है 'आत्मा' का 'परमात्मा' से मिलन। एक बार जब योग पूरा हो जाता है तो सभी प्रकार का कल्याण होता है।

जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं:

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।

तेषां नित्याभियक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ (Ch. 9, ver. 22) हालाँकि, जो भक्त किसी और से प्रेम नहीं करते हैं, वे लगातार मेरे बारे में सोचते हैं और एक निःस्वार्थ भावना से मेरी पूजा करते हैं, जो हमेशा मेरे साथ विचारों में एकजुट रहते हैं, मैं पूरी सुरक्षा लाता हूं और व्यक्तिगत रूप से उनकी जरूरतों को पूरा करताँ हं।

अब बात यह है कि योग और यौगिक अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। सहज योग **ी संस्थापिका परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी क्या कहती हैं:**

धर्म के सभी प्रकार के कर्मकांडों को दूर करने के लिए, श्री कृष्ण का आगमन हुआ था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे समझते हैं। श्री कृष्ण ने इसे उतना ही स्पष्ट रूप से कहा है जितना कोई भी कह सकता है। बहुत, बहुत स्पष्ट रुप से - कि आपको अपने धर्मों से परे जाना है, इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो सहज रूप से धार्मिक है और ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है जो सिर्फ बाहरी रूप से ईसाई, हिंदू, मुस्लमान जैसा कुछ है। नहीं! अंदर! अंदर आपको बनना है। ईश्वर को ऑप किसी कर्मकोंड में नहीं बांध सकते। इसलिए वह इस धरती पर आए; आपको यह बताने के लिए कि आपको अपने आप को उन रीति-रिवाजों से बाँधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो बेतुके हैं।

अंतस में जाने के लिए हमें स्वयं का जान होना चाहिए। यह केवल 'कंडलिनी' नामक ं माध्यम से संभव है, केंद्रों को जोड़ने वाली हमारी रीढ़ के आधार से उठती है, हमारे सिर के ऊपर फॉन्टानेल हुई। को खोलकर सर्वव्यापी शक्ति से जुड़ने के लिए रास्ता बनाती है। ब्रह्मशक्ति हमारे सुक्ष्म तंत्र में प्रवेश करने के लिए और हमारे अस्तित्व में योग की स्थिति को प्रकट करने के लिए चैतन्य या 'वायब्रेशन्स' नामक ठंडी हवा के रूप में प्रवाहित होती है। इसके अलावा, आत्म-साक्षात्कार के रूप में जानी जाने वाली हमारी आध्यात्मिक यात्रा भगवद गीता में प्रतिष्ठापित के रूप में शुरू होती है। प्रत्येक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य दिव्य शक्ति के साथ एक होने का होना चाहिए।

आत्म-साक्षात्कार या योग का अनभव परम पुज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा आसान बना दिया गया है, जब उन्होंने ५ मई १९७० को 'कुंडलिनी' को जगाकर सहस्त्रार नाम से जाने जाना वाला सातवाँ चक्र खोला, जिससे यह पहली विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में जनसमूह स्तर पर आत्म-साक्षात्कार देना संभव हुआ। इस प्रकार, सहज योग का जन्म हुओं और वर्तमान में दुनिया के 140 से अधिक देशों में इसका अभ्यास किया जाता हैं और अभ्यासी आनंदमय जीवन जी रहे हैं। 'सहज' का अर्थ है आपके साथ पैदा हुआ और 'योग' का अर्थ है सर्वव्यापी शक्ति के साथ ' आत्मा '

जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं: - "स्थितप्रज्ञ" की स्थिति में रहो

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

(Ch. 2, ver. 55)

जब कोई मन की सभी तष्णाओं को परी तरह से त्याग देता है और स्वयं के आनंद के माध्यम से आत्मा में संतुष्ट होता है, तो उसे स्थिर मन कहा जाता है।

परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी हमें 'स्थितप्रज्ञ' के एक गहरे पहलू से अवगत करातीं हैं, जिसका अर्थ है कि आप जहाँ भी स्थित हैं ('स्थित') प्रबुद्ध ('प्रा') जान ('ज') प्राप्त करें। यह स्वयं भगवद गीता और सहज योग के साथ-साथ अन्य पवित्र शास्त्रों में निहित विषय के ज्ञान के साथ-साथ अलग-अलग शब्दावली और पदावली के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। सहज योग पर अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें या दी गई वेबसाइटों को ब्राउज़ करें।

गीता जयंती की अनेक शुभकामनायें सहज योग परिवार



Sahaja Darshan Prachaar aur Prasaar Samiti adlakhagk@gmail.com | +91 98712 78936 www.nirmaldham.org | www.sahajayogamumbai.org www.sahajayoga.org.in | Toll Free - 1800 2700 800